

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2024—फाल्गुन 4, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2024

क्र. एफ-5-13-2022-साप्रवि-कक्ष (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल वर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर को ओएसडी-कम-पीपीएस मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. ए-8716-(दो-01-12-2022) दिनांक 27 दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में दिनांक 8 दिसम्बर 2023 का एक दिवस का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

आर. क्र 214-1811081-2024-साप्रवि-कक्ष (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अमर नाथ (केशरवानी) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को ओएसडी-कम-पीपीएस, उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक-ए-8719-(दो-5-2022) दिनांक 27 दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में दिनांक 12 से 13 दिसम्बर 2023 तक, दो दिवस का पूर्ण वेतन एवं भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2024

क्र. एफ-5-10-2022-साप्रवि कक्ष (1).— माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राज मोहन सिंह, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., मध्यप्रदेश उच्च, न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी-166-(दो-1-18-2023) दिनांक 6 जनवरी 2024

के अनुक्रम में दिनांक 11 से 15 दिसम्बर 2023 तक का पाँच दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 दिसम्बर 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 13-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल को दिनांक 30 जनवरी से 8 फरवरी 2024 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) सुश्री सविता सोहाने, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री कुमार प्रतीक, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री सविता सोहाने, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल, रेंज शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 184-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री संजय कुमार झाँ, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय

विस्तार वर्ष में दिनांक 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर यात्रा अन्तर्गत मधुबनी (बिहार) जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री संजय कुमार झाँ, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे विशेष पुलिस महानिदेशक, (शिकायत), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार झाँ, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय कुमार झाँ, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार झाँ, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार झाँ, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 187-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राजेश चावला, भापुसे, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 19 से 20 फरवरी 2024 तक, दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 17 व 18 फरवरी 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर सहारनपुर (उत्तरप्रदेश) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान करता है :-

- | | | | |
|----|----------------------|---|-------|
| 1. | श्री राजेश चावला | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती सुनीता चावला | — | पत्नी |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2024

क्र. एफ 1-49-2021-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु. मु., भोपाल को दिनांक 26 फरवरी से 15 मार्च 2024 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24-25 फरवरी 2024 के पूर्ववर्ती एवं दिनांक 16-17 मार्च 2024 के पश्चात्पूर्वी विज्ञप्त अवकाश अवधि में प्रिन्सटन, न्यू जर्सी (USA) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

(2) श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री योगेश मुदगल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 191-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (शिकायत/मा. अ.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 18 से 22 मार्च 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 व 23-25 मार्च 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर के स्थान पर उत्तर-पूर्वी राज्य गंगटोक (सिक्किम) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार

के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- | | | | |
|----|----------------------|---|--------|
| 1. | डॉ. अशोक अवस्थी | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती मंजरी अवस्थी | — | पत्नी |
| 3. | कु. आरूषी अवस्थी | — | पुत्री |
| 4. | कु. आतिष्या अवस्थी | — | पुत्री |

(2) डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (शिकायत/मा. अ.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, द्वारा अपने कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

पंजी क्रमांक 781-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती विनिता गुप्ता, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देवास का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य दण्डाधिकारी (सी. जे. एम.), कटनी के पद पर श्री विकास चौहान के स्थान पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2024

पंजी क्र. 583-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर में विभागीय आदेश दिनांक 30 नवम्बर 1999 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री नंदकिशोर पवार का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

पंजी क्र. 611-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह में विभागीय आदेश दिनांक 7 मई 1993 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री एम. पी. श्रीवास्तव का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भट्टेले, अपर सचिव.

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2024

क्र. एफ 2-1-2020-साठ.—राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक-एफ-2-1-2020-साठ, दिनांक 28 दिसम्बर 2021 से मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन के उपबंध 71 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय श्री गिराज दण्डोतिया को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

एतद्द्वारा उक्त अशासकीय नामांकन/नियुक्ति तत्काल प्रभार से निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2024

क्र. एफ 2.1-2024-साठ.—सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक-एफ 11-02-2019-1-9, दिनांक 24 नवम्बर 2020 द्वारा प्रशासकीय विभाग के अंतर्गत निगमों / मंडलों / समिति / परिषदों / प्राधिकरणों के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के माननीय भार-साधक मंत्री को सौंपे जाने के निर्देश हैं।

राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के उपबंध 71 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मंत्री, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यभार दिया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2024

क्र. एफ-13-09-2021-तेरह.—यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-27-2021-ए-ग्यारह, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 के द्वारा सतलापुर, जिला रायसेन में मेसर्स वर्धमान टेक्सटाईल लिमिटेड की इकाई मेसर्स वर्धमान यार्न की विस्तार इकाई के लिए विद्युत शुल्क से छूट को सम्मिलित करते हुए, विभिन्न सुविधाएं इस शर्त के साथ प्रदान की थीं, कि इकाई आदेश की तारीख से तीन वर्ष में अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी;

(2) और, यतः, एम. पी. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2023 के द्वारा सूचित किया है, कि विस्तार इकाई से दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा इकाई दिनांक 30 सितम्बर, 2022 से 29 सितम्बर, 2032 तक (10 वर्ष) की अवधि के लिए, अतिरिक्त विद्युत भार 34500 केव्हीए से 37200 केव्हीए, अर्थात् 2700 केव्हीए की सीमा तक पर विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है;

(3) अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सतलापुर, जिला रायसेन में मेसर्स वर्धमान टेक्सटाईल लिमिटेड की इकाई मेसर्स वर्धमान यार्न की विस्तार इकाई के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदान की गई विद्युत पर दिनांक 30 सितम्बर, 2022 से शुरू होने वाली दस वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है:

परन्तु विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल उपरोक्त इकाई के कारण विद्यमान उच्चदाब संयोजन पर अतिरिक्त विद्युत भार 2700 केव्हीए (34500 केव्हीए से 37200 केव्हीए) की सीमा तक एवं सब-मीटर क्रमांक-Q-0560440 के माध्यम से इकाई को प्रदाय की गई विद्युत पर ही उपलब्ध होगी।

(4) यह अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा 10 वर्ष तक के लिए प्रवृत्त रहेगी।

Bhopal, the 13th February, 2024

No. F-13-09--2021-XIII.—WHEREAS, the Industrial Policy and Investment Promotion Department, Government of Madhya Pradesh vide its Order No. F-16-27-2021-A-XI, dated 14th December, 2021 has granted various facilities,

including exemption from Electricity Duty for the expansion unit of M / s Vardhaman Yarn Unit of M / s Vardhaman Textile Limited in Satlapur, District Raisen with the condition that the unit shall start its Commercial Production in three years from the date of order;

(2) AND, WHEREAS, M. P. Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 2nd August, 2023 has intimated that Commercial Production from the expansion unit has been started on 30th September, 2022 and the unit is eligible to get Electricity Duty exemption benefit for the period from 30th September 2022 to 29th September, 2032 (10 years) on additional electrical load from 34500 KVA to 37200 KVA i.e., limited to 2700 KVA;

(3) NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhinyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts expansion unit of M / s Vardhaman Yarn Unit of M / s Vardhaman Textile Limited in Satlapur, District Raisen from payment of Electricity Duty on the Electricity sold or supplied by Distribution Licensee to existing high-tension connection for a period of ten years starting from 30th September 2022:

Provided that such exemption from payment of Electricity Duty shall be available only to the extent of 2700 KVA (from 34500 KVA to 37200 KVA) additional electrical load coming on the existing high tension connection, due to the above unit and the electricity supplied to the unit through sub-meter No. Q-0560440.

(4) This notification shall be deemed to have come into force with effect from 30th September, 2022 and will remain in force for 10 years.

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2024

क्र. एफ-13-08-2021-तेरह.—यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-26-2021-ए-ग्यारह, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 के द्वारा बुधनी, जिला सीहोर में मेसर्स वर्धमान टेक्सटाईल लिमिटेड की इकाई मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स की विस्तार इकाई के लिए विद्युत शुल्क से छूट को सम्मिलित करते हुए, विभिन्न सुविधाएं इस शर्त के साथ प्रदत्त की थी, कि इकाई आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्ष में अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी;

(2) और, यतः, एम. पी. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के द्वारा सूचित किया है, कि विस्तार इकाई (DIPIP22951) से दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा इकाई दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 से 30 दिसम्बर, 2032 तक (10 वर्ष) की अवधि के लिए, अतिरिक्त विद्युत भार 18500 केव्हीए से 25500 केव्हीए,

अर्थात् 7000 केव्हीए की सीमा तक पर विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है;

(3) अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, बुधनी, जिला सीहोर में मेसर्स वर्धमान टेक्सटाईल लिमिटेड की इकाई मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स की विस्तार इकाई (DIPIP22951) के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 से शुरू होने वाली दस वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है:

परन्तु विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल उपरोक्त इकाई के कारण विद्यमान उच्चदाब संयोजन पर अतिरिक्त विद्युत भार 7000 केव्हीए (18500 केव्हीए से 25500 केव्हीए) की सीमा तक एवं सब-मीटर क्रमांक-Q- 0560446 के माध्यम से इकाई को प्रदाय की गई विद्युत पर ही उपलब्ध होगी.

(यह अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा 10 वर्ष तक के लिए प्रवृत्त रहेगी.

No. F-13-08--2021-XIII.—WHEREAS, the Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its Order No. F-16-26-2021-A-XI, dated 14th December, 2021 has granted various facilities, including exemption from Electricity Duty for the expansion unit of M / s Vardhaman Febrics Unit of Vardhaman Textile Limited in Budhni, District Sehore with a condition that the unit shall start its Commercial Production in three years from the date of order;

(2) AND, WHEREAS, M. P. Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 20th October, 2023 has intimated that Commercial Production from the expansion unit (DIPIP 22951) has been started on 31st December, 2022 and the unit is eligible to get Electricity Duty exemption benefit for the period from 31st December 2022 to 30th December, 2032 (10 years) on additional electrical load from 18500 KVA to 25500 KVA i.e., limited to 7000 KVA;

(3) NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhinyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts expansion unit (DIPIP 22951) of M / s Vardhaman Fabrics Unit of Vardhaman Textile Limited in Budhni, District Sehore from payment of

Electricity Duty on the Electricity sold or supplied by Distribution Licensee to existing high-tension connection for a period of ten years starting from 31st December 2022;

Provided that such exemption from payment of Electricity Duty shall be available only to the extent of 7000 KVA (from 18500 KVA to 25500 KVA) additional electrical load coming on the existing high tension connection, due to the above unit and the electricity supplied to the unit through sub-meter No. Q 0560446.

(4) This notification shall be deemed to have come into force with effect from 31st December, 2022 and will remain in force for 10 years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 3 जनवरी 2024

क्र. 20-सामान्य-2024.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम.

3-2-2-1999-1-4, भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-02 के अनुक्रमांक 04 के नियम-08 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2024 में सम्पूर्ण जिला सिंगरौली की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नलिखित दिनाकों को 3 स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं :-

क्र.	दिनांक	दिन	त्यौहार / अवकाश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	15 जनवरी 2024	सोमवार	मकर संक्रांति
2	17 सितम्बर 2024	मंगलवार	विश्वकर्मा जयंती/ अतंत चतुर्दशी
3	11 अक्टूबर 2024	शुक्रवार	महानवमी

टीप :- (1) उपरोक्त स्थानीय अवकाश जिले के कोषालय/उप कोषालयों तथा बैंकों में लागू नहीं होंगे.
(2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनाकों में परीक्षाएं एवं नियत हैं, उन पर यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाएँ निर्धारित कार्यक्रम अनुसार यथावत संचालित होंगी.

अरूण परमार, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 फरवरी 2024

क्र. 1054-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.-22 ए-101-एम.पी.एस.-1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम, के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम, की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम, की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-खापा बिहारी प.ह.नं.-35 ब.न.-44 रा.नि.मं.- चांद.	रकबा-01.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
					(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
					(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
					(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
					(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
					(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्र. 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
					(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 12 फरवरी 2024

प्र. क्र. 31-अ-82 वर्ष 2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) देवेन्द्रनगर	(3) पिपरिया	(4) निजी भूमि रकवा 0.350 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.000 हे. कुल रकवा 0.350 हे.	उप मुख्य अभियंता / नि.-द्वितीय पश्चिम मध्य रेलवे सतना.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोवा-खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु (पूरक / छुटे हुये रकवों का प्रस्ताव).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता / नि. द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे सतना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 32-अ-82 वर्ष 2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) देवेन्द्रनगर	(3) चौपरा	(4) निजी भूमि रकवा 1.965 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा 1.887 हे. कुल रकवा 3.852 हे.	उप मुख्य अभियंता / नि.-द्वितीय पश्चिम मध्य रेलवे सतना.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोवा-खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु (पूरक / छुटे हुये रकवों का प्रस्ताव).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता / नि. द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे सतना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरजिंदर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 26 सितम्बर 2023

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 1392-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतःसही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) भाजीखेरा	(4) 2.6724 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के जैतवारा माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 3 जनवरी 2024

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 78-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतःसही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) रघुराजनगर	(3) रामपुर चौरासी	(4) 10.0551 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 20 फरवरी 2024

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 685-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	इटौरा कला	3.8026 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	हडहा सब माइनर, अंतरौरा सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 286-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	देवरी	2.3664 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	जैतवारा माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 687-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	गिंजारा	16.6512 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	भुलनी वितरिका अकौना माइनर एवं सब माइनर, भुलनी टेल माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 688-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	बरकछी	0.6926 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	उरदान सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 12 फरवरी 2024

प्र. क्र. 31-अ-82 वर्ष 2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) देवेन्द्रनगर	(3) पिपरिया	(4) निजी भूमि रकवा 0.350 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.000 हे. कुल रकवा 0.350 हे.	उप मुख्य अभियंता / नि.-द्वितीय पश्चिम मध्य रेलवे सतना.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोवा-खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु (पूरक / छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता / नि. द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे सतना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 32-अ-82 वर्ष 2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) देवेन्द्रनगर	(3) चौपरा	(4) निजी भूमि रकवा 1.965 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा 1.887 हे. कुल रकवा 3.852 हे.	उप मुख्य अभियंता / नि.-द्वितीय पश्चिम मध्य रेलवे सतना.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोवा-खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु (पूरक / छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता / नि. द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे सतना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरजिंदर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 26 सितम्बर 2023

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 1392-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतःसही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) भाजीखेरा	(4) 2.6724 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के जैतवारा माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 3 जनवरी 2024

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 78-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतःसही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) रघुराजनगर	(3) रामपुर चौरासी	(4) 10.0551 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 20 फरवरी 2024

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 685-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1) सतना	(2) नागौद	(3) इटौरा कला	(4) 3.8026 हे.	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	(6) हडहा सब माइनर, अंतरौरा सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 286-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1) सतना	(2) नागौद	(3) देवरी	(4) 2.3664 हे.	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	(6) जैतवारा माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 687-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) गिंजारा	(4) 16.6512 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	भुलनी वितरिका अकौना माइनर एवं सब माइनर, भुलनी टेल माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 688-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) बरकछी	(4) 0.6926 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	उरदान सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 689-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतःसही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) इटमा	(4) 1.4280 हे.	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	(6) इटमा माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013)

[क्रमांक 30, सन् 2013 की धारा 19(1) के अन्तर्गत]

खरगोन, दिनांक 15 जनवरी 2024

क्र. 10-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—बंझर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.613 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
502/1	0.100
502/2	0.100
502/3	0.150
503/4	0.342
507	0.115
508	0.640
509	0.405
512	0.240
516/2, 516/3/2, 516/4/2	0.100
524/3	0.100
524/4	0.240
524/10/2, 524/11	0.370
534/10/1/1	0.561
534/10/1/2	0.150
योग . .	3.613

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“रोशिया तालाब के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु”.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 689-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतःसही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) इटमा	(4) 1.4280 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	इटमा माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013)

[क्रमांक 30, सन् 2013 की धारा 19(1) के अन्तर्गत]

खरगोन, दिनांक 15 जनवरी 2024

क्र. 10-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—बंझर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.613 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
502/1	0.100
502/2	0.100
502/3	0.150
503/4	0.342
507	0.115
508	0.640
509	0.405
512	0.240
516/2, 516/3/2, 516/4/2	0.100
524/3	0.100
524/4	0.240
524/10/2, 524/11	0.370
534/10/1/1	0.561
534/10/1/2	0.150
योग . .	3.613

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“रोशिया तालाब के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु”.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्रमांक-यूडीएच-3/0005/2024/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि0क0अ0 आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4670/टीसी/42/श्योपुर/ उपां/नग्रानि/2023 दिनांक 04/10/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित श्योपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम कस्बा श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर	1420 1421	0.0730 0.1570	वर्तमान आवासीय एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
		कुल रकबा	0.230 हेक्टेयर		

शर्तें:-

- भूमि के पश्चिम दिशा स्थित किला रोड हुसैन चौक से किला गेट तक मार्ग की श्योपुर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित चौड़ाई 15.00 मीटर निर्दिष्ट है। अतः मार्ग के मध्य से दोनों ओर 7.50 मीटर- 7.50 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।
- वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु नियमन, श्योपुर विकास योजना, 2021 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार लागू होंगे ।
- उपरोक्त उपांतरण श्योपुर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

सूचना

क्रमांक-यूडीएच-3/0009/2024/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4709/टीसी/50/मंदसौर/ उपां/नग्रानि/ 2023 दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित मंदसौर विकास योजना 2011 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	कस्बा मंदसौर तहसील मंदसौर नगर एवं जिला मंदसौर	755 755/1	0.627 0.441	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा मार्ग	वाणिज्यिक तथा मार्ग
		कुल रकबा	1.068 हेक्टेयर		

शर्तें:-

1. मंदसौर विकास योजना 2011 से प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख महु-नसीराबाद मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 32.00 मीटर एवं पूर्व दिशा में विद्यमान मार्ग की चौड़ाई नियोजन की दृष्टि से न्यूनतम 18.00 मीटर रखना अनिवार्य होगा। अतः मार्गों के विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा
2. वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म०प्र० भूमि विकास नियम, 2012 एवं मंदसौर विकास योजना, 2011 के प्रावधानानुसार लागू होंगे।
3. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।
4. उपरोक्त उपांतरण मंदसौर विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा।

सूचना

क्रमांक-यूडीएच-3/0010/2024/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4415/टीसी/110/इंदौर/ उपां/नग्रानि/ 2023 दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्त निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम कस्बा इंदौर तहसील जुनी इंदौर जिला इंदौर	866/1/2 866/3/1/2	0.354 0.546	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
		कुल रकबा	0.900 हेक्टेयर		

शर्त:-

1. प्रश्नाधीन स्थल के उत्तर दिशा में विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः मार्ग के विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।
2. प्रश्नाधीन स्थल के पूर्व दिशा में विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः मार्ग के विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।
3. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

सूचना

क्रमांक-यूडीएच-3/0011/2024/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि0क0अ0 आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4722/टीसी/47/छतरपुर/औरछा/उपां/नग्रानि/ 2023 दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित ओरछा विकास योजना 2011 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1	2.	3.	4.	5.	6.	7
1	ओरछा तहसील ओरछा एवं जिला निवाड़ी	638/2/1/2 574/2/2	3.00 5.00	3.00 2.38	वर्तमान एवं प्रस्तावित आवासीय, आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत वर्तमान एवं प्रस्तावित उद्यान तथा मार्ग, वर्तमान एवं प्रस्तावित आवासीय, आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत वर्तमान एवं प्रस्तावित उद्यान तथा मार्ग,	वाणिज्यिक, आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत उद्यान तथा मार्ग, वाणिज्यिक, आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत उद्यान तथा मार्ग,
		कुल रकबा	8.00	5.38		

शर्तें:-

- ओरछा विकास योजना, 2011 में वर्तमान एवं प्रस्तावित आमोद-प्रमोद के अंतर्गत उद्यान को यथावत रखना अनिवार्य होगा ।
- प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व दिशा में स्थित झांसी-टीकमगढ़ सम्मुख स्थित मार्ग की चौड़ाई 20.00 मीटर एवं पश्चिम दिशा में स्थित वर्तमान बायपास मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर रखी जाना अनिवार्य होगा ।
- वाणिज्यिक गतिविधियाँ हेतु नियमन ओरछा विकास योजना 2011 के प्रावधानुसार लागू होंगे ।
- स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।
- खसरा क्रमांक 574/2/2 में रकबा 0.24 हेक्टेयर भूमि रास्ता है । अतः नियोजन की दृष्टि से इस रास्ते चौड़ाई 12.00 मीटर रखना आवश्यक होगा ।
- उपरोक्त उपांतरण ओरछा विकास योजना, 2011 का एकीकृत भाग होगा ।

सूचना

क्रमांक-यूडीएच-3/0012/2024/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4666/टीसी/117/बालाघाट/ उपां/नग्रानि/ 2023 दिनांक 04/10/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित बालाघाट विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्र.	ग्राम	नजूल शीट क्रमांक	प्लॉट क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर)	स्वकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	बालाघाट तहसील एवं जिला बालाघाट	306	288	0.2360	0.2360	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
				कुल रकबा	0.2360 हेक्टेयर		

शर्तें:-

1. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा के काली पुतली से जयस्तभ मार्ग (कंटगी मार्ग) एवं पूर्व दिशा में काली पुतली से अम्बेडकर चौक मार्ग (गोंदिया मार्ग) स्थित है । इन मार्ग की चौड़ाई बालाघाट विकास योजना, 2021 के अनुसार 24.00 मीटर रखना आवश्यक होगा ।
2. आवेदित भूमि के दक्षिण पश्चिम दिशा में जेल परिसर से लगकर 6.30 मीटर चौड़ा वर्तमान मार्ग है । नियोजन की दृष्टि से इस मार्ग की चौड़ाई 7.50 मीटर रखना आवश्यक होगा ।
3. आवेदित भूमि से लगकर एवं चौपाटी के पश्चिम दिशा में 4*25 मीटर चौड़ा मार्ग पाथवे स्थित है । नियोजन की दृष्टि से पाथवे की चौड़ाई 4.50 मीटर रखना आवश्यक होगा ।
4. स्थल पर स्थित धार्मिक स्थल को यथास्थिति सुरक्षित रखना तथा पेंहूच मार्ग उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।
5. वाणिज्यिक गतिविधियाँ हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म०प्र० भूमि विकास नियम, 2012 एवं बालाघाट विकास योजना, 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगे ।
6. उपरोक्त उपांतरण बालाघाट विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2024

शुद्धि-पत्र

क्रमांक-यूडीएच-3/0009/2024/18-5 :- नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-यूडीएच-3/0009/ 2024/ 18-5 दिनांक 12/02/2024 को साधारण राजपत्र में प्रकाशित कराये जाने हेतु लिखा गया था । विभागीय सूचना दिनांक 12/02/2024 में टंकन त्रुटिवश खसरा क्रमांक-756/1 के स्थान 755/1 अंकित हुआ है । कृपया उक्त सूचना में खसरा क्रमांक 755/1 के स्थान पर 756/1 पढ़ा जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2024

प्ररूप-1

{नियम 2 के उपनियम (एक) का खण्ड (झ) देखिए}
उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना

क्रमांक 812/दि. 13/02/2024 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 वर्ष 1973) की धारा-23-ग की शक्तियों का उपयोग करते हुये संचालक, एतद् द्वारा इंदौर निवेश क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4
1.	कस्बा इन्दौर - सरवटे से गंगवाल (सरवटे बस स्टैंड - रावजी बाजार - सिलावटपुरा दर्गाह - बियाबानी रोड़ - केला माता मंदिर - शिवानी होटल - गंगवाल बस स्टैंड) तक 24 मीटर चौड़ाई का मार्ग	क 352, 355, 365, 372, 373, 374, 377, 378, 391, 392, 393, 420, 645, 661, 800, 803, 804, 805, 825, 826, 827, 828, 829, 830 - का अंश भाग	कुल रकबा 126 मे से 1.9113
		योग:	1.9113 हेक्टर

उपरोक्त सरवटे से गंगवाल (सरवटे बस स्टैंड - रावजी बाजार - सिलावटपुरा दर्गाह - बियाबानी रोड़ - केला माता मंदिर - शिवानी होटल - गंगवाल बस स्टैंड) जाने वाले मार्ग के दायी ओर का विवरण

क्रं.	भूखण्ड क्रं.	क्षेत्र/मोहल्ला	प्रभावित व्यक्तियों का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	-	हाथीपाला मेनरोड़	कैलाश कुटी मंदिर	3.90
2	35-36	वेयर हाउस रोड़ विमोबापथ	श्रीमती मनु पति स्व. चेतन यादव	12.56

3	—	वेयर हाउस रोड़	हनुमान मंदिर	35.70
4	34	वेयर हाउस रोड़	रविन्द्र पिता तेजराम गुप्ता रसनिधी कुमार एण्ड ब्रदर्स	43.50
5	11/2	हाथीपाला मेनरोड़	ज्ञान सिंह लोढा दीपक स्टील	13.30
6	11/2	हाथीपाला मेनरोड़	अली अजगर पिता मो. अब्बास अली 'एशिया स्टील	26.88
7	11/2	हाथीपाला मेनरोड़	मो. जाकीर पिता मो. इस्माईल राजा आयरन ट्रेडस	17.28
8	11/2	हाथीपाला मेनरोड़	मेहफुजा बाई पति अब्दुल रसुल सफदर हुसैन अब्दुल रसुद फर्म	20.21
9	11/2	हाथीपाला मेनरोड़	मेहफुजा बाई पति अब्दुल रसुल क्वालिटी स्टील फर्म	17.76
10	11/2	हाथीपाला मेनरोड़	मेंमुना बाई पति हकीमुद्दीन हकीम स्टील	35.26
11	11/2	हाथीपाला मेनरोड़	शमीमा पति सेफउद्दीन खम्बाते किस्टल स्टील	144.00
12	11/2	हाथीपाला मेनरोड़	मो. हमीफ पिता मो. साहब मुल्तानी स्टील / किरायदार	20.16
13	8/3	हाथीपाला मेनरोड़	अब्दुल शकुर पिता मो. साहब	3.23
14	8/2	हाथीपाला मेनरोड़	अफजल नागोरी राज स्टील	3.23
15	8/1	हाथीपाला मेनरोड़	जुलेखा फिदवी	17.63
16	7	हाथीपाला मेनरोड़	शेख जोब अली पिता तोहर अली	72.98
17	6	हाथीपाला मेनरोड़	गुलाम अब्बास सैफी	16.20
18	4	हाथीपाला मेनरोड़	जावेद हुसैन पिता जफर हुसैन	4.32

19	4	हाथीपाला मेनरोड़	शैलेश खण्डेलवाल आस्था ट्रांसपोर्ट	3.87
20	4	हाथीपाला मेनरोड़	मोनु आयरन विजय शाह	8.10
21	4	हाथीपाला मेनरोड़	आस्था ट्रांसपोर्ट / शैलेश खण्डेलवाल	3.78
22	4	हाथीपाला मेनरोड़	मो. इकबाल पिता मो. कासम	3.87
23	4	हाथीपाला मेनरोड़	इस्माइल पिता छोटे खॉ	3.60
24	4	हाथीपाला मेनरोड़	मो.हनीफ पिता मो. शरीफ एम एस स्टील	3.96
25	4	हाथीपाला मेनरोड़	पोस्ट ऑफिस	2.64
26	71	हाथीपाला मेनरोड़ मालीपुरा	श्रीमती राधा पति सुभाष कुमावत	17.50
27	पुराना 61 नया 70	हाथीपाला मेनरोड़	हरजीत सिंग छाबडा	16.64
28	61	हाथीपाला मेनरोड़	मो. असलम पिता मो. याकुब इंडिया इलेक्ट्रिक्स	5.88
29	73	हाथीपाला मेनरोड़	मुमताज बी पति सराजुद्धीन न्यू अबर स्टील	14.11
30	72	रावजी बाजार	हाजि सराजुद्धीन बी. आयरन ट्रेडर्स	23.00
31	69	रावजी बाजार	सतीश जर्मीदार	40.70
32	69 ए	रावजी बाजार	चन्द्रकर्ला पति फकीर चन्द्र वर्मा	10.50
33	69	रावजी बाजार	रमण लाल महाजन नीलु गोल्डन	6.00
34	69	रावजी बाजार	कमल अग्रवाल झाबुआ मोटर्स ट्रांसपोर्ट	6.00
35	61/1	रावजी बाजार	मिठडु कुमार पिता मौंगीलाल राठौर	45.65
36	61	रावजी बाजार	1 नूर मोहम्मद पिता सुभान शाह	126.04
37	61	रावजी बाजार	2 नूर मोहम्मद सुभान शाह	39.56

38	61	रावजी बाजार	3 नूर मोहम्मद सुमान शाह	36.80
39	62	रावजी बाजार	1. दिवानलाल माधवदास देवचंद जैन	83.20
40	61	रावजी बाजार	मुंशी बाबू पिता मुंशी खान	20.40
41	60	रावजी बाजार	महेशचन्द्र शर्मा	36.66
42	59	रावजी बाजार	सुरेश राठौर	19.71
43	59 ए	रावजी बाजार	मनोहर राठौर	19.71
44	58	रावजी बाजार	अनील खण्डेलवाल	8.10
45	58	रावजी बाजार	उष्रबाई पति सोमचन्द्र वर्मा	7.83
46	57	रावजी बाजार	कुतुबुद्दीन गुलाम	12.24
47	56	रावजी बाजार	1.नवीन साहू 2. प्रेमलता साहु	37.74
48	55	रावजी बाजार	मांगीलाल कुलवाल	26.22
49	54	रावजी बाजार	मदनलाल सोनी	63.96
50	53	रावजी बाजार	1. दिलीप राठौर अजय राठौर	11.39
51	53	रावजी बाजार	अन्नपूर्णाबाई व्यास	48.00
52	60	रावजी बाजार	नारायण सोनी	27.20
53	9/3	रावजी बाजार	चन्द्रशेखर पिता बाबूराव ठाकुर	12.16
54	45	रावजी बाजार	ओमप्रकाश कोठारी	40.30
55	44	रावजी बाजार	राजा वर्मा हनुमंत मोबाईल	22.00
56	43	रावजी बाजार	श्रीकान्त जमींदार	53.30
58	40	रावजी बाजार	अध्यक्ष गौड़ विधा मंदीर	31.50
59	40	रावजी बाजार	श्री गौड़ सह. सभा मर्या.	109.50
60	9	महल कचहरी रोड़, जूनी इन्दौर	1. मिश्रीलाल उमेश महेश कुमरावत	46.50
61	6-7	महल कचहरी रोड़, जूनी इन्दौर	केशवराव शुक्ल वासुदेव शुक्ल	58.90
62	2	महल कचहरी रोड़, जूनी इन्दौर	मनोरम पंडित	90.00

63	1	महल कचहरी रोड़, जूनी इन्दौर	नरेन्द्र मण्डलोई	34.65
64	15	महल कचहरी रोड़, जूनी इन्दौर	प्रकाशचन्द्र शर्मा	76.80
65	3/1	चन्द्र भागा, मेनरोड़	सुभाषचन्द्र जोशी जितेन्द्र जोशी	120.00
66	2/1	चन्द्र भागा, मेनरोड़	पल्लवी जितेन्द्र शर्मा	53.95
67	1/1	चन्द्र भागा, मेनरोड़	पदमाकर पाठक	20.88
68	1/1	चन्द्र भागा, मेनरोड़	डिसेंट स्टील वर्क बंद पडी है।	21.45
69	7	चन्द्र भागा, मेनरोड़	भालचंद्र मधुकर बोरगांवकर	35.10
70	7/1	चन्द्र भागा, मेनरोड़	कृष्णा वर्मा	44.40
71	6/1	चन्द्र भागा, मेनरोड़	सुनील पराडकर	14.20
72	6/1	चन्द्र भागा, मेनरोड़	पुष्पा वर्मा	14.00
73	6/1	चन्द्र भागा, मेनरोड़	सन्नी माटे	14.00
74	2	चन्द्र भागा, मेनरोड़	निर्मला माटे	42.00
75	50	नंदलालपुरा	हुकुमचंद ट्रस्ट	72.00
76	25/2	नंदलालपुरा	श्रीकृष्णा पिता आनंद शुक्ला	28.00
77	25/2	गौतमपुरा	मुकेश शर्मा	54.72
78	29-30	गौतमपुरा मेनरोड़	हुसैन यासीन रंगरेज	37.10
79	31	गौतमपुरा मेनरोड़	प्रहलाद कुमार पिता भेरूलाल गोयल	25.20
80	32	गौतमपुरा मेनरोड़	1. फरीदा पति विलायत अली 2. नसीम पति आसीफ अली	25.85
81	26-1	गौतमपुरा मेनरोड़	रविदत्त पिता घनश्याम जोशी	25.30
82	26	गौतमपुरा मेनरोड़	गीताबाई जोशी पति स्व. इश्वर प्रसाद	17.28
83	25ए	गौतमपुरा मेनरोड़	1. प्रहलाद गोयल	17.55
84	25बी	गौतमपुरा मेनरोड़	2. बाबुलालजी खत्री	17.55
86	83	पंढरीनाथ	संस्थान विठ्ठल ट्रस्ट	54.00
87	-	पंढरीनाथ मंदिर	मंदिर	108.00
88	47	प्रिस यशवंत रोड़	जितेन्द्र नरेन्द्र सिंह	2.90

89	46	प्रिंस यशवंत रोड़	घनश्याम खेमानी	4.68
90	44	प्रिंस यशवंत रोड़	जगदीश बिजवा	4.92
91	43	प्रिंस यशवंत रोड़	गोपाल डेरी	2.59
92	42	प्रिंस यशवंत रोड़	अर्जुनदास पिता सतपाल	3.50
93	30	प्रिंस यशवंत रोड़	1. मोहन नथरमल मेलवानी	5.60
94	30	प्रिंस यशवंत रोड़	2. महेशकुमार पाहुजा	5.60
95	30	प्रिंस यशवंत रोड़	रीना ललवानी	3.58
96	29/3	प्रिंस यशवंत रोड़	राजेन्द्र वैष्णव	3.50
97	29/2	प्रिंस यशवंत रोड़	रईस भाई	3.57
98	29 ए	प्रिंस यशवंत रोड़	श्रीमती चाँदनी पति नारायणदास पाहुजा	3.57
99	34	प्रिंस यशवंत रोड़	विनोद कुमार साजनानी	22.75
100	33	प्रिंस यशवंत रोड़	सुमित जी दुकान बन्द रहती	2.45
101	32	प्रिंस यशवंत रोड़	खुबचन्द्र सेतपाल	2.28
102	31	प्रिंस यशवंत रोड़	लालचन्द्र पिता जेठाराम	2.28
103	30 रोड़ नया 32 पुराना 26	प्रिंस यशवंत रोड़	पंजुमल कटारिया	6.05
104	23	प्रिंस यशवंत रोड़	फत्तूमल मोरूमल	2.08
105	23	प्रिंस यशवंत रोड़	अनिल वीरे	0.64
106	27	प्रिंस यशवंत रोड़	1. चन्दो बी पति इसराम नसरीम पति आसीफ अली अमरीन पति इमरान अली रेशमा पति लाल अली	4.50
107	4/1	मच्छी बाजार चौराह	उद्धवदास ईश्वरी बाई सेवाराम	30.90
108	4/1	मच्छी बाजार चौराह	टालुमल पिता सुरज	10.80
109	5	मच्छी बाजार चौराह	अंजु सुशील पिता ललित	6.00
110	6	मच्छी बाजार चौराह	दिलिप कुमार पिता नरेन्द्र	7.02

111	7	मच्छी बाजार	रवीन्द्र जीतसिंह हरदीपसिंह दवीन्द्रसिंह सतनामसिंह	106.20
112	9 ए	मच्छी बाजार	राकेश मेहता पिता सुरेन्द्र	46.40
113	9 ए	मच्छी बाजार	जाहिद खॉन पिता वाहिद	50.22
114	9 बी	मच्छी बाजार	डॉ इकबाल खान पिता रहमान	32.83
115	9/1	मच्छी बाजार	सब्दर-हुसैन फिदा हुसैन	34.06
116	12ए	मच्छी बाजार	विजेन्द्र पिता राजेश	17.34
117	12/1	मच्छी बाजार	सुनिल नारंग पिता रामकृष्ण	16.32
118	12/2	मच्छी बाजार	इफतेखार पिता अली	11.48
119	13 ए	मच्छी बाजार	लियाकत पिता अली	12.00
120	5/1	मच्छी बाजार	हाजी मंसुर रहमान	15.58
121	5/1	मच्छी बाजार	मो.अशरफ अब्दुल सलाम	9.03
122	5/1	मच्छी बाजार	मो. नईम काले खान	18.27
123	5/1	मच्छी बाजार	मो. पिता साबिर खान	11.96
124	14/1	मच्छी बाजार	लक्ष्मणसिंह पिता रामदास सेगर	18.86
125	15/1	मच्छी बाजार	सुनिल राजकुमार शर्मा	11.31
126	16/1	मच्छी बाजार	अब्दुल पिता तारिक रसीद	11.99
127	17ए	मच्छी बाजार	बलराम भूरिया स्व. भेरूलाल भूरिया	16.28
128	18ए	मच्छी बाजार	विजयसिंह सिकरवार	20.40
130	19/1	मच्छी बाजार	बजरंग पिता रामलाल सूर्यवंशी	28.31
131	19/1ए	मच्छी बाजार	बंसती बाई बाबुलाल	24.71

132	20 ए	कडवाघाट मच्छी बाजार	करामत पहलवान अखाडा	105.60
133	21	कडवाघाट	सोनू फर्नीचर सोनू अपार्टमेंट	1.50
134	1ए	कडवाघाट	मांगीलाल उस्ताद व्यायामशाला	104.52
135	12ए	कडवाघाट	मस्जिद की भूमी सदर नासीर खान	76.70
136	13ए	कडवाघाट	मस्जिद की भूमी	38.43
137	16ए	कडवाघाट	मस्जिद की भुमी	203.70
138	19	कडवाघाट	मो.नाशीर अब्दुल रसीद रजत सनमायका	4.65
139	19/2	कडवाघाट	मो. सहनवाज अफयान इंटरप्राईजेस	35.10
140	19/1	कडवाघाट	सुल्तान बी पति गुलाम मोहम्मद एमोण्करीम	47.15
141	19/1	कडवाघाट	मो. सलीम अब्दुल रहीम	43.40
142	19/2	कडवाघाट	मुश्ताक खान एवं मेहमुद खान पिता स्व. अब्दुल जब्बार	139.04
143	19/2	कडवाघाट	जोहरा बी पति लियाकत	17.98
144	19/2	कडवाघाट	मो.इकबाल पिता हुसेन	17.98
145	19/2	कडवाघाट	मोण साबिर पिता अलि	39.20
146	19/2	कडवाघाट	अफरोज बी शब्बीर अली	26.33
147	20/2	कडवाघाट	मो.युसुफ पिता मो.इब्राहिम	40.40
148	2/2	कडवाघाट	इनायत पिता हुसैन	82.32
149	2/2	कडवाघाट	रीयाज बैग अयाज	32.94

150	2/2	आंगनवाडी के सामने कडवाघाट	अली दरबारएजावेद दरबारएनौशाद दरबार पिता मो. जाकीर	63.15
151	2/2	आंगनवाडी के सामने कडवाघाट	हाजी महमुद खान	63.15
152	19/2	कडवाघाट	खलीलूर पिता रहमान	27.01
153	8/2	कडवाघाट	अब्दुल पिता करीम	89.54
154	9/2	कडवाघाट	हाजी अलाउद्दीन पिता परवेज	93.22
155	9/2	कडवाघाट	हुरसीत मुर्तजा बी, विसमिल्ला भाई कुरबान हुसैन, इकबाल हुसैन	60.04
156	87ए	नया पीठा	मो. अमीन, मोहममद हारून	28.13
157	86	नया पीठा	मो. इशहाक वली	25.83
158	85	नया पीठा	मुर्शरफ बी	25.35
159	84	नया पीठा	फरीदा अब्दुल रउफ	31.68
160	81	नया पीठा	शाहजहाँ बी पति मोण युनुसएमोणबसीर	33.81
161	57	नया पीठा	फिरोज बी पति मो इस्माईल	38.15
162	56	नया पीठा	मस्जिद की भूमी	49.34
163	55	नया पीठा	अनवर हुसैन पिता मो. इलियास इकबाल हुसैन पिता मो. इस्माईल	72.72
164	51 ए पुराना 54 नया	नया पीठा	अब्दुल रहीम अब्दुल करीम	144.50
165	51	नया पीठा	वहाब रजिया बी	22.60
166	50	नया पीठा	सरताज बीए रेहान बीसेजीदा बीएरुखसाना बी	40.95

167	49	नया पीठा	मुमताज बाई पति अब्दुल रजाक	36.52
168	48	नया पीठा	आईसा बी पति स्व. मोहम्मद सईद	54.60
169	47 ए	नया पीठा	मो. मजहर पिता मो युनूस	23.12
170	47 ए	नया पीठा	पिंकी मारीया अहमद जावेद अहमद	21.44
171	52 ए	नया पीठा	हाजी अब्दुल इज्जतनूर	27.20
172	52 ए	नया पीठा	हाजी अब्दुल वहाब	27.20
173	48	नया पीठा	आबीद हुसैनएसलमा आबीद हुसैन	21.60
174	47	नया पीठा	अब्दुल अजीज पिता वहाब	26.98
175	46	नया पीठा	नगर निगम मटन मार्केट	85.68
176	45/1	नया पीठा	मेहिनुद्दीन शेख इसरत बी	25.68
177	44/1	नया पीठा	रफीकुद्दीन शेख सलीमुद्दीन मुमताज शफिक उद्दीन	23.49
178	43/1	नया पीठा	मुमताज अहमद पिता तारिक	19.76
179	43/1	नया पीठा	हाजी मंजुर अहमद	21.95
180	42/1	नया पीठा	आसी बाई पति रहमत	25.42
181	41/1	नया पीठा	मो. हनीफ मो.एनसीब मो.असलम	21.56
182	40/1	नया पीठा	हाजी अब्दुल वहाब अब्दुल करीम	25.41
183	39/1	नया पीठा	मेहराज बी पति याकुब	29.67
184	38/1	नया पीठा	सायरा बी पति मो.	13.69
185	37/1	नया पीठा	अब्दुल रसीद लाल मोहम्मद	13.77

186	36/1	नया पीठा	इशाद बी पति असलम अहमद	28.68
187	34/1	नया पीठा	स्व. मखमुर अहमद	51.98
188	34/1	नया पीठा	मोण उबेर फारुक खान	27.56
189	33/1	नया पीठा	शासकीय भूमी पुलिस चोकी की दिवार	85.86
190	32/1	नया पीठा	मो. रईस पिता हाजी अब्दुल अजीज	39.00
191	31/1	नया पीठा	मो. सलीम मेहमुद मुश्ताक अहमद पिता मुनिर ख	97.96
192	30/1	नया पीठा	कैलाश जी गुलाबचंद शरदएवं गणेश पिता स्व. रामचन्द्र राठौड	281.30
193	29/1	नया पीठा	हनीफ मो पिता रहिस.	89.25
194	15ए	छत्रीपुरा कार्नर	सुरजमल पिता तोदरमल जैन	63.60
195	154ए	सिलावट पुरा	जुल्फीकार पानीपति छीपे	43.50
196	158ए	सिलावट पुरा	पोरवाल जैन ट्रस्ट	46.20
197	157ए	सिलावट पुरा	मगनी बाई पति राजू जी	21.58
198	156ए	सिलावट पुरा	मोहम्मद युसुफ पिता नुर मोहम्मद	12.18
199	155ए	सिलावट पुरा	विनोद मित्तल पिता शिवप्रसाद मित्तल	7.50
200	154ए	सिलावट पुरा	जुलेखा बी पति गुलाम मोहम्मद	28.35
201	153ए	सिलावट पुरा	घनश्यामपिता कन्हैयालाल नरेन्द्र कुमार पिता कन्हैयालाल प्रवीण कुमार कुमार पिता कन्हैयालाल	7.54

202	152ए	सिलावट पुरा	जुलेखा बी पति गुलाम मो.	17.63
203	151ए	सिलावट पुरा	नूर बानो पति मोण आसिक	9.57
204	150ए	सिलावट पुरा	निसार खॉन पति नुर	18.00
205	149ए	सिलावट पुरा	सरफराज मंसुरी पिता अब्दुल रहमान	13.34
206	148ए	सिलावट पुरा	रजिया बी पति अब्दुल वहाब	19.80
207	146ए	सिलावटपुरा द्वितीय मंजील रहवासी	नौशाद खॉन पिता इस्माईल खान	25.20
208	146ए	सिलावटपुरा प्रथम मंजील फन्टरहवासी	रईस खान पिता बाबु खान	25.20
209	146ए	सिलावटपुरा प्रथम मंजील बैकरहवासी	सैयद अखलाख हुसैन सैयद दिलदार हुसैन	3.60
210	146ए	सिलावटपुरा तल मंजील दुकान	कल्पना पति राजेश नायक	14.18
211	146ए	सिलावटपुरा तल मंजील दुकान	कलाबाई पति सुभाष चौधरी	3.29
212	137ए	सिलावटपुरा	मुबीन एहमद पिता अलानूर	56.76
213	136ए	सिलावटपुरा	यज्ञनारायण भट्ट पिता नंदकिशोर	28.56
214	135ए	सिलावटपुरा	मोहम्मद अलताफ पिता हाजी उसमान गनी	25.99

215	133-134	सिलावटपुरा फन्ट	मो. इस्माईल, मो. अब्दुल हकीम अब्दुल सलामएअब्दुल हमीद, मो. इब्राहीम, अब्दुल अजीजए पिता अब्दुल शकुर	52.08
216	132ए	सिलावटपुरा	मो. रफीक पिता अब्दुल खलील	28.05
217	131ए	सिलावटपुरा	विनिता पिता द्वारकादास पोरवाल	14.75
218	130ए	सिलावटपुरा	कैलाशचंद्र पिता स्व. शकरलाल पोरवाल	14.75
219	129ए	सिलावटपुरा	अब्दुल सलीम पिता अब्दुल लतीफ	16.90
220	128ए	सिलावटपुरा	मस्जिद एवं पॉच दुकान सदर मो. यूनुस ठेकेदार	114.18
221	127ए	सिलावटपुरा	मो. इरफान मो. अजरूद्धीन पिता यूसुफ	24.09
222	126ए	सिलावटपुरा	मो. हनिफ पिता नुर मोहम्मद	23.45
223	125ए	सिलावटपुरा	तारीक मसुद पिता मो. इसाक खान	23.76
224	124ए	सिलावटपुरा	मो. जफर पिता मो. नजीर	23.76
225	123ए	सिलावटपुरा	मस्जिद की भूमी	19.10
226	122ए	सिलावटपुरा	मो. युसुफ पिता अब्दुल रफीक	33.08
227	121ए	सिलावटपुरा	स्व. कस्तुरी बाई पति स्व. शिवनारायण शर्मा	17.60
228	120ए	सिलावटपुरा	मो. इकबाल अब्दुल सलाम मो सलीम	25.92

229	119ए	सिलावटपुरा	कालू खान पिता नन्ने खॉ असफाक पिता कालू खॉ	19.52
230	118ए	सिलावटपुरा	गगाराम पिता कन्हैयालाल कुसमाकर सुनिल कुसमार	13.73
231	117	सिलावटपुरा	मेहराज बी पति मो. इसहाक	22.20
232	116ए	सिलावटपुरा	मनोहरलाल पिता शिवलाल शर्मा	19.32
233	115ए	सिलावटपुरा	स्व. सुरजमल जैन पिता मन्नलाल जैनएत्रिलोक पिता सुरजमल जैन	22.79
234	114ए	सिलावटपुरा	प्रकाशचन्द्र प्रहलाद दास नरेन्द्र कुमार पिता बंशीलाल सोनी	18.43
235	113ए	सिलावटपुरा	मस्जिद की भुमी	14.84
236	112ए	सिलावटपुरा	स्व. अब्दुल अजीज पिता अहमद मुनीर	13.38
237	111ए	सिलावटपुरा	राबिया बी पति गनी मोण	19.36
238	105ए	सिलावटपुरा	आयशा बी पति जाहिर अली खॉएतनवीर कौसर पति शादाब समीर	23.00
239	104ए	सिलावटपुरा	सायरा परवीन पति फैयाज अहमद इरशाद बानो पति अब्दुल रजाक	11.79
240	103ए	सिलावटपुरा	मो. हारून पिता हाजी उस्मान गनी	19.69
241	102ए	सिलावटपुरा	मस्जिद की भुमी	9.66

242	101ए	सिलावटपुरा	महेश गोपाल पिता मुलंचद ढालिया	13.44
243	100ए	सिलावटपुरा	रेहान बी पति नूर हुसैन	15.20
244	100ए	सिलावटपुरा	नरेश जैन पिता स्व. नेमीचन्द जैन	23.40
245	99ए	सिलावटपुरा	सायरा बी पति स्व. मो. नासीर खान बशीर मो. पिता मो. युसुफ अजमेरीएपिता अलाबक्स	29.89
246	98ए	सिलावटपुरा	रवि भुसारी राजेन्द्र भुसारी पिता स्वण हनुमत राव भुसारी	12.60
247	97ए	सिलावटपुरा	मो. शकील पिता अब्दुल गनी	9.45
248	96ए	सिलावटपुरा	मो.इस्माईल अब्दुल गनी मो. साबीर पिता अब्दुल रहमत	9.24
249	95ए	सिलावटपुरा	निजामुद्दीन सिरजुद्दीन इकरामुद्दीन पिता स्वण कमरुद्दीन	9.68
250	94ए	सिलावटपुरा	याम कुमार कुमार सेठिया पिता स्व. शातिलाल सेठिया	16.01
251	94ए	सिलावटपुरा	राजेन्द्र सेठिया पिता स्व. शातिलाल सेठिया	16.01
252	92-93	सिलावटपुरा	अनमोल वर्मा पिता स्व. अशोक कुमार वर्मा	25.62
253	91ए	सिलावटपुरा	रामकिशोर राठौर पिता सिताराम राठौर	17.66
254	90ए	सिलावटपुरा	काशीराम पिता सिताराम राठौर	18.98

255	89ए	सिलावटपुरा	स्व. तुलसीबाई राठोर पति रामनारायण जी राठोर	14.79
256	88ए	सिलावटपुरा	रतनाबाई पति शिवनारायण	14.70
257	87ए	सिलावटपुरा	मस्जिद की भुमी सदर मो. युनुस ठेकेदार	40.92
258	86ए	सिलावटपुरा	मंदिर की भुमी भवानी शंकर पिता तेजकरण राठोर केसरीसिंह पिता गोर्वधन राठोड	18.87
259	85ए	सिलावटपुरा	मंदिर विजय सिंह पिता तेजकरण राठोर	18.62
260	84ए	सिलावटपुरा	मदिर की भुमी अजयसिंह पिता विजयसिंह राठोर	17.55
261	83ए	सिलावटपुरा	परसमल पिता देवनारायण कोठारी	23.69
262	82ए	सिलावटपुरा	मांगीलाल जैन मदनलाल जैन पिता रतनलाल	23.72
263	78-81	सिलावटपुरा	साहु समाज धर्मशाला अध्यक्ष दिनेश कुमार साहु	33.04
264	78-81	सिलावटपुरा	तल मंजील पर मंदिर अध्यक्ष दिनेश कुमार साहु	25.20
265	76-77	सिलावटपुरा	हीरामणी कॉम्पलेक्स मे प्रभावित	37.96
266	76-77	सिलावटपुरा	कमल परमार पिता जानकीलाल	13.52
267	76-77	सिलावटपुरा	आशीश परमार पिता जानकीलाल	1.43

268	76-77	सिलावटपुरा	विद्या पति घनश्याम शर्मा रेस्टोरेन्ट	16.38
269	76-77	सिलावटपुरा	गुलाब पिता हीरालाल कुसमाकर	1.73
270	76-77	सिलावटपुरा	रचना मेहता पति कमल किशोर मेहता	34.50
271	76-77	सिलावटपुरा	सत्यनारायण सिंह पिता काशीराम राठोर	34.50
272	76-77	सिलावटपुरा	भाग्यवन्ती पति मांगीलाल मालकर	34.50
273	75ए	सिलावटपुरा	नरेश अग्रवाल पिता स्व. हीरालाल अग्रवाल	28.08
274	74ए	सिलावटपुरा	सुधीर अग्रवाल पिता स्व. नारायणदास अग्रवाल	15.81
275	73ए	सिलावटपुरा	भागवत बाई पति आनंदीलाल गुप्ता	1.00
276	34ए	बियाबानी चौराह धार रोड	राजेश राठोर पिता स्व.लक्ष्मीनारायण राठोर	45.24
277	116/2	बियाबानी धार रोड	स्व. रामप्रसाद दुबे पिता स्व. कृष्ण कुमार दुबे	33.39
278	115/2	बियाबानी धार रोड	नंदलाल पिता आसुदामल	40.25
279	114/2	बियाबानी धार रोड	विनोद पिता कन्हैयालाल	18.63
280	114/2	बियाबानी धार रोड	राधेश्यामपिता सालीग्राम राठोर	17.21
281	113/2	बियाबानी धार रोड	राठोर क्षत्रिय धर्मशाला अध्यक्ष स्वामी जी राठोर चार दुकान एक मनिदर	107.64
282	108/2	बियाबानी धार रोड	रामोजी राठोड	58.52

283	108 / 2	बियाबानी धार रोड	स्व. रामगोपाल जी राठोड	19.43
284	109 / 2	बियाबानी धार रोड	नारायण पिता चपालाल अग्रवाल	56.80
285	109 / 2	बियाबानी धार रोड	संतरामदास	23.08
286	109 / 2	बियाबानी धार रोड	राजेश कुमार पिता बैदीचंद जैन	10.89
287	109 / 2	बियाबानी धार रोड	राजेश कुमार पिता सागरमल जैन	23.08
288	109 / 2	बियाबानी धार रोड	सतोश कुमार पिता बैदीचंद जैन	10.89
289	109 / 2	बियाबानी धार रोड	राजेश कुमार पिता सागरमल जैन	56.80
290	109 / 2	बियाबानी धार रोड	नारायण पिता चम्पालाल अग्रवाल	56.80
291	109 / 2	बियाबानी धार रोड	विजय कुमार विरवानी	21.92
292	109 / 2	बियाबानी धार रोड	अनिल कुमार उदासी पिता बाबाहरीदास	22.61
293	109 / 2	बियाबानी धार रोड	ज्योति पति ललीत नरवरे	10.33
294	109 / 2	बियाबानी धार रोड	हंसा पति अभिषेक शुक्ला कृष्णा सोनी पति स्व. बाबुलाल जी	32.16
295	109 / 2	बियाबानी धार रोड	आन्द पिता मूलचंद वर्मा मुलचंद वर्मा मुलचंद पिता भाउलाल वर्मा दिपक पिता मुलचंद वर्मा	32.16
296	109 / 2	बियाबानी धार रोड	रेखा पति बनेसिंह	32.16
297	101 / 2	बियाबानी धार रोड	बंसती बाई पति राजु	58.50

298	102/2	बियाबानी धार रोड	हर्ष सोनी पिता दिलिप	17.58
299	107/2	बियाबानी धार रोड	ख्यालदास पिता वेणुमल दम्मानी	36.26
300	104/1	बियाबानी धार रोड	महेश रंघुवंशी पिता माधव सिंह रघुवंशी	36.75
301	105/2	बियाबानी धार रोड	गति बाई पति स्व. नारायण जी	42.24
302	100/2	बियाबानी धार रोड	बाबुसिंह रघुवंशी पिता ओमप्रकाश	28.91
303	100/2	बियाबानी धार रोड	पन्नालाल पिता लक्ष्मीनारायण	28.52
304	100/2	बियाबानी धार रोड	हरीचंद्र पिता नदीराम	55.20
305	100/2	बियाबानी धार रोड	उर्मिला पति गोपाल कृष्ण लाठी	13.64
306	98/2	बियाबानी धार रोड	प्रभावती पति विजय जैन सुनिता अनिल कुमार जैन हेतल पति अजय जैन	27.09
307	99/2	बियाबानी धार रोड	इन्दौरीलाल जैन पिता सुरजमल जैनअनोखीलाल जैन	54.90
308	99/2	बियाबानी धार रोड	अनिल मोर्य	22.09
309	98/2	बियाबानी धार रोड	रिटा सोनी पति जुगीकिशोर सोनी	12.40
310	98/2	बियाबानी धार रोड	ओप्रकाश पिता छगनलाल नेमा	8.96
311	97/2	बियाबानी धार रोड	अनिल कुमार पिता शिवनारायण राठौर	10.26
312	97/2	बियाबानी धार रोड	नंदकिशोर पिता बाबुलाल राठौर	10.26

313	96/2	बियाबानी धार रोड	नारायण पिता रघुवीर शर्मा	20.21
314	95/2	बियाबानी धार रोड	पोरवाल ट्रस्ट अध्यक्ष	39.00
315	95/2	बियाबानी धार रोड	सतोशीलाल पिता इन्दरमल जैन	28.05
316	95/2ए	बियाबानी धार रोड	सरिता जैन पति जंयति लाल	31.50
317	95/2ए	बियाबानी धार रोड	राकेश पिता किशोर राठोर	6.13
318	95/2ए	बियाबानी धार रोड	सेवसिंह पिता हुकुमसिंह चौधरी	12.08
319	95/2ए	बियाबानी धार रोड	मानसिंह पिता हुकमसिंह चौधरी	12.60
320	94/2	बियाबानी धार रोड	प्रभुलाल पिता बलदेव	17.10
321	93/2	बियाबानी धार रोड	रामनारायण सुईवाल पिता प्रभुलाल जी	17.55
322	95/2	बियाबानी धार रोड	बंसीलाल पिता पुनमचंद	18.00
323	91/2	बियाबानी धार रोड	फुलेरमाली समाज धर्मशाला अध्यक्ष छोटेलाल	67.32
324	90/2	बियाबानी धार रोड	सुनिल होल्कर स्व. हनुमंत प्रथम मंजील मकानमालिक सेप्रेट रजिस्ट्री	31.28
325	90/2	बियाबानी धार रोड	विमल कुमार पिता माणकलाल जैन (दुकान मालिक)	31.28
326	90ए	बियाबानी धार रोड	जितेन्द्र होल्कर विरेन्द्र होल्कर पिता स्वर्ण चन्द्रसेन राव	63.36

327	90ए	बियाबानी धार रोड	जितेन्द्र होल्कर विरेन्द्र होल्कर पिता स्वर्ण चन्द्रसेन राव	14.40
328	90ए	बियाबानी धार रोड	जया बत्रेजा पति प्रकाश बत्रेजा (दुकान मालिक)	48.96
329	177 / 33ए	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	4.65
330	177 / 31-32	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	5.00
331	177 / 29-30ए	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.88
332	177 / 27	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	4.32
333	177 / 26	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	10.56
334	177 / 25	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	10.56
335	177 / 24	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	10.56
336	177 / 23	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	10.56
337	177 / 23	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	10.56

338	177 / 22	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	10.56
339	177 / 21	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	10.56
340	177 / 19-20	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	20.63
341	177 / 18	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.40
342	177 / 17	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.40
343	177 / 16	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.40
344	177 / 15	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.24
345	177 / 14	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.40
346	177 / 13	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.40
347	177 / 12	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.40
348	177 / 11	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.40

349	177 / 10	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.40
350	177 / 9	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	5.76
351	177 / 7-8	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	9.69
352	177 / 6	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	5.76
353	177 / 5	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	5.76
354	177 / 4	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.40
355	177 / 3	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.40
356	177 / 1-2	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	11.25
357	177 / 1	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.24
358	177 / 2	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.82
359	177 / 3	बियाबानी धार रोड वैष्णव स्टेडियम परिसर	अध्यक्ष वेष्णव सहायक ट्रस्ट	6.82

उपरोक्त सरवटे से गंगवाल (सरवटे बस स्टैंड – रावजी बाजार – सिलावटपुरा दर्गाह – बियाबानी रोड़ – केला माता मंदिर – शिवानी होटल – गंगवाल बस स्टैंड) जाने वाले मार्ग के बायी ओर का विवरण				
क्रं.	भूखण्ड क्रं.	क्षेत्र/ मोहल्ला	प्रभावित व्यक्तियों का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	13	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	जुमाजी पिता युसुफभाई खान	5.76
2	13	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	मो. फारुख पिता मो. हुसैन मुल्लानी	15.36
3	13	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	हामीदन पति खाजु खान	15.60
4	13	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	सईदनबाई पति फकीर मोहम्मद तैली	11.88
5	13	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	धीरज पिता मणीभाई पटेल	3.96
6	13	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	मीना सर्वेश जैन	2.88
7	13	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	अनील सोनकर प्रियांश रोड. लाइन्स	2.88
8	13	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	पुरनलाल पिता बंसीलाल जरबुरीया	4.00
9	14	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	जफरी स्त्रील / अजय वर्मा	7.00
10	14	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	नास्ता सेंटर / खन्ना मोहनलाल	6.40
11	14	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	मो. हुसैन पिता रोशन भिया	35.65
12	14	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	मो. रफिक पिता रहीमबक्ष मुलतान	53.58
13	14	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	अरुण बिंदल / लक्की गोल्डन	76.00

14	15	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	हनुमान प्रसाद पिता सावलराम पारिक / राजस्थान मोटर ट्रांसपोर्ट	11.70
15	16	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	जावद हुसैन पिता हाजी अब्दुल रहमान जेनब स्टील	32.33
16	18	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	गिरजाशंकर मिश्रा प्रिंस स्टील	36.00
17	22	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	राकेश देवीलाल सोलंकी	19.40
18	23	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	मो. इसाक	19.40
19	24	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	रामनारायण पिता मांगीलाल देवडा	11.64
20	26	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	राजकुमार पिता लालचन्द्र वर्मा	21.34
21	26	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	हीरालाल पिता मुलचन्द्र राठौर	21.83
22	26	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	शब्बीर भाई राजधानी स्टील	12.96
23	27	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	3. विजयराज सिंह	11.07
24	27	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	2. खुजीमा अली पिता मोहीद अली	14.25
25	27	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	कहीद पिता हैदरअली जोहर	15.50
26	1	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	रमेश पिता स्व. रामचन्द्र पालीवाल	14.40
27	27	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	1. चन्द्रसेन वर्मा दिनेश वर्मा निर्मल वर्मा महेन्द्र वर्मा	57.60
28	27	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	दिनेश पिता चन्द्रसेन वर्मा	22.08

29	27	हाथीपाला मेन रोड़, इंदौर	पंकज पिता मोहन वर्मा	8.40
30	1-3	रावजी बाजार	मोहम्मद हुसैन पिता फकरुद्दीन कांचवाला	7.25
31	4	रावजी बाजार	खाण्डेराव / दुकान बंद	7.80
32	4	रावजी बाजार	कुसुम बी पति मो. सफीक इन्दौर स्टील सेल्स	7.50
33	4	रावजी बाजार	मो. अशरफ पिता मो. खान	12.60
34	4	रावजी बाजार	अनीश भाई	76.50
35	5	रावजी बाजार	हाकीब खान मो हुसैन	68.25
36	7	रावजी बाजार	शरीफाबाई तायर अली	58.28
37	7	रावजी बाजार	1 दुरिया इकबाल हुसैन	61.10
38	45	रावजी बाजार	राकेश पिता सुखलाल सीतारे अतिथि स्टील	18.90
39	10	रावजी बाजार	ओमप्रकाश राठौर	38.22
40	11	रावजी बाजार	मुज्फर हुसैन पिता फकरुद्दीन काँचवाला	44.20
41	12	रावजी बाजार	सुभाष बी. राठौर	36.96
42	13	रावजी बाजार	रामलाल राठौर	50.00
43	14	रावजी बाजार	प्रेमलता पिता द्वारकाप्रसाद साहू	85.68
44	15	रावजी बाजार	श्रीमती चन्द्रकला पति राजेन्द्र उपाध्याय जी	90.90
45	—	रावजी बाजार	चिंतामण गणेश मंदिर	26.22
46	20	रावजी बाजार	डॉ रवि जैन रावत सदन	9.00
47	21	रावजी बाजार	डॉ दिलीप नाईक	19.00
48	22	रावजी बाजार	निर्मल मेहता	31.32

49	22	रावजी बाजार	1. नवीन प्रेमलता कवीता पिता व्दारकाप्रसाद साहु	59.78
50	24	रावजी बाजार	रविन्द्र जमींदार	23.80
51	24	रावजी बाजार	संजय मंडलोई	30.68
52	24	रावजी बाजार	अरविंद मंडलोई	4.27
53	24	रावजी बाजार	विरेन्द्र मंडलोई	25.76
54	24	रावजी बाजार	रंजना मंडलोई	25.76
55	27	रावजी बाजार	डॉ प्रवीण जमींदार	110.20
56	27	रावजी बाजार	आशिष जमींदार	110.20
57	27	रावजी बाजार	सतीशचन्द्र जमींदार	46.40
58	37	रावजी बाजार	रमेश कुमार जमींदार	36.80
59	37	रावजी बाजार	पीयुष जमींदार	20.90
60	37	रावजी बाजार	पीयुष जमींदार	21.07
61	37	रावजी बाजार	कृष्णा जमींदार	3.60
62	37	रावजी बाजार	राकेश जमींदार	2.15
63	36/1	रावजी बाजार	1 राजेन्द्र मंडलोई	44.55
64	36/1	रावजी बाजार	2 प्रकाश मंडलोई	51.30
65	36/1	रावजी बाजार	3 नरेन्द्र मंडलोई	43.20
66	36/1	रावजी बाजार	4 जगदीश मंडलोई	44.55
67	36/1	रावजी बाजार	5 कमल मंडलोई	47.25
68	36/1	रावजी बाजार	श्रीकांत जमींदार	26.40
69	5/1	चन्द्रभागा	रामचन्द्र गणपत कानुनगो	18.98
70	5/1	चन्द्रभागा	रामचन्द्र गणपत कानुनगो	22.63
71	5/1	चन्द्रभागा	प्रभाकर पिता किशनराव माने	35.34
72	4/1	चन्द्रभागा	संतोष कुमार पिता प्रहलाद राव कुपटकर	13.44
73	4/1	चन्द्रभागा	कमल पिता स्व. रामसिंह यादव	77.28
74	13/1	चन्द्रभागा	गोपाल पिता नारायण दास परेता	37.60

75	14 / 1	चन्द्रभागा	प्रमोद जोशी	22.00
76	15 / 1	चन्द्रभागा	अध्यक्ष मंगल भवन ट्रस्ट	4.41
77	15 / 1	चन्द्रभागा	मंगल भवन ट्रस्ट	17.64
78	16 / 1	चन्द्रभागा	अरविंद जोशी	51.46
79	—	चन्द्रभागा	माता मंदिर	13.92
80	8	चन्द्रभागा जुनी इंदौर	बाबुराव कानुनगो जंवरबाई कानुनगो	45.92
81	8	चन्द्रभागा जुनी इंदौर	राजेन्द्र स्व.शारदाबाई वमा	50.40
82	8	चन्द्रभागा जुनी इंदौर	श्रीमती तारा श्रीवास्तव	19.25
83	8	चन्द्रभागा जुनी इंदौर	सुशीला बाई बैरागी	18.75
84	46	चन्द्रभागा जुनी इंदौर	जैन मंदीर ट्रस्ट	10.00
85	46	चन्द्रभागा जुनी इंदौर	आशा वर्मा	11.25
86	54	चन्द्रभागा जुनी इंदौर	सुरजमल अडानीया	11.25
87	55	चन्द्रभागा जुनी इंदौर	राजेश मुंदडा	8.63
88	55	चन्द्रभागा जुनी इंदौर	दौलतराम चौहान / रशमी श्रीवास्ताव	15.88
89	56	चन्द्रभागा जुनी इंदौर	विजय नरेन्द्र भोरासकर	12.75
90	57	चन्द्रभागा जुनी इंदौर	खुमान सिंह सिसोदिया	20.88
91	58 / 59	चन्द्रभागा जुनी इंदौर	कमल वर्मा सुभलाभ ऐवेन्च्यु	42.13
92	60	चन्द्रभागा जुनी इंदौर	कमल वर्मा	40.50
93	65	चन्द्रभागा जुनी इंदौर	अध्यक्ष सनार्ढय ब्राम्हण संस्थान	77.70

94	3	गौतमपुरा मेन रोड़	1. राकेश मुकेश स्व. नारायणसिंह डागोर	26.52
95	3	गौतमपुरा मेन रोड़	सुरेश स्व.रामप्यारी देवी डागोर	5.80
96	3/4	गौतमपुरा मेन रोड़	सुनील डागोर पिता स्व. हीरालाल डागोर	8.40
97	4	गौतमपुरा मेन रोड़	हेमलता पति चंद्रशेखर डागोर	20.70
98	5	गौतमपुरा मेन रोड़	रघुनाथ वेंकटेश नेवासकर	12.60
99	7	गौतमपुरा मेन रोड़	सुधाकर कुलकर्णी	12.60
100	8	गौतमपुरा मेन रोड़	अशोक भोकरदनकर	14.40
101	9	गौतमपुरा मेन रोड़	अशोक पिता सिताराम भीलवारे	4.20
102	10	गौतमपुरा मेन रोड़	विष्णु महादेव डोबले	22.00
103	11	गौतमपुरा मेन रोड़	सालीगराम ठाकुरलाल सिसौदिया	12.60
104	12	गौतमपुरा मेन रोड़	कैलाश पिता बसंती लाल कुमरावत	31.20
105	13	गौतमपुरा मेन रोड़	पन्नालालजी जैन	30.08
106	14	गौतमपुरा मेन रोड़	चिरोंजीलाल लिखार	9.93
107	15	गौतमपुरा मेन रोड़	प्रमोद कुमार पिता हीरालाल जैन	11.77
108	16-18	गौतमपुरा मेन रोड़	1. मुकेश पिता भेरूलाल गोयल 2. प्रहलाद पिता भेरूलाल गोयल	22.88
109	19	गौतमपुरा मेन रोड़	प्रमोद रावत	26.00

110	20	गौतमपुरा मेन रोड़	श्रीमती आशा पति कृष्णानंद शुक्ला	17.20
111	21	गौतमपुरा मेन रोड़	शंकर चन्देल / रिक्त	20.00
112	22	गौतमपुरा मेन रोड़	1. त्रिबक पिता गोविंदराव लांभाते 2. अरुण वसंतराव लांभाते	34.40
113	23	गौतमपुरा मेन रोड़	दत्तात्रय पाठक	14.40
114	23	गौतमपुरा मेन रोड़	श्रीमती अनुराधा पति रमेश तांबे	43.00
115	82	पंढरीनाथ	मनीष पिता रामचन्द्र वाधवानी	26.52
116	50,51,52	पंढरीनाथ चौराहा	लालचंद उधलानी	5.25
117	48,48	प्रिस यशवंत रोड़	हुसैन अली	0.90
118	47	प्रिस यशवंत रोड़	अनिल निरकारी	0.91
119	46	प्रिस यशवंत रोड़	हकीमुद्दीन इंदौरवाला	0.91
120	45	प्रिस यशवंत रोड़	आरिफ भाई	2.72
121	44	प्रिस यशवंत रोड़	कशिश खेमानी	2.72
122	42	प्रिस यशवंत रोड़	किशनचंद लालवानी	2.27
123	41	प्रिस यशवंत रोड़	मो. ईशाक	2.27
124	39	प्रिस यशवंत रोड़	जे.के. शॉप	2.27
125	38	प्रिस यशवंत रोड़	शुभम फोटोकॉपी	2.27
126	37	प्रिस यशवंत रोड़	गोविंदरामदास	2.72
127	35	प्रिस यशवंत रोड़	रेखा खेमानी	1.81
128	36	प्रिस यशवंत रोड़	एकता खेमानी	1.81
129	34	प्रिस यशवंत रोड़	कैलाश बूट हाउस	3.17
130	33	प्रिस यशवंत रोड़	नीता खेमानी	3.17
131	32	प्रिस यशवंत रोड़	श्याम कम्यूनिकेशन	3.17
132	31	प्रिस यशवंत रोड़	हरीश हीरानंद लालवानी	3.17
133	30	प्रिस यशवंत रोड़	प्रदीप पमनानी	3.17

134	29	प्रिस यशवंत रोड़	राजेन्द्र माटा	3.62
135	27,28	प्रिस यशवंत रोड़	कल्याणदास राठौर	3.62
136	26	प्रिस यशवंत रोड़	प्रकाश अरोरा	2.94
137	25	प्रिस यशवंत रोड़	रिंकी वीडियोशॉप	2.94
138	23,24	प्रिस यशवंत रोड़	सरदारजी	3.17
139	22	प्रिस यशवंत रोड़	किशनलालजी	3.17
140	21	प्रिस यशवंत रोड़	सरदारजी	2.72
141	20	प्रिस यशवंत रोड़	मोहम्मद रईस	2.72
142	19	प्रिस यशवंत रोड़	लीलुमन गवरमन	2.94
143	18	प्रिस यशवंत रोड़	दिनेश कम्पनानी	2.94
144	16,17	प्रिस यशवंत रोड़	दिनेश कम्पनानी	3.62
145	14,15	प्रिस यशवंत रोड़	किशोर कुमार कंधारी	2.94
146	12,13	प्रिस यशवंत रोड़	जगदीश जी	4.08
147	11	प्रिस यशवंत रोड़	मुन्नालाल परमार	2.94
148	10	प्रिस यशवंत रोड़	मो. जुफी अहमद	2.94
149	9	प्रिस यशवंत रोड़	रईस अहमद	3.17
150	8	प्रिस यशवंत रोड़	अशोक कुमार हरचंद	3.17
151	7	प्रिस यशवंत रोड़	राजेन्द्र वर्मा	3.17
152	5,6	प्रिस यशवंत रोड़	प्रफुल्ल जैन	3.17
153	4	प्रिस यशवंत रोड़	हामिद खान	2.72
154	02,03	प्रिस यशवंत रोड़	दौलतसिंह	2.72
155	1	प्रिस यशवंत रोड़	श्रीमती प्रेमलता वानखेड़कर	2.27
156	—	पुलिस चौकी, थाना पंढरीनाथ	पुलिस चौकी	9.60
157	—	कढावघाट	ऑगनवाडी	52.86
158	14/1	कढावघाट	जाहिद अली पिता तुफैल एहमद	47.97
159	14/2	कढावघाट	सुहेल एहमद पिता जाहिद अली, मोहम्मद शाहीद पिता जाहिद अली	42.90
160	12/2	कढावघाट	मुमताजबी पति स्व. हाजी मोहम्मद हन्नान	16.50

161	12/2	कढावघाट	हाजरा बी पति स्व. मोण इलियास, मो. हारून पिताए अब्दुल लतिफ, मो. अयुब पिता अब्दुल लतिफ	48.13
162	15/2	कढावघाट	मोहम्मद जफर पिता स्व. चांद मोहम्मद	36.30
163	15/2	कढावघाट	मरियम बी (मम्मो आपा) पति अल्ताफ हुसैनअख्तर बानो पति स्व. मुश्ताक अहमद	18.90
164	15/2	कढावघाट	खलिकुर रहमान पिता मोहम्मद रहमाल	29.70
165	15/2	कढावघाट	मो. तौकीर खान पिता रहिम खान	16.33
166	15/2	कढावघाट	मो. शरीफ फ्रन्टसाईड	15.98
167	15/2	कढावघाट	मो. शरीफ बेग साईड	19.53
168	15/2	कढावघाट	आरीफ परवेज पिता अनवर लतीफ बेक साईड	5.85
169	101ए प्रथम मंजील 15/2	प्रथम मंजील कढावघाट	मुमताज बी पति इरशाद अहमद प्रथम मंजील	44.55
170	102एए प्रथम मंजील 15/2	प्रथम मंजील कढावघाट	आसिया बी पति मोहम्मद निसार प्रथम मंजील	23.65
171	201-202 द्वितीय मंजील 15/2	द्वितीय मंजील कढावघाट	हब्बु भाई पिता मुल्ला बा द्वितीय मंजील	44.55
172	301-302 तृतीय मंजील 15/2	तृतीय मंजील कढावघाट	हब्बु भाई पिता मुल्ला बा तृतीय मंजील	44.55
173	1 ए	नया पिठा	बानो बी पति छोटे खान	45.00
174	ग्राउण्ड प्लोर 1	नया पिठा	इंतेखाब खान पिता इश्तेयाक खान	45.00

175	1ए प्रथम मंजील	नया पिठा	इकबाल खान पिता छोटे खान	45.00
176	1 ए द्वितीय मंजील	नया पिठा	नासीर खान पिता छोटे खान	45.00
177	2 ए	नया पिठा	सलमा बी पति स्व.फिरोजुद्धीन (भूतल)	16.38
178	2 ए	नया पिठा	नफीसा बी पति स्व. अमीनोद्धीन (द्वितीय तल)	16.38
179	3 ए	नया पिठा	सलीमोद्धीन पिता सतरुद्धीन(प्रथम तल)	16.38
180	3 ए	नया पिठा	नूरन बी पति स्व. जहुर अहमद	21.56
181	5 ए	नया पिठा	ताहेरा बी पति स्व.मो असलम	18.90
182	6 ए	नया पिठा	स्व. मो खलील पिता मो. याकुब स्व. मो वारिस मों याकुब	63.23
183	7 ए	नया पिठा	मरियम बी पति स्व. अब्दुल गफुर	43.40
184	9 ए	नया पिठा	बानो बी पति स्व. मोहम्मद जहागीर	42.70
185	9/ 1	नया पिठा	अनवर अहमद पिता मुन्नु खाँ	19.10
186	9/ 2	नया पिठा	कमर अहमद पिता अनिस अहमद	18.43
187	10 ए	नया पिठा	नविन पिता रामलाल	47.26
188	11 ए	नया पिठा	बिसमिल्लाह बाई पति छोटे खाँ	29.24
189	12 ए	नया पिठा	स्व.मो शकील मो. इरफान पिता मों. शकील	24.38
190	12 ए	नया पिठा	मो.अमीन पिता माबंस इब्राहिम	24.38

191	12 ए	नया पिठा	मो. हसीन पिता स्व. मों जमिल, मो. जरिन पिता स्व. मों जमिल मो. जुबैर पिता स्व. मों जमिल	24.38
192	13 ए	नया पिठा	मस्जिद की भूमी	68.74
193	15 / 1	नया पिठा	नुरजहां पति स्वं हाजी हकीम नियाजी	53.93
194	16 ए	नया पिठा	शकुरन बी पति स्व. मों. हनीफ ठेकेदारमो. इशहाक पिता स्व. मो हनीफ ठेकेदार	25.60
195	17 ए	नया पिठा	मो. शाहीद साबरी पिता मो. इकबाल मो. साजिद पिता मोहम्मद इकबाल, मो. अरशद साबरी पिता स्व. मो. अशफाक साबरी, मो. खालीद साबरी मो. राशीद साबरी	33.86
196	18 ए	नया पिठा	मो. असलम पिता मंसुर एहमद	29.15
197	19 ए	नया पिठा	मो. अनिस पिता स्व. नूर मो. मो. नफीस पिता स्व. नूर मो.	20.00
198	20 ए	नया पिठा	हाजी अब्दुल गनी पिता वजीर खॉ	38.30
199	21 ए	नया पिठा	मो. इकबाल साबरी पिता मो. इशहाकमो. जफर साबरी पिता मो. इसमाईल	16.76
200	22 ए	नया पिठा	मस्जिद की भूमी	32.26

201	23 ए	नया पिठा	मो. इमरान पिता इस्माइल	33.50
202	24-बी	नया पिठा	अकरम एहमद पिता मखमूर एहमद	76.80
203	24ए ए	नया पिठा	असलम एहमद पिता मंसुर एहमदए महमुद एहमद पिता बौदे खॉ	118.80
204	25 ए	नया पिठा	मस्जिद की भुमी	19.57
205	28 ए	नया पिठा	असलम अहमद पिता मंसुर अहमद	29.87
206	26 ए	नया पिठा	नूर अहमद खॉन पिता कादर खॉन	29.84
207	32 ए	नया पिठा	मशरूर अहमद पिता मंसुर अहमद	27.63
208	29 ए	नया पिठा	फीरोज बी पति मंसुर एहमद	34.92
209	33 ए	नया पिठा	फरीदा बी इकबाल पटेल	1.76
210	34 ए	नया पिठा	मो. गुलफाम शोख पिता हाजी अब्दुल अजिज, शहजहाँ बी पति गुलफाम शोख	58.52
211	35 ए	नया पिठा	अख्तर हुसैन पिता इब्राहीम	90.95
212	16	छत्रीपुरा	हरिदास पिता रामलाल	149.69
213	—	छत्रीपुरा कार्नर	मंदिर	53.68
214	3	कागदीपुरा	गीता बाई रामनंद्र जी	1.95
215	1	कागदीपुरा	अमजद पिता जावेद	5.06
216	2ए	सिलावटपुरा	मो. सईद पिता मा. युनुस जावेद पिता मो. सईद	25.62
217	3ए	सिलावटपुरा	सफदर बक्श पिता स्वण्णबी बक्श	30.60

218	3/2	सिलावटपुरा	अनिशा बी पति सफदर बक्श	30.60
219	4ए	सिलावटपुरा	इरशाद मो. पिता मो. बक्श	27.20
220	6ए	सिलावटपुरा	अब्दुल रजाक पिता इब्राहीम	24.50
221	7ए	सिलावटपुरा	ताजुन निशा पति अब्दुल कदीर,अहमद इकबाल,जफर इकबाल	55.18
222	10-11	सिलावटपुरा	मजीद पिता अल्लाह बेली	29.11
223	12ए	सिलावटपुरा	अब्दुल रजाक पिता अब्दुल रहीम ,कमरून निशा पति अब्दुल रजाक	23.36
224	13ए	सिलावटपुरा	काजी जीयार्डरहमान पिता फजलुरहमान	27.52
225	14ए	सिलावटपुरा	अब्दुल मनान पिता अब्दुल,रिजवान पिता अब्दुल मनान	15.50
226	15ए	सिलावटपुरा	अब्दुल मनान पिता अब्दुल,फजलुरहमान	15.81
227	16ए	सिलावटपुरा	कन्हैयालाल जी पिता आत्माराम जी	18.30
228	17ए	सिलावटपुरा	मो. नासीर पिता मो. निसार	37.80
229	18ए	सिलावटपुरा	शेख समशुद्धिन शेख	29.40
230	20ए	सिलावटपुरा	मेहमुदा बैगम पति अब्दुल सत्तार	19.20
231	21ए	सिलावटपुरा	नावेद हुसेन पिता मोबिन हुसेन	20.10
232	22ए	सिलावटपुरा	हाजानी आमना बाई पति हाजी मो. अयुब	19.20

233	23ए	सिलावटपुरा	मोबिन एहमद पिता अलानुर, नावेद हुसैन, मो. अरशलान पिता मुबीन अहमद	22.18
234	24ए	सिलावटपुरा	जैनब बी पति मो. इलियास	20.65
235	25ए	सिलावटपुरा	अब्दुल हई पिता अब्दुल गफार	12.98
236	26ए	सिलावटपुरा	हसीना बी पति स्व. अब्दुल हमीद	15.64
237	27ए	सिलावटपुरा	मो. सेफुद्धीन पिता इकरामउद्धीन	24.57
238	28ए	सिलावटपुरा	मो. नुरुद्धीन पिता मा. शब्बीर	24.18
239	29ए	सिलावटपुरा	ममदीबी पति इब्राहिम	21.05
240	30ए	सिलावटपुरा	कमल नकुम्ब पिता किशोर नकुम्ब	24.00
241	31ए	सिलावटपुरा	मनोहरलाल कुसमाकर पिता ठाकुरलाल	27.26
242	32ए	सिलावटपुरा	मो.हनीफ जुलेखा बी पति अब्दुल हमीद	32.49
243	33ए	सिलावटपुरा	मो. शरीफ पिता नूर मोहम्मद	17.36
244	34ए	सिलावटपुरा	मो. शब्बीर पिता हाजी मोहम्मद	21.09
245	35ए	सिलावटपुरा	अब्दुल सत्तार पिता मो. सत्तार	14.82
246	36ए	सिलावटपुरा	सिद्धिक खॉ पति वशीर खॉ	16.53
247	37ए	सिलावटपुरा	चन्द्रकांता पति द्वारकादास पोरवाल	20.30
248	38ए	सिलावटपुरा	मनोरमा बाई कुसमाकर पति स्व. पुरुषोत्तम जी	16.53

249	38एबी	सिलावटपुरा	कुसुमबाई पति गगाराम जी कुसमाकर	13.20
250	39ए	सिलावटपुरा	गिरीश देवेन्द्र पिता रत्नेश कुसमाकर	14.25
251	40ए	सिलावटपुरा	महेन्द्र बाबुलाल कृष्णाकांत पिता नारायण जी कुसमाकर	18.38
252	41ए	सिलावटपुरा	अब्दुल जलाल पिता अब्दुल गनी	17.39
253	42ए	सिलावटपुरा	मोहनलालएगजराज पिता बंसतीलाल	18.56
254	43ए	सिलावटपुरा	श्री वैभव महालक्ष्मी मन्दिर	27.06
255	44ए	सिलावटपुरा	बालीबाई पति कन्हैयालाल जी	25.35
256	45ए	सिलावटपुरा	महेन्द्र विभुर पिता मोहानलाल जी जैन	29.25
257	46ए	सिलावटपुरा	राजकुमारी पति महेश कुमार	18.91
258	47ए	सिलावटपुरा	जुबेर वसीम फीरोज	12.72
259	48ए	सिलावटपुरा	सत्यनारायण पिता हरीशंकर उपाध्याय	9.36
260	49ए	सिलावटपुरा	मो. सलीम पिता मो इस्माईल	13.28
261	50ए	सिलावटपुरा	जुबेदा बाई पति मोण युसुफ	15.78
262	51ए	सिलावटपुरा	अहमद पिता इकबाल	10.87
263	52ए	सिलावटपुरा	अब्दुल रहीम नदीम अहमद पिता अब्दुल रसीद	16.40
264	53ए	सिलावटपुरा	लक्ष्मीनारायण पिता नंदलाल जी नागर	22.96
265	54ए	सिलावटपुरा	शकुरन बी पति स्व. नियाज मोहम्मद मंसूरी	20.70

266	55ए	सिलावटपुरा	नसीर मंसुरी पिता अमीर मंसुरी	19.95
267	56ए	सिलावटपुरा	धर्मेन्द्र जैन पिता कल्याण जैन	14.31
268	57ए	सिलावटपुरा	शांता बाई पति बंसत कुमार	23.85
269	58ए	सिलावटपुरा	अब्दुल मजीद पिता अब्दुल शकुर	18.98
270	59ए	सिलावटपुरा	प्रतिभा पति कैलाश नामदेव कैलाश पिता किशनलाल नामदेव	29.12
271	60ए	सिलावटपुरा	इन्द्रमल पिता चंपालाल जी	19.14
272	61ए	सिलावटपुरा	कल्याणदास पिता आशाराम जी	18.55
273	62ए	सिलावटपुरा	मस्जिद की भूमी सदर मो. युनुस ठेकेदार	18.02
274	36ए	सिलावटपुरा	मो. जावेद मो. इमरान पिता अब्दुल खलील	10.07
275	63ब	सिलावटपुरा	मनोरमा पिता नारायण जी	11.93
276	64ए	सिलावटपुरा	मो. अमजद मो. इमरान पिता मो. इकबाल	16.50
277	65ए	सिलावटपुरा	कैलाशचन्द्र पिता घिसालाल जी सरोज पति कैलाश राजेश पिता कैलाशसिंह जी	15.40
278	65 ए बी	सिलावटपुरा	लक्ष्मी पति रमेश राठोर	7.00
279	66ए	सिलावटपुरा	लक्ष्मी पति रमेश राठोर	21.28
280	67ए	सिलावटपुरा	मनोहरलाल पिता बाबुलाल	7.65

281	68एए	सिलावटपुरा	अश्विन पिता विमलचंद अग्रवाल अश्विन अग्रवाल	14.58
282	66 ब	सिलावटपुरा	बाबुलाल जी पिता गोपाल जी गेरिया	26.68
283	69 ए	सिलावटपुरा	सोहनलाल पिता भगवानलालजी मेहता	17.39
284	70ए	सिलावटपुरा	स्व. भगवानलाल जी पिता चर्तुभुज जी	18.30
285	71ए	सिलावटपुरा	रामानारायण चौहान पिता बंशीलाल चौहान	15.19
286	72ए	सिलावटपुरा	कल्याणमल पिता झंवरचंदजी विमलचंद पिता कल्याणजी	17.67
287	73ए	सिलावटपुरा	कमल आशीष पिता जानकीलाल जी परमार	12.40
288	74ए	सिलावटपुरा	कल्याणदास हाथुमल सिताराम प्रेमचन्द पिता आशुमल जी राठोर	22.23
289	75ए	सिलावटपुरा	कैसर बाई भावसार पति कल्याण भावसार	24.80
290	76ए	सिलावटपुरा	बलकृष्ण जी पिता मोतीलाल जी	12.60
291	73/2	सिलावटपुरा	बालकृष्ण जी पिता मोतीलाल जी	27.48
292	74/2	सिलावटपुरा	गोपाल चौबे पिता राजाराम	23.28
293	1ए	बियाबानी धार रोड	घनशाम राठोर पिता बाबूलाल राठौर	28.74
294	100ए	बियाबानी धार रोड	सुरेश कुमार पिता मदनलाल झाखेटिया	18.84
295	99ए	बियाबानी धार रोड	रामबाबु पिता रामेश्वर दयाल गुप्ता	10.08

296	1ए	बियाबानी धार रोड	श्यामपिता पन्नालाल धाकोनिया	55.13
297	1ए	बियाबानी धार रोड	प्रेमनारायण पिता कन्हैयालाल	26.28
298	1/2	बियाबानी धार रोड	महेन्द्र पिता रामगोपाल रघुवंशी	58.68
299	3/2	बियाबानी धार रोड	हरकुवंर बाई पति रमेशचन्द्र	23.62
300	6/2	बियाबानी धार रोड	किशनराव पिता शकरराव करडे	29.40
301	7/2	बियाबानी धार रोड	स्व. विठठलराव पिता दाजी भाउ नारायण	26.20
302	8/2	बियाबानी धार रोड	मनोहर पिता यशवंत राव	28.38
303	7/2	बियाबानी धार रोड	सुधा पति महेन्द्र सिंह चौहान	18.63
304	7/2	बियाबानी धार रोड	बबीता पति सुरेन्द्र जैन अनिता पति मुकेश जैन	17.55
305	8/2	बियाबानी धार रोड	गंगाजी पिता विजय पाण्डे	30.25
306	9/2	बियाबानी धार रोड	गंगाजी पिता विजय पाण्डे	15.81
307	9/2	बियाबानी धार रोड	कैलाश पिता मांगीलाल असोलिया	16.90
308	10/2	बियाबानी धार रोड	ऽकुन्तला पति रामचन्द्र पाटोदिया	30.79
309	11/2	बियाबानी धार रोड	मुकेश चौहान पिता रमेश	59.96
310	12/2ए	बियाबानी धार रोड	संगीता पति अनूप कुमार सचदेव	18.55
311	13/2	बियाबानी धार रोड	मो. आरीफ पिता अनवर खॉन	33.95
312	14/2	बियाबानी धार रोड	मो. सलीम इकबाल पिता मों रफीक	44.28

313	14/2	बियाबानी धार रोड	लाजवंती बाई पिता गिरधारी लाल	15.84
314	15/2	बियाबानी धार रोड	मो. अकरम पिता मरहुमहाजी अशरफ खान	57.60
315	15/2ए	बियाबानी धार रोड	मो. रजाक पिता हाजी अशरफ खान	21.18
316	14/1	बियाबानी धार रोड	रमा पति राजेन्द्र अग्निहोत्री	36.02
317	16/2	बियाबानी धार रोड	राधा पति गामा सारवान	15.40
318	17/2	बियाबानी धार रोड	मोहनलाल पिता देवीलाल जी सारवान	28.00
319	18/2ए	बियाबानी धार रोड	सुरेश पिता रामाजी पेमाल	23.66
320	18/2 ब	बियाबानी धार रोड	बालकृष्ण पिता रामाजी पेमाल	22.88
321	19/2	बियाबानी धार रोड	धनराज पिता सुभाष	4.98
322	20/2	बियाबानी धार रोड	इन्दौरीलाल पिता ओकारलाल	11.69
323	21/2	बियाबानी धार रोड	झवेरीलालजी कोठारी पिता नानालाल कोठारी	25.68
324	22/2	बियाबानी धार रोड	मंजित पिता अर्जुन सिंह	26.95
325	23/2	बियाबानी धार रोड	गणेश प्रसाद पिता बाबुलाल जी	38.04
326	24/2	बियाबानी धार रोड	नलिनी पति भाउ साहेब	20.66
327	25/2	बियाबानी धार रोड	फकीरचंद पिता बाबुलाल	26.84
328	26/2	बियाबानी धार रोड	सोनिका पति नितिन कुमार जैन	12.77

329	27 / 2	बियाबानी धार रोड	घनश्याम राठोर पिता बाबूलाल राठोर	20.01
330	27 / 2ए	बियाबानी धार रोड	स्व. केशवराव पिता नानाजी वारंगल	8.99
331	27 / 2	बियाबानी धार रोड	गिरीश पिता विश्वनाथ	9.43
332	27 / 2	बियाबानी धार रोड	राजकुमार पिता रामचन्द्र राय	8.94
333	28 / 2	बियाबानी धार रोड	समद पिता नूर अजमद खान	6.88
334	28 / 2	बियाबानी धार रोड	सुगन्ध बाई पति स्व. देवचन्द्र	23.06
335	30 / 2	बियाबानी धार रोड	कस्तुरचंद पिता राम निवास	8.84
336	31 / 2	बियाबानी धार रोड	राजेन्द्र इंगे पिता गणेश जी इंगे	13.05
337	32 / 2	बियाबानी धार रोड	शांतिलाल पिता इन्दौरीलालजी	13.02
338	33 / 2	बियाबानी धार रोड	नरेन्द्रसिंह पिता पहलाद जी	12.71
339	34 / 2	बियाबानी धार रोड	गोर्वधन सिंह पिता प्रहलाद जी	9.90
340	35 / 2	बियाबानी धार रोड	नाथुसिंह पिता प्रहलाद जी	14.52
341	36 / 2	बियाबानी धार रोड	बसंतीलाल पति कन्हैयालाल	12.47
342	37 / 2	बियाबानी धार रोड	लक्ष्मीनारायण पिता कालू जी	1.00
343	38 / 2	बियाबानी धार रोड	सुरज बाई पति शकरलाल	13.53
344	39-40 / 2	बियाबानी धार रोड	पुण्डलिकराव पिता बाला भाउ	16.20
345	41 / 2	बियाबानी धार रोड	कैलाश पिता लक्ष्मीनारायण	9.50

346	42/2	बियाबानी धार रोड	तिरलोतमा पति वंसतराव	6.36
347	43-44/2	बियाबानी धार रोड	कलावति पिता शिवजी शिंदे	22.08
348	45/2ए	बियाबानी धार रोड	बालकृष्ण पिता मोतीलाल जी	5.36
349	45/2 ब	बियाबानी धार रोड	नंदकिशोर पिता मोतीलाल	6.19
350	46/2	बियाबानी धार रोड	कमला बाई पति बालाकृष्ण	8.70
351	47/2	बियाबानी धार रोड	नंदकिशोर पिता मनका राम	17.33
352	48/2	बियाबानी धार रोड	कोमल पति मदनलालजी जैन	14.69
353	49/2	बियाबानी धार रोड	राजेश पिता रतनलाल जी भाटी	10.05
354	50/2	बियाबानी धार रोड	मो. शकील पिता मो. शफी	10.85
355	50/2	बियाबानी धार रोड	चंचल नितेश निर्मल पिता रमेशचन्द्र जी राजोरिया	10.70
356	50/2	बियाबानी धार रोड	महेश पिता बुद्धीचंद(दुकान मालिक) शंकरलाल पिता भोलाराम (मकान मालिक)	9.75
357	63/3	बियाबानी धार रोड	रघुनाथ पिता नानकराम	22.23
358	64/2	बियाबानी धार रोड	हनुमान पिता सुरजमल जैन	6.38
359	65/2	बियाबानी धार रोड	चद्रकान्ता पति नारायण गोड	10.44
360	66/1	बियाबानी धार रोड	फुलचंद पिता प्रभुलाल	8.92

361	67/2	बियाबानी धार रोड	दामोदर पिता प्रभुलाल जी	12.60
362	68/2	बियाबानी धार रोड	कमला राठोड पति स्वर्ण बालकृष्ण जी	8.82
363	69/2	बियाबानी धार रोड	सतीशएरूपेश पिता भेरूलाल जी	9.14
364	69/2	बियाबानी धार रोड	प्रहलाद राठोड पिता नारायण	9.14
365	70/2 ए	बियाबानी धार रोड	गणेश चेतन पिता मोहनलाल	7.36
366	70/2 बी	बियाबानी धार रोड	मुरलीधर बंसत पिता छगनलाल जी	7.04
367	71/2	बियाबानी धार रोड	राजेश पिता लक्ष्मीनारायण राठोड लवेश शुभम पिता राजेश राठौर	9.68
368	72/2	बियाबानी धार रोड	विकाश पिता धरमचंद जैन रेखा पति विकास जैननीरज पिता धरमचन्द्र जैन	9.03
369	72/2	बियाबानी धार रोड	महाकाली मंदिर	9.23
370	73-74/2	बियाबानी धार रोड	कैला माता मन्दिर	18.17
371	75/2	बियाबानी धार रोड	कैलाश पिता अमरचंद	10.19
372	76/2	बियाबानी धार रोड	अशोक पिता लक्ष्मणदास जी जितेन्द्र पिता अशोक	3.87
373	76/2	बियाबानी धार रोड	गांता पति चिन्तामण विकास पिता हरीशकमलेश पिता स्व० प्रभाकर	8.93

374	77/2-ए	बियाबानी धार रोड	लिलाधर पिता कन्हैयालाल सालवी	6.93
375	77/2 बी	बियाबानी धार रोड	नर्मदाबाई पति छोटेराल जी	6.27
376	77/2	बियाबानी धार रोड	योगेन्द्र पिता शकरराव सालूका	5.28
377	78/2ए	बियाबानी धार रोड	नारदाबाई पति नारायणदास पिता लक्ष्मीचंद घनश्याम दुर्गाशंकर पिता घनश्यामदास	9.25
378	78/2बी	बियाबानी धार रोड	प्रकाश पिता सुशिल पोखरना	9.80
379	79/2	बियाबानी धार रोड	महेन्द्र पिता नारायणराव कोफरे	8.61
380	83/2	बियाबानी धार रोड	राजकुमार पिता रामचन्द्र राय	93.10

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण पत्र जारी करेगा।

प्ररूप-1

{नियम 2 के उपनियम (एक) का खण्ड (झ) देखिए}

उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना

क्रमांक 816/दि. 13/02/2024 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 वर्ष 1973) की धारा-23-ग की शक्तियों का उपयोग करते हुये संचालक, एतद द्वारा इंदौर निवेश क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4
1.	कस्बा इन्दौर - महूनाका से टोरी कार्नर (बाल्दा कॉलोनी - छत्रीपुरा - मालगंज - टोरी कार्नर) तक 24 मीटर चौड़ाई का मार्ग	क 661, 663, 831, 850, 859, 860, 873, 874, 875, 877, 883, 888- का अंश भाग	कुल रकबा 135.085 मे से 0.7070
		योग:	0.7070 हेक्टर

उपरोक्त महूनाका से टोरी कार्नर जाने वाले मार्ग के दायीं ओर का विवरण				
क्रं.	भूखण्ड क्रं.	क्षेत्र/मोहल्ला	प्रभावित व्यक्तियों का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	1	महु नाका	गंगाराम रामचन्द्र	6.816
2	1	महु नाका	सेवंती लकडे आत्माराम लकडे	12.832
3	1	महु नाका	गंगाराम रामचंद्र जोशी	12.672
4	2	महु नाका	राकेश देवेन्द्र आर्य	23.177
5	3	महु नाका	विद्याधर देवीदास आर्य	13.420

6	3	महु नाका	हरीश पिता सदाशिव आर्य	13.420
7	5	महु नाका	दुर्गाप्रसाद रामचरण	16.848
8	6	महु नाका	अशोक पिता शंकरलाल आर्य	17.028
9	7	महु नाका	मालाजीराव खटके तारा मेडीकल	21.228
10	6/2	महु नाका	श्यामलाल खुराना	7.660
11	पुराना 7 नया 11	महु नाका	राजेश पिता मनोहर राठोड	16.835
12	8	महु नाका	बंशीलाल चौरसिया पारस लाण्डी	16.576
13	7	महु नाका	सुनिता बद्रीलाल डोसी	22.500
14	10	महु नाका	सोना बाई जयनाथ	9.272
15	11/1	महु नाका	ओमप्रकाश बलराम वर्मा	16.592
16	11/2	महु नाका	गीताबाई हीरालाल	16.681
18	13/1	महु नाका	विजय पिता घीसालाल राठोर	12.730
19	13/2	महु नाका	किशन यादव मातादीन	6.384
20	13/4	महु नाका	रविशंकर रामलाल चौहान	10.980
21	13/4	महु नाका	हेमन्त पिता रामरनेही गुडे	20.565
22	14	महु नाका	रमेश पिता माणिकचंद शर्मा	15.048
23	15	महु नाका	महेश पिता किशन अग्रवाल	11.948
24	15	महु नाका	पवन पिता किशन अग्रवाल	12.818
25	16	महु नाका	कंचन बाई लढडा	42.476
26	16	महु नाका	सुरेश कल्याणी, विशाल चौहान पिता किशन चौहान	2.544
27	19	महु नाका	कृष्ण गोपाल पोरवाल कमल किशोरी पोरवाल पति कृष्ण गोपाल	11.050
28	19	महु नाका	महादेव पिता सुन्दरलाल पाल	11.050
29	27	महु नाका	राजेश राठोर अंचित राठोर	18.475
30	28	महु नाका	लक्ष्मीबाई हीरालाल	17.843
31	22	महु नाका	जितेन्द्र चौधरी अमित चौधरी	96.668
32	22	महु नाका	भोला चौधरी कन्हैयालाल चौधरीकल्लू बाई सरला बाई	70.780

33	22	महु नाका	मनिया बाई पति बाबुलाल	11.570
34	32	महु नाका	सुभाष गोविन्द होल्कर किशोर गोविन्द होल्कर संजय कमलाकर होल्कर नंदन कमलाकर होल्कर	16.000
35	27	महु नाका	सुभाष पिता राममनोहर चौहान	8.900
36	62,64	महु नाका	तेजु पिता धन्नालाल	63.360
37	72,73,74	महु नाका	रूपचंद अटुटे दिलिप अटुटे पप्पु अटुटे	35.375
38	75	महु नाका	सिकंदर नाहीलचंद बनेले	10.454
39	63	महु नाका	भूरा नैयर चैनसिंह नैयर	11.936
40	39	महु नाका	उमा अमरसिंह सागर	13.323
41	66	महु नाका	चंदनसिंह पिता ठाकुरदास दिरेल	2.158
42	67	महु नाका	राजू पिता भगवान सिंह कुलपारे	2.394
43	71	महु नाका	मनोज मानसिंह पनसुरिया मंजु मानसिंह पनसुरिया	7.418
44	42 / 1	बियाबानी मेन रोड	गोपाल पोरवाल पिता घनश्याम जी	112.911
45	41	बियाबानी मेन रोड	बद्रीलाल पिता बंसीलाल चौधरी	33.165
46	40	बियाबानी मेन रोड	श्यामालाल ख्याली पिता गणेश राम जी	79.904
47	39	बियाबानी मेन रोड	मुकेश किशन पिता जाव जी राव	20.877
48	38	बियाबानी मेन रोड	शिवकुमार पाण्डेय पिता सूरजपाल पाण्डेय	13.508
49	37	बियाबानी मेन रोड	कोमल सिंह कोचर पिता हीरालाल जी	23.925
50	36	बियाबानी मेन रोड	जहुर शेख पति मो०	48.024
51	35	बियाबानी मेन रोड	पुष्पा पति रमेश चंद तिवारी	24.250
52	34	बियाबानी मेन रोड	नीलेश पिता लेखराज, बबीता पति निलेश डोसी	35.927

53	33	बियाबानी मेन रोड	विजय राठौर पिता श्री हेमराज राठौर	27.850
54	32	बियाबानी मेन रोड	जगन्नाथ सिंह पिता किशन सिंह	31.350
55	31/2	बियाबानी मेन रोड	यमुनाबाई पति दत्तुलाल अग्रवाल	11.000
56	31/1	बियाबानी मेन रोड	श्री महेश्वरी पेपर्स सोनी जी	21.053
57	30/1	बियाबानी मेन रोड	चद्रावती पति देवेन्द्र कुमार जैन	32.625
58	28	बियाबानी मेन रोड	चंद्रकांता बजाज पति गोविन्द बजाज	14.960
59	27,28/1	बियाबानी मेन रोड	आराधना पाण्डेय पति रामकुमार पाण्डेय	25.515
60	27/1	बियाबानी मेन रोड	केसरबाई नारोलिया रजनीश सिलाई मशीन	25.896
61	27/2	बियाबानी मेन रोड	नूरजहाँ बेगम पति अब्दुल	20.160
62	26	बियाबानी मेन रोड	गुलाम रसुल पिता इब्राइम रसुल	20.460
63	25/1	बियाबानी मेन रोड	शशीकला मिश्रा शीतला प्रसाद मिश्रा	20.460
64	25/2	बियाबानी मेन रोड	प्रियंका पति कुलदीप विश्वकर्मा	20.460
65	24	बियाबानी मेन रोड	मोहम्मद पिता गुलाम कुरेशी	37.855
66	23	बियाबानी मेन रोड	बेबी बाई सेठिया	29.150
67	22/2	बियाबानी मेन रोड	मुस्तफा	14.790
68	22/1	बियाबानी मेन रोड	बेवा पति इमदाद आशिया बी अली	18.910
69	21	बियाबानी मेन रोड	लाल खॉ पिता अहमद खॉ	28.560
70	20	बियाबानी मेन रोड	रहमान पिता अब्दुलरज्जाक हाजी फारुक बेवा कल्लु खॉ	26.400
71	19/1	बियाबानी मेन रोड	महेशचंद पिता बंशीधर जी	29.784
72	18	बियाबानी मेन रोड	मदन पिता मोहन व्यास	20.770
73	17	बियाबानी मेन रोड	बी.के. सालगर पिता खण्डेराव सालगर	28.140
74	16	बियाबानी मेन रोड	केसरीमल मंगल जी	26.800

75	15	बियाबानी मेन रोड	अशोक ऐरन	30.360
76	14/1	बियाबानी मेन रोड	राजेश पिता लेखराज डिम्पल आस्था फर्नीचर	34.425
77	13	बियाबानी मेन रोड	छगनलाल रामलाल	29.280
78	12	बियाबानी मेन रोड	सुरेश पिता देवकृष्ण राठौर	28.060
79	12/1	बियाबानी मेन रोड	गिरीराज नीमा पिता चंद्रशेखर जी	31.850
80	11	बियाबानी मेन रोड	चंद्रप्रकाश जैन पिता स्व नेमीचंद जी जैन	24.150
81	10	बियाबानी मेन रोड	सत्यनारायण खण्डेवाल	59.400
82	9	बियाबानी मेन रोड	प्रेमकुमारी देवी अस्पताल	198.450
83	8	बियाबानी मेन रोड	सुदर्शन टॉवर जी+3	42.638
84	7	बियाबानी मेन रोड	बालचंद लालवानी, संजय जैन नीलम टेन्ट हाउस	17.640
85	6	बियाबानी मेन रोड	पुनिया बाई पति घीसालाल सालवी	33.630
86	5	बियाबानी मेन रोड	रमेशचंद राठौर	25.830
87	4	बियाबानी मेन रोड	राजेश पिता घिसालाल जयसवाल	30.420
88	3	बियाबानी मेन रोड	रमेश पिता लक्ष्मीनारायण बिराजी	22.770
89	2	बियाबानी मेन रोड	रामप्रसाद पिता शिवकुमार चौबे	32.670
90	1	बियाबानी मेन रोड	दुर्गाबाई कृष्णाबाई चौबे	42.630
91	33	भगतसिंह मार्ग मालगंज	निवेदिता पुरवार पति संजय पुरवार	27.520
92	32	भगतसिंह मार्ग मालगंज	सत्कार टेन्ट हाउस	32.640
93	27	भगतसिंह मार्ग मालगंज	निवेदिता एवं दीपा पुरवार	32.000
94	29	भगतसिंह मार्ग मालगंज	गिरीराज पोरवाल	16.660
95	28	भगतसिंह मार्ग मालगंज	रितेश पुरवार संजय पुरवार	19.000

96	25	भगतसिंह मार्ग मालगंज	कान्ता बाई पति मुन्नालाल	12.000
97	25	भगतसिंह मार्ग मालगंज	केशरबाई राजेन्द्र चौहान	19.680
98	24	भगतसिंह मार्ग मालगंज	ओमप्रकाश साहू	34.220
99	23	भगतसिंह मार्ग मालगंज	स्व. मोहनसिंह चौहान	22.550
100	22	भगतसिंह मार्ग मालगंज	सावित्रीदेवी राय पति श्याम जी	17.940
101	21	भगतसिंह मार्ग मालगंज	स्व. प्रतापसिंह चौहान	30.385
102	20	भगतसिंह मार्ग मालगंज	सरिता राठोर पति दिनेश नाकोडा	26.215
103	19	भगतसिंह मार्ग मालगंज	अशोक शर्मा उचित	21.996
104	18	भगतसिंह मार्ग मालगंज	मुरलीधर नीना सर्व श्री	15.228
105	16/17	भगतसिंह मार्ग मालगंज	सत्यनारायण अग्रवाल पिता दिनदयाल जी	36.960
106	नया 23	भगतसिंह मार्ग मालगंज	सज्जनबाई पोरवाल मेधा बंसल	19.975
107	12	भगतसिंह मार्ग मालगंज	संजय पोरवाल पिता दिलिप	7.050
108	13	भगतसिंह मार्ग मालगंज	कैलाश यादव पिता रामप्रसाद	16.430
109	14/2	भगतसिंह मार्ग मालगंज	सत्यनारायण अग्रवाल पिता जगन्नाथ	21.600
110	59	लोधीपुरा	मांगीलाल राठोर श्री	32.400
111	58,57	लोधीपुरा	मोतीलालजी पिता गेंदालाल जी	31.950
112	55/1	लोधीपुरा	मांगीलाल राठोर अपना स्वीट्स	37.960
113	59/1	लोधीपुरा	अनिल कुमार पिता रामचन्द्र निमा	25.185

114	60 / 1	लोधीपुरा	राधाकृष्णा नीमा पिता रामचन्द्र नेमा स्वीट्स	3.875
115	57 / 1	लोधीपुरा	सुशीला पति रमेशचन्द्रभण्डारी	23.075
116	58	लोधीपुरा	गणेश नाकोडा	28.480
117	63	लोधीपुरा	विठ्ठलदास वल्लभदास	18.000
118	60 / 1	लोधीपुरा	राधा बाई सिकजी प्रहलाद दास	21.000
119	66 / 1	लोधीपुरा	बाबुलाल तिवारी श्यामलाल तिवारी	62.300
120	36	लोधीपुरा	प्रवीण कुमार पिता प्रभाकर बहिनिया	16.100
121	61 / 1	लोधीपुरा मालगंज	सत्यनारायण अग्रवाल पिता शिव	16.450
122	12	लोधीपुरा मालगंज	उत्तमचंद पिता महावीर	40.073
123	11	लोधीपुरा मालगंज	बंशीलाल पिता रेवाराम शर्मा	18.733
124	11	लोधीपुरा मालगंज	नारायण पिता रेवाराम शर्मा	38.350
125	235	जवाहर मार्ग	श्री नारायण सेठी नीमा नेमा धर्मशाला	82.080
126	6	मालगंज	राधा बाई बेवा कल्याणराव दिघे, देव पिता मनोहर राव दिघे	28.350
127	5	मालगंज	मनोज सेठी	22.420
128	4 / 1	मालगंज	सतीशचन्द्र सोनी, श्यामजी सोनी, रजिद आशा सोनी, श्याम सोनी पति रामकिशन सोनी	33.165
129	3 / 1,3 / 4,3 / 2, 4 / 1	मालगंज	सुभाष सोनी, सतीश सोनी, मोहन सोनी, श्याम सोनी, महेन्द्र सोनी	21.620
130	4	मालगंज	लड्डुलाल जैन पिता मथुरालाल जैन	18.500
131	2	मालगंज	रामधन जी बाबुलाल जी, चन्दा प्रभु जी	39.420

132	1	मालगंज	गोतम कुमार जैन	23.870
133	21 22	इतवारिया बाजार	हिन्दी प्राथमिक विद्यालय	113.356
134	48	मोलाना आजाद मार्ग मालगंज	कृष्णकुमार खंडैया पिता हरीकिशन	26.640
135	47	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	बद्रीलाल जैन पिता कंवरलाल जैन	26.492
136	46	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	संजय प्रजापति केशर बाई पिता रमेश प्रजापति	33.540
137	45	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	बद्रीलाल जैन पिता कंवरलाल जैन	33.060
138	44	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	अभिलाषा जैनपति जितेन्द्र जैन	12.250
139	44	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	किरण पति प्रहलाद शर्मा	11.270
140	43	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	अशोक पिता बालकिशन बलदवा	16.500
141	42	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	शरद पिता बाबुलाल मित्तल	15.190
142	41	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	रुकमणीबाई पति बाबुलाल शर्मा	20.680
143	40	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	हरी ठाकुर पिता राम ठाकुर	24.800
144	39	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	ओमप्रकाश पुजारी रायपुर	24.800
145	50	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	मोहम्मद शफी अब्दुल रजाक मोहम्मद बख्श	17.510
146	37/1 लोहार पट्टी 37/2	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	खण्डेवाल धर्मशाला की दुकान	0.132
147	36	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	अशोक आयरन ट्रेडर्स	10.614
148	36	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	श्री हंसदास प्रायवेट स्कूल	6.850
149	36	मोलाना आजाद मार्ग लोहार पट्टी	श्री हंसदास संस्थान	13.012

उपरोक्त महूनाका से टोरी कार्नर जाने वाले मार्ग के बायी ओर का विवरण				
क्रं.	भूखण्ड क्रं.	क्षेत्र/मोहल्ला	प्रभावित व्यक्तियों का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	32	महु नाका	चन्द्रकांत भाटी पिता देवनारायण	12
2	83	महु नाका	कलाबाई राठोड पति रामप्रसाद	9.09
3	33	महु नाका	आशीष ठाकुर पिता ओमप्रकाश ठाकुर	8.92
4	33	महु नाका	मस्जिद जकरीयाह	11.89
5	36	महु नाका	ओमप्रकाश ठाकुर पिता जगदीश	14.83
6	37	महु नाका	अशोक पिता अंचित राठोड	14.83
7	39,38	महु नाका	कामना देवी पति भगवानदास, आशा पति मनोज, स्वतन्त्रवाला पोरवाल	14.05
8	40	महु नाका	हरीश पिता हिरालालप्रेमबाई, सुभाष पिता हिरालाल, बाबुलाल पिता हिरालाल	14.13
9	40	महु नाका	किशनलाल मेवालाल लखनपाल पिता जगदीश पाल	14.13
10	94	महु नाका	लोकेन्द्र सिंह पिता देवेन्द्र सिंह राठोड	14.18
11	95	महु नाका	दृशलाल रामभरोसे गुप्ता	14.31
12	44	महु नाका	रामचन्द्र पिता सूरज पाल	14.41
13	45	महु नाका	नन्दकिशोर राठोड पिता जुगलकिशोर	16.79
14	48	महु नाका	श्री किशन माता देवि प्रसाद	16.31
15	—	महु नाका	श्री कल्याण माते त्वरी दिगम्बर जैन उ.मा.वि	36.45
16	45	बियाबान	श्री बनी प्रसाद पिता शिवप्रसाद	39.616
17	47	बियाबानी महु नाका इन्दौर	श्रीमती कल्पना पति मनीष पाण्डेय मनीषा पति यतीश पाण्डेय	29.28

18	48/1	बियाबानी महु नाका इन्दौर	नीलू देवी पति बालकिशन आर्य अमरसिंह पिता कन्हैयालाल गौडिया	61.383
19	48/1	बियाबानी महु नाका इन्दौर	राज वैध पण्डित, ख्याली द्विवेदी	51.8
20	48	बियाबानी महु नाका इन्दौर	यश आनंद पिता शिवकुमार पाण्डे	42.273
21	54/1	बियाबानी महु नाका इन्दौर	विजय पिता सुरज पाल पाण्डेय श्रीमती शारदा पति विजय पाण्डेय	63.535
22	58	बियाबानी महु नाका इन्दौर	रामप्रसाद गुप्ता पिता घनश्याम गुप्ता	15.225
23	59	बियाबानी महु नाका इन्दौर	अमर ओटकर पिता धर्मेन्द्र ओटकर	41.82
24	60/1	बियाबानी महु नाका इन्दौर	स्व. गुलाम नबी कलाम भाई	14.555
25	60	बियाबानी महु नाका इन्दौर	सुरेश सितलानी पिता लोकमल सितलानी	16.77
26	60	बियाबानी महु नाका इन्दौर	राजेश सितलानी पिता लोकमल सितलानी	14.19
27	61	बियाबानी महु नाका इन्दौर	राजेन्द्र हेमराज राठोड	30.7125
28	62/1	बियाबानी महु नाका इन्दौर	शकीला बी डॉ सलाम कुरेशी	16.08
29	62	बियाबानी महु नाका इन्दौर	ओमप्रकाश बजाज पिता गोविंद दास बजाज	19.76
30	63-64	बियाबानी महु नाका इन्दौर	इम्दाद अली मस्जिद	111
31	65/1	बियाबानी महु नाका इन्दौर	पार्श्वनाथ जनरल स्टोर्स राहुल इलेक्ट्रानिक्स प्रथम मंजील शीला सुनिल पोरवाल चन्द्रवती देवेन्द्र कुमार जैन द्वितीय मंजील रामकृष्णव आचार्य सुनिल ओकारलाल मुदंडा तृतीय मंजील लक्ष्मीनारायण पंवर माणिकलाल अमृतलाल	30.525
32	66/3	बियाबानी महु नाका इन्दौर	विकास शर्मा पिता सुधीर शर्मा	12.69

33	66/2	बियाबानी महु नाका इन्दौर	सुधीर सुगधी पिता बाबूलाल जी	11.75
34	66/1	बियाबानी महु नाका इन्दौर	श्रीमती कृष्णा पति कैलाश बजाज	14.85
35	67	बियाबानी महु नाका इन्दौर	इम्दाद अली मस्जिद की मकान	13.05
36	68	बियाबानी महु नाका इन्दौर	हुकुमचंद पिता देव सोलंकी	26.24
37	69	बियाबानी महु नाका इन्दौर	रामचन्द्र चौहान पिता कचरूलाल	25.83
38	70	बियाबानी महु नाका इन्दौर	विजय पिता दुर्लभ दास	21.39
39	71	बियाबानी महु नाका इन्दौर	स्वर्गीय सीता बाई पति ताराचंद	43.125
40	72	बियाबानी महु नाका इन्दौर	मस्जिद का मकान	27.72
41	75	बियाबानी महु नाका इन्दौर	साधना जैन पति विजय कुमार जैन	42
42	76	बियाबानी महु नाका इन्दौर	रुकमणी बाई रामजीलाल	29.8
43	77	बियाबानी महु नाका इन्दौर	सुरज बाई पति रामजीलाल	26.95
44	80	बियाबानी महु नाका इन्दौर	खुली भूमी अग्रवाल जी	68.68
45	81	बियाबानी महु नाका इन्दौर	सत्यनारायण पिता छोटेला जी गुप्ता	41.2125
46	82	बियाबानी महु नाका इन्दौर	मनिष पाल पिता रामभरोसे	36.48
47	83	बियाबानी महु नाका इन्दौर	राजेन्द्रकुमार अमरचंद पूजा मेडिकल	30.94
48	84	बियाबानी महु नाका इन्दौर	दिनेशचंद पिता बाबुलाल माहेश्वरी	21.7175
49	85	बियाबानी महु नाका इन्दौर	विजय कुमार शांतिलाल ठाकोर लाल राठोर	20.88
50	86	बियाबानी महु नाका इन्दौर	राजकुमार शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा	18.6

51	86 / 2	बियाबानी महु नाका इन्दौर	सुरेशचंद्र ,पिता रामचन्द्र छजलाणी	25.086
52	87 / 1	बियाबानी महु नाका इन्दौर	रामदुलारी बाई पति बाबूलाल साहू	15.5375
53	89 / 1	बियाबानी महु नाका इन्दौर	पंकज साहू पिता जगदीशचन्द्र साहू	14.85
54	89	बियाबानी महु नाका इन्दौर	ओमप्रकाश फनसे पिता श्रीनाथ	30.7925
55	91 / 1	बियाबानी महु नाका इन्दौर	केतनसिंह पिता लक्ष्मणसिंह,मंजु चौहान	9.88
56	92	बियाबानी महु नाका इन्दौर	बाबूभाई अमीर भाई	18.75
57	93	बियाबानी महु नाका इन्दौर	प्रकाश जगदीशचंद्र राठोड़	11.44
58	94 / 1	बियाबानी महु नाका इन्दौर	रामप्यारी शंकरसिंह शिवसिंह गोड़	21.32
59	94 / 2	बियाबानी महु नाका इन्दौर	अयोध्या बाई परमार टेलर्स क्यू	21.8
60	95 / 1	बियाबानी महु नाका इन्दौर	शरद जैन पिता बंशीलाल जी जैन	42.14
61	97	बियाबानी महु नाका इन्दौर	राजेन्द्र तिवारी पिता नरेन्द्र तिवारी	2.7
62	100,101	बियाबानी महु नाका इन्दौर	ओमप्रकाश बंसल अजय बंसल पिता रामनंदन बंसल लैमिनेशनवर्क	38.95
63	102	बियाबानी महु नाका इन्दौर	अब्दुल पिता रहमान अट्टु भाई	24.57
64	102	बियाबानी महु नाका इन्दौर	रामबाबु पिता रामेश्वर दयाल	19.9375
65	102	बियाबानी महु नाका इन्दौर	मदनलाल सुरेश जाखडिया मस्ताना दुध	23.2
66	102	बियाबानी महु नाका इन्दौर	गुलाबचंद जैन पिता अशोक कुमार जैन	37.44
67	33	भगतसिंग मार्ग मालगंज	राजेश राठोर पिता स्व. लक्ष्मीनारायण राठोर	64.05

68	35	भगतसिंग मार्ग मालगंज	किशोरीलाल पिता हुकुमचन्द्र जी राठोर	13.8
69	36	भगतसिंग मार्ग मालगंज	विष्णुप्रसाद हुकुमचंद	13.34
70	37	भगतसिंग मार्ग मालगंज	ननूराम पिता हुकुमचंद	13.2
71	38	भगतसिंग मार्ग मालगंज	ओमप्रकाश पिता रतनलाल गुप्ता	18.63
72	39	भगतसिंग मार्ग मालगंज	सुरेश पिता रामचन्द्र गुप्ता	18.63
73	40	भगतसिंग मार्ग मालगंज	शकीरा बी पति मो. बक्श	19.3575
74	42	भगतसिंग मार्ग मालगंज	सुनिल तलरेजा मोहित	37.38
75	43	भगतसिंग मार्ग मालगंज	संजय पिता रामकिशन पुरवार	16.15
76	44	भगतसिंग मार्ग मालगंज	हरिकिशन पिता रामचन्द्र पुरवार	14.2509
77	45	भगतसिंग मार्ग मालगंज	रामेश्वर हरिशंकर पिता भेरूलाल	27.3
78	46	भगतसिंग मार्ग मालगंज	जीवनलाल पिता मांगीलाल	24.94
79	47	भगतसिंग मार्ग मालगंज	अशोक रामावत पिता झमकलाल रामावत	11.55
80	48	भगतसिंग मार्ग मालगंज	विनोद सालवी पिता छगनलाल	12.4
81	48	भगतसिंग मार्ग मालगंज	सलियाम बणदगी लक्ष्मण ड्रायक्लीनर्स	12
82	49	भगतसिंग मार्ग मालगंज	शंकरराव मुक्केरकर पिता गोपालराव	106.6975
83	49	भगतसिंग मार्ग मालगंज	देवका बाई भिंगारे	41.16
84	49,50	भगतसिंग मार्ग मालगंज	नरेन्द्र सोलंकी बघ्ठी वाले	50.4125
85	63	भगतसिंग मार्ग मालगंज	गोरादेवी श्री कृष्णा शर्मा	18.48

86	64	भगतसिंग मार्ग मालगंज	मंजु बाई ओमप्रकाश मिश्रा	15.68
87	64	भगतसिंग मार्ग मालगंज	अजय पिता बालकिशन	18.91
88	55	भगतसिंग मार्ग मालगंज	राधे श्याम पिता प्रभुलाल शर्मा	53.375
89	56,57	भगतसिंग मार्ग मालगंज	जमनाबाई पति विश्वनाथ	50.02
90	58	भगतसिंग मार्ग मालगंज	राजेश कुमार पिता कमलेश शर्मा	52.605
91	55	भगतसिंग मार्ग मालगंज	वीरेन्द्र यादव स्व.कन्हैयालाल यादव	23.76
92	63	भगतसिंग मार्ग मालगंज	प्रवीण कुमार बहिनिया बहिनिया ग्राफिक्स	17.36
93	62	भगतसिंग मार्ग मालगंज	नारायण प्रसाद पिता हरदेव शर्मा	20.15
94	63	भगतसिंग मार्ग मालगंज	केशरीमल जैन के.जैन आर्टस पलेक्स	19.5
95	64	भगतसिंग मार्ग मालगंज	मधु शर्मा पति महेश शर्मा	26.975
96	65	भगतसिंग मार्ग मालगंज	डॉ सरिता जैन बी.एल.जैन कमल सोमानी	23.4
97	66	भगतसिंग मार्ग मालगंज	राजेन्द्र प्रसाद जयसवाल पिता गुरुप्रसाद जायसवाल	25.875
98	70	भगतसिंग मार्ग मालगंज	लादुराम मंगल जी	48.45
99	71	भगतसिंग मार्ग मालगंज	भागीरथ पिता रामनारायण	14.35
100	72	भगतसिंग मार्ग मालगंज	स्व.सम्पत बाई पति गोपाल प्रजापत	16.4
101	73	भगतसिंग मार्ग मालगंज	सावित्री बाई पति नारायण प्रसाद शर्मा	11.9
102	47-75	भगतसिंग मार्ग मालगंज	राजू सोनी पिता बद्रीलाल सोनी	17.5
103	76	भगतसिंग मार्ग मालगंज	कैलाश जी वर्मा मावा भण्डार	12.672

104	77	भगतसिंग मार्ग मालगंज	विजय जैन	4.73
105	78	भगतसिंग मार्ग मालगंज	प्रेम नारायण जी शर्मा	7.581
106	79	भगतसिंग मार्ग मालगंज	बंसत कुमार नंदकिशोर शर्मा	6.29
107	9	लोहार पट्टी	विशाल कुमार वरुण कुमार जैन	36.89
108	50-51	लोहार पट्टी	भंवरी बाई बद्रीलाल	45.08
109	52	लोहार पट्टी	त्रिलोकचंद जैन मनोज	27
110	53	लोहार पट्टी	स्व. श्री मंगली बाई	11.3
111	54	लोहार पट्टी	गौतम कुमार जैन	17.575
112	55	लोहार पट्टी	सत्यनारायण जोशी	50.149
113	56	लोहार पट्टी	मुस्तन शेर नजमीताहीर अली नजमी	16.81
114	57	लोहार पट्टी	पुष्पा रमेशचन्द्र	11.2
115	73	मोलाना आजाद मार्ग	श्याम खत्री	10.4
116	59	लोहार पट्टी	कंचन गोयल	7.843
117	60	लोहार पट्टी	जैन लोहा भण्डार	7.48
118	61	लोहार पट्टी	मनीबाई शंकरलाल	4.29
119	62	लोहार पट्टी	राधे श्याम मित्तल	2.16
120	63	लोहार पट्टी	भगवानदास मुलचंद	2.72
121	64	लोहार पट्टी	एस.आर. गुप्ता	3.4
122	61/1	लोहार पट्टी	मोसीन अली पिता मो. खुदाबख्श	12.48
123	60/2	लोहार पट्टी	सपना केसवानी	5.7
124	96	लोहार पट्टी	शबाना बी पति अनवर मनसुरी	5.7
125	58	लोहार पट्टी	जमलूदीन/मो.यूसुफ	4.5
126	57/1	लोहार पट्टी	मुरलीधर पिता पहिलाज राय	4.6
127	57/2	लोहार पट्टी	इकबाल भाई मोहम्मद उमर पिता मोहम्मद अब्बास	3.7
128	54	लोहार पट्टी	नन्दकुमार अग्रवाल	8.4
129	53	लोहार पट्टी	पवन कुमार जैन	8.4
130	52/2	लोहार पट्टी	अकबर अली	8.4
131	60	लोहार पट्टी	श्री कृष्णराय पुरोहित पिता दीनबंधु पुरोहित	6
132	59	लोहार पट्टी	जमीला बी पति शकील भाई	3.9

133	58	लोहार पट्टी	अब्दुल पिता हमीद	4
134	57	लोहार पट्टी	पवन जैन	4
135	57	लोहार पट्टी	मो. इकबाल	4
136	56	लोहार पट्टी मल्हारगंज	मोहम्मद चॉद	4
137	पुरान 56 नया 47	मल्हारगंज लोहार पट्टी	दिनेश कुमार ओम	5.64
138	47	मल्हारगंज लोहार पट्टी	गेंदालाल सेठी	5.64
139	55	मल्हारगंज लोहार पट्टी	सुशीला बाई सेठी	5.64
140	44	मल्हारगंज लोहार पट्टी	मोहम्मद आशिफ कासम जुम्माजी	5.64
141	51-52	लोहार पट्टी	डी.सी नादर एण्ड कम्पनी	8.19
142	50	लोहार पट्टी	कैलाशचन्द्र मिश्रीलाल	2.52
143	50	लोहार पट्टी	राजकुमार बाबुलाल बड़जात्या	4.68
144	41	लोहार पट्टी	वाहिद खिलजी, मेहरूननिशा	1.89
145	41	लोहार पट्टी	गुलाम नबीराबिया बी पति मो. अनीर	0.74
146	41	लोहार पट्टी मल्हारगंज	तब्सुम बी पति अब्दुल अजीज	3
147	40	लोहार पट्टी मल्हारगंज	सुलेमान भाई	3.72
148	39	लोहार पट्टी मल्हारगंज	मोहम्मद हारूनमोहम्मद लुकमानमोहम्मद उस्मान	2.7
149	38	लोहार पट्टी मल्हारगंज	शरिफान बीमोहम्मद कासम	2.7
150	37	लोहार पट्टी मल्हारगंज	जाहिद खिलजी	1.28
151	36	लोहार पट्टी मल्हारगंज	मोहम्मद सलीम	1.28
152	35	लोहार पट्टी मल्हारगंज	मोहम्मद सरिफ फिरोज भाई	1.28
153	34	लोहार पट्टी मल्हारगंज	महेश कासीवाल	2.8

154	35	लोहार पट्टी मल्हारगंज	प्रफुल मानकचन्द्र जी	3.87
155	36	लोहार पट्टी मल्हारगंज	सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण अग्रवाल	3.23
156	31	लोहार पट्टी मल्हारगंज	अनिल कुमार पिता राधेश्याम पाण्डे	4.2
157	33	लोहार पट्टी मल्हारगंज	सांता बाई रामहल जी मोतीलाल जी	1.14

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण पत्र जारी करेगा।

प्ररूप-1

{नियम 2 के उपनियम (एक) का खण्ड (झ) देखिए}

उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना

क्रमांक.....814 दि. 13/02/2024 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 वर्ष 1973) की धारा-23-ग की शक्तियों का उपयोग करते हुये संचालक, एतद् द्वारा इंदौर निवेश क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4
1.	कस्बा इन्दौर - व्यास ब्रिज से जिन्सी तक 30 मीटर चौड़ाई का मार्ग	क 95, 96, 97, 98, 99 - का अंश भाग	कुल रकबा 35.90 मे से 0.2204
		योग:	0.2204 हेक्टर

उपरोक्त व्यास ब्रिज से जीसी जाने वाले मार्ग के दायी ओर का विवरण

क्रं.	भूखण्ड क्रं.	क्षेत्र / मोहल्ला	प्रभावित व्यक्तियों का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	284	पिलिया खाल एरोडम रोड, सीताराम कॉलोनी	राजेश पिता रामभरोसे कसेरा	52.50
2	282	पिलिया खाल एरोडम रोड सीताराम कॉलोनी	परसराम पिता हीराचंद पंजवानी, ऑईल मिल	18.75
3	282	पिलिया खाल एरोडम रोड सीताराम कॉलोनी	सपना पति कुलभूषण	18.75
4	282	पिलिया खाल एरोडम रोड सीताराम कॉलोनी	अतुल पिता ज्ञानचंद मित्तल	16.5

5	282	पिलिया खाल एरोड्रम रोड, सीताराम कॉलोनी	रितु पति अतुल मिस्तल	18
6	281	पिलिया खाल एरोड्रम रोड सीताराम कॉलोनी	कुलभूषण पिता ज्ञानचंद, कुक्की	37.5
7	281	पिलिया खाल एरोड्रम रोड सीताराम कॉलोनी	विद्युत पिता ज्ञानचंद गुप्ता	37.5
8	281	पिलिया खाल एरोड्रम रोड सीताराम कॉलोनी	मनीषा पति अतुल गंग	43.5
9	281	पिलिया खाल एरोड्रम रोड सीताराम कॉलोनी	निना पति विद्युत मिस्तल	42.75
10	15	सीताराम कॉलोनी	मदनलाल पिता शिवलाल वर्मा	9.6
11	14	राम स्वीट्स एवं नमकीन, एरोड्रम रोड	हिरालाल टॉक पारमार्थिक न्यास	32.195
12	13	सीताराम कॉलोनी	प्रेमलता पति मदनलाल मिस्तल	11.75
13	12	सीताराम कॉलोनी	राधेश्याम पिता किशोरिलाल	18.655
14	11	एरोड्रम रोड सीताराम कॉलोनी	मुकेश दुबे पिता गोविन्दप्रसाद दुबे	9.84
15	10	सीताराम पार्क कॉलोनी	गोपाल, शांतिलाल, ललीत पिता भेरुलाल प्रजापत	24.225
16	9	सीताराम पार्क कॉलोनी	पंचोली ब्रदर्स	27.06
17	6	सीताराम पार्क कॉलोनी	भुरी बाई पति टिकमचंद	9.8
18	5	सीताराम पार्क कॉलोनी	राधेश्याम पिता जानकीलाल अग्रवाल	9.8
19	4	सीताराम पार्क कॉलोनी	नन्नुलाल पिता राम पंवार	7.84
20	3	सीताराम पार्क कॉलोनी	हेमन्त पिता भानुप्रकाश सोनी	11.52

उपरोक्त व्यास ब्रिज से जीसी जाने वाले मार्ग के बायी ओर का विवरण

क्रं.	भूखण्ड क्रं.	क्षेत्र/मोहल्ला	प्रभावित व्यक्तियों का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	-	बडा गणपति चौराहा	गंगवाल महिला कला निकेतन	240.124
2	-	नेताजी सुभाष मार्ग	गर्वमेंट सुभाष स्कूल	990
3	-	नेताजी सुभाष मार्ग	म.प्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	362.88

4	94 पुराना, नया 116,	नेताजी सुभाष मार्ग	(1) कुमारी निलम पिता श्री कमलाशंकरजी श्रीवास्तव (2) कुमारी गरिमा पिता श्री कमला शंकरजी श्रीवास्तव (3) श्रीमति कांता देवी पति श्री कमला शंकरजी श्रीवास्तव	45.08
5	115	नेताजी सुभाष मार्ग	श्री गजेन्द्र कसेरा/ ममता कसेरा	39.04
6	114	नेताजी सुभाष मार्ग	सीताराम रामप्रसाद दुबे	26.364
7	113	नेताजी सुभाष मार्ग	रमाशंकर शुक्ला	9.972
8	112	नेताजी सुभाष मार्ग	दयाशंकर तिवारी	10.044
9	112	नेताजी सुभाष मार्ग	सुमनलता तिवारी	12.708
10	112	नेताजी सुभाष मार्ग	बसंत तिवारी	10.296

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण पत्र जारी करेगा।

प्ररूप-1

{नियम 2 के उपनियम (एक) का खण्ड (झ) देखिए}

उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना

क्रमांक. 818 / दि. 13 / 02 / 2024 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 वर्ष 1973) की धारा-23-ग की शक्तियों का उपयोग करते हुये संचालक, एतद् द्वारा इंदौर निवेश क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करता है:-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
1	2	3	4	
1.	कस्बा इन्दौर (बड़ा गणपति से राजमोहल्ला तक 30 मीटर चौड़ाई का मार्ग)	क 98, 99, 112, 113/1, 113/2, 186, 188, 189, 161, 767, 766, 783, 797/1 - का अंश भाग	कुल रकबा 41.03 मे से 0.6849	
		योग:	0.6849 हेक्टर	
उपरोक्त बड़ा गणपति से राजमोहल्ला जाने वाले मार्ग के दायीं ओर का विवरण				
क्रं.	भूखण्ड क्रं.	क्षेत्र/मोहल्ला	सड़क निर्माण में प्रभावित भूखण्डों एवं व्यक्तियों का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	423	एम जी रोड इन्दौर	अजय, विजय, संजय पिता गुरु प्रसाद दीक्षित	117.81
2	103/89,	गणेशगंज, इन्दौर	जुगलकिशोर कमलेश विनिता बाई आन्द अग्रवाल पिता मोहनलाल	92.40
3	102/97	गणेशगंज, इन्दौर	रोहित पाण्डे पिता घनश्याम पाण्डे माता पूर्णिमा पाण्डे	48.60

4	86/89	गणेशगंज, इन्दौर	श्रीमती लक्ष्मीबाई पति स्व. फुल गिरि श्रीमती शकुन बाई पति श्री ललित गिरि ,वं गोपाल गिरि पिता श्री लखन गिरि	42.64
5	85/78	गणेशगंज, इन्दौर	संतोष हरीश ,वं सतीश पिता विष्णुप्रसाद शुक्ला	54.94
6	84	गणेशगंज, इन्दौर	चन्द्रप्रकाश पिता मोहनलाल गोयल महेश पिता मोहन लाल गोयल	30.42
7	99/84	गणेशगंज, इन्दौर	श्रीमती ललिता गोयल पति मोहन लाल गोयल	28.35
8	98/76	गणेशगंज, इन्दौर	ओमप्रकाश पिता गुलाबसिंह हाडा	39.16
9	97/88	गणेशगंज, इन्दौर	ओमप्रकाश,शंकर ,निलेश पिता गोरीशंकर सनेचर	24.75
10	97/75	गणेशगंज, इन्दौर	निर्मला पति ओमप्रकाश	24.75
11	96/75	गणेशगंज, इन्दौर	सुरेन्द्र सेन नितिन सेन विशाल सेन	23.76
12	95/80	गणेशगंज, इन्दौर	आशातोश यादव पिता श्री नारायण सिंह	55.8
13	94/72	गणेशगंज, इन्दौर	अजय यादव पिता जगन्नाथ यादव	32.835
14	93/73	गणेशगंज, इन्दौर	बद्रीप्रसाद शुक्ला जगदीश , मनोज पिता कन्हैयालाल, शुक्ला	30.855
15	92/72	गणेशगंज, इन्दौर	संजय, विजय, अजय पितागुरु दीक्षित	28.16
16	91/71	गणेशगंज, इन्दौर	निर्मला दीक्षित पति अपूर्ण पाण्डे	45.76
17	90/75	गणेशगंज, इन्दौर	मनोहर सराफ, अमित सराफ पिता श्री गोपाल सराफ	47.30
18	79/74	गणेशगंज, इन्दौर	प्रकाश नारायणपिता नथ्यू प्रकाश शुक्ला	42.24
19	87/73	गणेशगंज, इन्दौर	धीरजमल पिता बाबुलाल जैन	35.20

20	80/72,	गणेशगंज, इन्दौर	शेषनारायण त्रिवेदी महेश त्रिवेदी गणेश त्रिवेदी पिता सत्यनाराण त्रिवेदी	37.84
21	85/71	गणेशगंज, इन्दौर	सूरजबाई पति अशोक	44.88
22	83/71	गणेशगंज, इन्दौर	राकेश वर्मा पिता कन्हैयालाल मकान मालिक 101, संजय चौबे पिता नरेन्द्र चौबे 102, सोमेन डोसी 103, अरविन्द जैन 104, सुशील बानकी द्वितीय मंजिल दिनेश भावसार तृतीय मंजिल देवीलाल यादव हेमन्त पासोडी राखी वर्मा	102.66
23	82/62	गणेशगंज, इन्दौर	किशनलाल जोशी पिता श्री विजयराम जाशी	50.53
24	81/61	गणेशगंज, इन्दौर	सुखिया बाई पति शेष नारायण निर्मला देवी पति सत्यनाराण	37.125
25	80	गणेशगंज, इन्दौर	निर्मला पति मनोज	19.32
26	79/64	गणेशगंज, इन्दौर	चंचल पति रमेशचन्द्र	20.655
27	78/43	गणेशगंज, इन्दौर	कमलाबाई पति गुलाबचन्द्र	20.93
28	77	गणेशगंज, इन्दौर	राकेश पोरवाल पिता धीरज जी	21.87
29	76/61	गणेशगंज, इन्दौर	मीरा बाई जोशी पति मोहन लाल जी	34.83
30	75	गणेशगंज, इन्दौर	मांगीलाल जी पिता छोटे लाल जी	25.92
31	74/54	गणेशगंज, इन्दौर	शिवनारायण पिता श्यामनाराण	29.58
32	73	गणेशगंज, इन्दौर	बालकृष्ण काबला पिता विष्णु प्रसाद जी	33.93
33	72	गणेशगंज, इन्दौर	नानुराम पिता गिरधारीलाल	22.75
34	71/52	गणेशगंज, इन्दौर	प्रदीप वर्मा, पंवन वर्मा पिता हुकुमचन्द्र	37.625
35	70	गणेशगंज, इन्दौर	फकीरचन्द्र खाटवा पिता रामा	18.245

36	69	गणेशगंज, इन्दौर	मुकेश खाटवा पिता फकीरचन्द	18.9
37	68-56	गणेशगंज, इन्दौर	चेतन पिता किशनचन्द्र	30.6
38	67	गणेशगंज, इन्दौर	सुमन रामकृष्ण पति महेश जी	23.66
39	66	गणेशगंज, इन्दौर	कैलाश प्रजापत पिता श्यामलाल जी	36
40	64-65	गणेशगंज, इन्दौर	अमरनाथ पिता सत्यपाल घई	32.58
41	63/53	गणेशगंज, इन्दौर	मनीष पिता मुलचंद गोयल	22.04
42	62	गणेशगंज, इन्दौर	हरी भाई पिता लक्ष्मण आबासी	37.25
43	60/61,51/52	गणेशगंज, इन्दौर	अप्पू, गजेन्द्र पिता लक्ष्मण सिंह शेखावत	42
44	59-50	गणेशगंज, इन्दौर	प्यारेलाल पिता पन्नालाल परमार	54.67
45	58	गणेशगंज, इन्दौर	नानूराम गिरधारी पिता आत्माराम जी	17.94
46	57/44	गणेशगंज, इन्दौर	लक्ष्मीबाई पति बाबूसिंह पंवार	21.84
47	55	गणेशगंज, इन्दौर	सुरजसिंह राठोड मनोहरसिंह राठोड	55.2
48	54	गणेशगंज, इन्दौर	कलाबाई महेश्वरी पति दिनेश जी	17.25
49	53	गणेशगंज, इन्दौर	माणक सिंह जसपाल सिंह हरपाल सिंह पिता सुन्दर सिंह	55.44
50	51/52	गणेशगंज, इन्दौर	मनिष शर्मा पिता रामगोपाल जी शर्मा	59.76
51	50	गणेशगंज, इन्दौर	मुन्नीबाई पति किशनलाल शर्मा	27.88
52	49	गणेशगंज, इन्दौर	सुन्दरबाई पति सुभाशचन्द्र	96.05
53	49	गणेशगंज, इन्दौर	कृष्णाबाई पति श्यामसुन्दर	22.525
54	-	गणेशगंज, इन्दौर	माता जी का मंदिर	158.1
55	-	गणेशगंज, इन्दौर	क्लाथ मार्केट वेअर हाउस युनाईटेड कार्गो गोदाम	107.6

56	1	पंचकुईया अन्तिम चौराहा, इन्दौर	रामकन्या इनानी अशोक पिता सुरजमल	22.4
57	79	पंचकुईया अन्तिम चौराहा	विरेन्द्र कुमार पिता राजेन्द्र जी	3.2
58	2	पंचकुईया अन्तिम चौराहा, इन्दौर	राम निवास पिता केदार मल जी	22.4
59	47/5	महेश नगर इन्दौर	रामनिवास पिता केदारमल	52.44
60	47/5	महेश नगर इन्दौर	सुदर्शन अपार्टमेंट	171.99
61	46	महेश नगर इन्दौर	अग्रवाल महिला मण्डल	18.36
62	-	पंचकुईया अन्तिम चौराहा, इन्दौर	गुरुद्वारा पार्किंग खुली भूमी	13.86
64	5/6	गुलाब पार्क, इन्दौर	उमाकान्त शर्मा ओमप्रकाश शर्मा श्रीकांत शर्मा	151.38
65	5/6	गुलाब पार्क, इन्दौर	हुमर जैन समाज ट्रस्ट	282.72
66	3	गुलाबपार्क, इन्दौर	चौकसे जी पराग पापड	141.525
67	3	गुलाबपार्क, इन्दौर	सुरज मोहनलाल बोहरा	159.16
68	2	गुलाब पार्क गणेशगंज	अशोक कुमार पिता मनोज जी	52.2
69	2/1	गुलाब पार्क गणेशगंज	विजय लक्ष्मण इन्दर कलावत	19.32
70	1/6	राजमोहल्ला चौराहा	मनोज वाजपेयी पिता घनश्याम जी	18
71	201,	राजमोहल्ला चौराहा	राजेन्द्र जी पिता दुर्गा प्रसाद जी	2.7
72	201/1	राजमोहल्ला चौराहा	हिमाशु दुबे पिता श्याम जी	13.42
73	201/1	राजमोहल्ला चौराहा	श्री गणेश कचोरी कार्नर	8.85
उपरोक्त बड़ा गणपति से राजमोहल्ला जाने वाले मार्ग के बायी ओर का विवरण				

क्रं.	भूखण्ड क्रं.	क्षेत्र/मोहल्ला	सडक निर्माण में प्रभावित भूखण्डों एवं वयक्तियों का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	गणेशगंज, इन्दौर	सुभाषिनी मिश्रा पति गणेशचंद मिश्रा	30.4
2	3	गणेशगंज, इन्दौर	सुभाषिनी मिश्रा पति गणेशचन्द्र मिश्रा	34.5
3	4	गणेशगंज, इन्दौर	दुर्गा बाई पति तुलसीराम	22.56
4	4/2	गणेशगंज, इन्दौर	हीरालाल गुप्ता देवचंद गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता	25.23
5	5	गणेशगंज, इन्दौर	दुर्गा पति रामचन्द्र झा	55.29
6	6/1	गणेशगंज, इन्दौर	दुर्गादीन पिता बिहारीलाल	26.675
7	6/2	गणेशगंज, इन्दौर	छेदीलाल पिता बिहारीलाल	26.5375
8	7/1	गणेशगंज, इन्दौर	विजय शंकर शुक्ला	32.01
9	7/2	गणेशगंज, इन्दौर	नवीन जोशी पिता मणीशंकर जोशी	55.97
10	8	गणेशगंज, इन्दौर	गीता बाई पति राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	56.26
11	101	गणेशगंज, इन्दौर	जितेन्द्र जसवाल पिता किशन जायसवाल	48.87
12	10/1	गणेशगंज, इन्दौर	गोरी शंकर मिश्रा आरती मिश्रा	22.875
13	10/2	गणेशगंज, इन्दौर	विशाल सेन पिता सुरेन्द्र सेन	21.34
14	10/3	गणेशगंज, इन्दौर	सोहनलाल यादव पिता जगन्नाथ यादव	38.8
15	11	गणेशगंज, इन्दौर	नन्दीबाई पति भेरूलाल	66.93
16	12	गणेशगंज, इन्दौर	सतीष रावल किशन लक्ष्मण पिता गन्नु जायसवाल	45.105
17	6/1	तेलीबाखल इन्दौर	बलवतसिंह पिता मालक सिंह सलुजा	60.72
18	6/1/2	तेलीबाखल इन्दौर	मंजितसिंह पिता माणक सिंह सलुजा	60.72

19	6/2	तेलीबाखल इन्दौर	हरबंश सिंह पिता लाल सिंह सलुजा	147.84
20	13	गणेशगंज, इन्दौर	ज्योति पति रामलाल जी जोशी	39.6
21	14	गणेशगंज, इन्दौर	राकेश पोरवाल पिता शिवपोरवाल	33
22	15	गणेशगंज, इन्दौर	शिव वाजपेयी पिता बालमुकुन्द बाजपेयी	46.17
23	16/1	गणेशगंज, इन्दौर	राम नरेश तिवारी पिता रामअवतार	29.97
24	16/2	गणेशगंज, इन्दौर	किशनलाल जोशी	19.875
25	17	गणेशगंज, इन्दौर	रविशंकर मिश्रा पिता स्व. बाला प्रसाद मिश्रा	40.5
26	18/1	गणेशगंज, इन्दौर	हरीनारायण पिता बद्रीलाल अग्रवाल	14.045
27	18/2	गणेशगंज, इन्दौर	लोकेन्द्रसिंह चौहान पिता बाबूसिंह	22.63
28	19	गणेशगंज, इन्दौर	राकेश वर्मा पिता पन्नलाल	39.15
29	20	गणेशगंज, इन्दौर	सुरेन्द्र कुमार पिता अखिलेश कुमार पाण्डे	31.2
30	12/1	गणेशगंज, इन्दौर	सतीष कुमार पिता विमलचंद जैन	31.57
31	21/2	गणेशगंज, इन्दौर	बंसतीबाई पति बिमल चन्द	31.57
32	22	गणेशगंज, इन्दौर	श्राम आसरे पिता बैजनाथ	46.505
33	23	गणेशगंज, इन्दौर	नरेन्द्र कुमार देवेन्द्र कुमार तातेड	39.1
34	24	गणेशगंज, इन्दौर	सदाशिव पिता विष्णु अग्निहोत्री	30.615
35	25	गणेशगंज, इन्दौर	अमृतलाल पिता घासीराम कसेरा	36
36	26	गणेशगंज, इन्दौर	हेमन्त राठौड पिता स्व. राजाराम	21.045
37	27	गणेशगंज, इन्दौर	कैलाश पिता राजारामशिवनारायण पिता राजाराम	37.76
38	28	गणेशगंज, इन्दौर	सत्यनारायण दुबे पिता माणक जी	53.44

39	29	गणेशगंज, इन्दौर	लक्ष्मी शर्मा पति स्व. पुनम शर्मा	48.26 °
40	30	गणेशगंज, इन्दौर	दिनेश दीक्षित पिता गुरु	41.92
41	30	गणेशगंज, इन्दौर	सुमन सुरेशचंद्र जायसवाल	42.8625
42	31	गणेशगंज, इन्दौर	जानकी बाई पति राधेश्याम	42.8625
43	32	गणेशगंज, इन्दौर	लक्ष्मी यादव पति रामनारायण यादव शरद यादव पिता रमेशचन्द्र यादव	42.09
44	33	गणेशगंज, इन्दौर	मुरारी पालडीवाल पिता पूरणमण पालडीवाल	39.53
45	34 / 1	गणेशगंज, इन्दौर	शान्तिलाल अग्रवाल पिता घासीलाल अग्रवाल	36.6
46	34 / 2	गणेशगंज, इन्दौर	राजकुमार टुटेजा पिता ताराचन्द्र टुटेजा	41.61
48	4 / 6	नेक्स राज मोहलला इन्दौर	कान्यकुब्ज धर्मशाला	329.67
49	5 / 6	नेक्स राज मोहलला इन्दौर	कान्यकुब्ज भवन	86.3475
50	6 / 6	नेक्स राज मोहलला इन्दौर	कुलवंत सिंह पिता बलवंत सिंह	161.955
51	6 / 6	नेक्स राज मोहलला इन्दौर	कुलदीप सिंह पिता बलवंत सिंह	80.9775
52	6 / 6	नेक्स राज मोहलला इन्दौर	हरमितसिंह पिता हरजीत सिंह छाबडा	80.9775
53	7 / 6 / 1	नेक्स राज मोहलला	हुकुमचंद स्वर्गीय रामनिवास गोयल	40.5
54	7 / 6 / 3	नेक्स राज मोहलला इन्दौर	हरबंशसिंह पिता लालसिंह	40.5
55	7 / 6 / 4	नेक्स राज मोहलला इन्दौर	राजू पिता बंशीलाल अग्रवाल	40.05
56	7 / 8	नेक्स राज मोहलला इन्दौर	महेश अग्रवाल पिता मोहन लाल अग्रवाल	114.4

57	9/6	नेक्स राज मोहलला इन्दौर	तरविंदर सिंह किर्तनसिंह प्रिस खनुजा	81.84
58	9/6	नेक्स राज मोहल्ला इन्दौर	भारत भुषण	82.77
59	10/6	नेक्स राज मोहलला इन्दौर	परमानन्द तलवार पिता राफेल तलवार	82.058
60	11/6	नेक्स राज मोहलला इन्दौर	इन्दर सहगल बलवंत सहगल	80.04
61	12/6	नेक्स राज मोहलला इन्दौर	डॉ डीणआर मेहता पिता आर बी मेहता	80.96
62	12/6	नेक्स राज मोहलला इन्दौर	धीरज पुरोहित पिता रामनाथ	76.11
63	13/6	नेक्स राज मोहलला इन्दौर	विजय कुमार पिता रमेश	36.3
योग :- 6849.19				वर्ग मीटर

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण पत्र जारी करेगा।

इटारसी विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इटारसी विकास योजना, 2031 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, म.प्र.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, इटारसी म.प्र.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नर्मदापुरम, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरण का विवरण :-

इटारसी विकास योजना, 2031 के अध्याय -4 की कंडिका 4.2 (क्षेत्राधिकार) के बिन्दु क्रमांक 11 के पश्चात निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक 12 अंतः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

12. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे, उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही मान्य होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, नर्मदापुरम को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 813-जि.भू.अ.-2024

सिवनी, दिनांक 1 फरवरी 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

अनुसूची

- 1- परियोजना का नाम :- पंच व्यपवर्तन परियोजना
 2- ग्राम का नाम :- सागर ब.नं.-693 प.ह.नं.-53
 3- रा.नि.मं. :- छपारा तहसील:- छपारा जिला:-सिवनी
 4- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 4.90 हेक्टेयर

सं.क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वास्थ्य का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्ट.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएँ				वृक्ष		संरचनाएँ	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	विलंब परिया
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	212	भूमिस्वामी	कृषि	0.28	रेवाराम रघुवीर पिता केशरी जाति मेहरा पता सागर छपारा सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शासकीय	सरहद	खेमू पिता अमरु	शासकीय	-	-	-	-
2	210	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	लीलाबाई बेवा सोमू सोहनलाल मोहनलाल मोहनिया बाई सोहनिया बाई रोमती बाई पिता सोमू जाति बोनिया पता सागर छपारा सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खेमू पिता अमरु	सरहद	खेमू पिता अमरु	रेवाराम रघुवीर पिता केशरी	-	-	-	-
3	207	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	खेमू पिता अमरु, जाति बोनिया पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	सरहद	लीला बाई बेवा सोमू	लीला बाई बेवा सोमू	श्रवाराम रघुवीर पिता केशरी	-	-	-	-
4	205	भूमिस्वामी	कृषि	0.39	आरिफमोहम्मद पिता फिरदोस जाति मुसलमान पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	फिरोज मो. पिता दमी मो.	शासकीय	फिरोज मो. पिता दमी मो.	फिरोज मो. पिता दमी मो.	-	-	-	-

5	196	भूमिस्वामी	कृषि	0.60	फिरोजमोहम्मद पिता दमीमोहम्मद जाति मुसलमान पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	स्वयं की भूमि	शासकीय	आरिफमो पि. फिरोजमो	शासकीय	-	-	-	-
	197/1			0.04		नसरत मो.	फिरोजमो. पि. दमीमो.	फिरोजमो. पि. दमी मो.	फिरोजमो. पि. दमी मो.	फिरोजमो. पि. दमी मो.	-	-	-
6	197/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	हकीममोहम्मद युसुफमोहम्मद नसरतमोहम्मद इसरतमोहम्मद तरुनुमबी फैजियाबी पिता फरहतमोहम्मद जाति मुसलमान पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	फिरोजमो. पिता दमीमो.	आरिफमो पिता फिरोजमो	फिरोजमो. पिता दमी मो.	फिरोजमो. पिता दमी मो.	-	-	-	-
7	197/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	अफरोजमोहम्मद पिता दमीमोहम्मद जाति मुसलमान पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	परवेज मो. पि. अफरोज मो	परवेज मो. पि. अफरोज मो.	स्वयं की भूमि	स्वयं की भूमि	-	-	-	-
	198			0.13		शासकीय	फिरोजमो. पि. दमी मो.	हकीममो. पि. फरहतमो.	शासकीय	-	-	-	-
8	68	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	सिरमू श्रीराम काशीराम सावित्री समकी सकल झिकिया पिता सेवकराम जाति मरार पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	हकीममो. पि. फरहतमो	शासकीय	हकीममो. पि. फरहतमो.	कमला पि. जगदीश	-	-	-	-
9	67	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	हकीममोहम्मद पिता फरहतमोहम्मद जाति मुसलमान पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	स्वयं की भूमि	शासकीय	युसुफ मो. फरहत मो.	सकल पि. सेवकराम	-	-	-	-
	72/2			0.01		पोहपसिंह पि. लेखराम	हेमन पि. हिरदे	स्वयं की भूमि	शासकीय	-	-	-	-
	66/1			0.22		पोहपसिंह पि. लेखराम	स्वयं की भूमि	युसुफ मो. फरहत मो.	हेमन पि. हिरदे	-	-	-	-
10	69	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	जगत शिवकुमारी छोटीबाई पिता धाधू मंगलिया पत्नी जगदीश कमला कमलेश पिता जगदीश नीरज पिता महेश जाति मरार पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	लेखराम पि. गंगाराम	शासकीय	सकल पि. सेवकराम	जवाहरलाल पि. बखरु	-	-	-	-
	82			0.08		डिमरु वरु सुदुलाल	सिमरु पि. सेवक	चैती पि. महेश	शासकीय	-	-	-	-
11	71	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	लेखराम पिता गंगाराम जति महरा पता सा.देह भूमिस्वामी	हेमन पि. हिरदे	तीरथ	हकीममो. पि. फरहतमो.	शासकीय	-	-	-	-

12	72/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	हेमन पिता हिरदे जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	पि. हकीममो. फरहट मो.	लेखराम पि. गंगाराम	पि. हकीममो. फरहतमो.	शासकीय	-	-	-	-
13	73/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	पोहप सिंह पिता लेखराम जाति मेहरा पता सा. देह भूमिस्वामी	लक्ष्मीप्रसाद पि. लेखराम	हकीममो. पि. फरहट मो.	हिरासिंह पि. झाड़ू	शासकीय	-	-	-	-
14	116	भूमिस्वामी	कृषि	0.28	हिमायतमो. सफीकमोहम्मद इमदादमोहम्मद रफीकमोहम्मद पिता हबीबउल्ला जाति मुसलमान पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	पि. असीफमो. रफीकमो.	शासकीय	शासकीय	शासकीय	-	-	-	-
15	115	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	साकराबी पत्नी रफीक रकीबमोहम्मद असीफमोहम्मद आतिश साहीनबी हसीनाबी इमरानाबी रिजवानाबी पिता रफीक जाति मुसलमान पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	हिमायत मो. पि. हवीउल्ला खाँ	पि. सफीकमो. हवीउल्लाखाँ	शासकीय	शासकीय	-	-	-	-
16	114	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	हिमायतमो. पिता हवीउल्लाखाँ जाति मुसलमान पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	पि. सफीकमो. हवीउल्लाखाँ	पि. असीफमो. रफीकमो.	शासकीय	आशवती पि. बलीराम	-	-	-	-
17	110	भूमिस्वामी	कृषि	0.31	चुन्नी सम्पत कलमवती पिता रोधू जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	करतारसिंह पि. गम्भीरा	शासकीय	राजवती पि. बलीराम	लेखराम पि. गंगाराम	-	-	-	-
18	109	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	लेखराम पिता गंगाराम जाति मेहरा पता सा.देह भूमिस्वामी	पि. गोमतीबाई लेखराम	शासकीय	करतारसिंह पि. गम्भीरा	पि. काशीराम किशनलाल	-	-	-	-
19	108	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	काशीराम कुसुमबाई, सुमंत्राबाई कमला साविता पिता किशनलाल राजकुमारी प्रियंका पिता जगदीश जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	पि. मखनसी कुवर	शासकीय	पि. लेखराम गंगाराम	सरहद	-	-	-	-
	121			0.29		शासकीय	शासकीय	शासकीय	शासकीय	-	-	-	-
20	73/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	लक्ष्मीप्रसाद पिता लेखराम जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	पि. हेमन हिरदे	पोहपसिंह पि.लेखराम	हिरासिंह पि. झाड़ू	शासकीय	-	-	-	-
21	77	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	हेमन पिता हिरदे जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	पीरा पि.हेमन	लक्ष्मीप्रसाद पि. लेखराम	हिरासिंह पि. झाड़ू	शासकीय	-	-	-	-

22	78	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	मीरा पत्नी हेमन जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	लीलावती पि. हिरदे	हेमन पि. हिरदे	भुवन पि. डुकाली	शासकीय	-	-	-	-
23	79	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	लीलावती पत्नी हिरदे जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	श्रीराम पि. सेवक	मीरा पि. हेमन	भुवन पि. डुकाली	शासकीय	-	-	-	-
24	80	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	श्रीराम पिता सेवक जाति मरार पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शिवकुमारी पि. धाबू	लीलावती पि. हिरदे	सिमर पि. सेवक	शासकीय	-	-	-	-
25	83/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	पिरमू पिता परसादी जाति मरार पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	बती मस्जिद कमेटी छपारा	शिवकुमारी	चैती पि. महेश	शासकीय	-	-	-	-
26	83/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	ठाकुरराम नीलम श्रीचंद टिकू शिवप्रसाद जानकी प्रकाश ममता पिता तीर्थ जाति मरार पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	बली मस्जिद कमेटी छपारा	शिवकुमारी	चैती पि. महेश	शासकीय	-	-	-	-
27	83/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	चंदन पिता परसादी जाति मरार पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	मस्जिद कमेटी	शिवकुमारी	चैती पि. महेश	शासकीय	-	-	-	-
28	84/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	राजेन्द्रकुमार चौकसे पिता महेन्द्रकुमार चौकसे जाति कलार पता संजय कालीनी छपारा सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	असीफमो. पि. हुसैन सरदार	बली मस्जिद कमेटी छपारा	अमरीश पि. नरेश	शासकीय	-	-	-	-
29	84/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	बडी मस्जिद कमेटी छपारा मुतवल्ली अ0सत्तार खों पिता मुनीर खों पता सिवनी मध्यप्रदेश निजी संस्था	आकाश पि. नरेश मार्गद	पिरमू पि. परसादी	अमरीश पि. नरेश	शासकीय	-	-	-	-
30	84/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	आसिफमो. पिता हुसैनसरदार जाति मुसलमान पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	अजीजमो. हुसैन सरदार	आकाश पि. नरेश मार्गद	सरहद	शासकीय	-	-	-	-
31	84/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	अजीजमोहम्मद पिता हुसैनसरदार जाति मुसलमान पता जबलपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	रामजी पि. सोहन	आसिफमो. पि. हुसैन	सरहद	शासकीय	-	-	-	-
32	85	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	लखन यादव माखन यादव मिश्री यादव रंगा गोदावरी पिता रामजी लक्ष्मी यादव बेवा रामजी भग्गो पुत्री सोहन जाति अहीर पता छपारा सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	सरहद	अजीजमो. हुसैन सरदार	सरहद	शासकीय	-	-	-	-
33	111 112	भूमिस्वामी	कृषि	0.18	सुहागकली मनीराम पिता परसराम रतनिया पत्नि परसराम भग्गो पत्नी बलीराम फूलकुमारी राजबती आसबती आशासाम राजाराम पिता बलीराम जाति गोंड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	अफरोज बेगम पत्नि स्व. नवाज खा	शासकीय	सफीकमो. खां हबीउल्लाखां	चुन्नी पि. रोषू	-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादीन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पैच ब्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्र. 274-भू-अर्जन-24 प्र.क्र.-11-अ-82-2023-24

रतलाम, दिनांक 24 जनवरी 2024

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि कय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग सैलाना के मकोडियारूण्डी तालाब निर्माण योजना" अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील सैलाना के प.ह.नं. 25 के ग्राम कोटड़ा के 08 खाताधारको की वन पट्टे की भूमि समरपण एवं परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/ सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	वन अधिकार पत्र क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1	हकरू पिता अमरा	171705492/ 171705492001	0.115	—	0.115	—
2	दिनेश पिता दल्लाजी	171709179/ 171709179001	—	0.818	0.818	—
3	दशरथ पिता शांतिलाल	171705491/ 171705491001	0.006	—	0.006	—
4	थावरा पिता अमरा	171705310/ 171705310001	0.158	—	0.158	—
5	काना पिता बाबू	171701962/ 171701962001	—	0.192	0.192	—
6	मान्या पिता बाबू	171709983/ 171709983001	—	0.021	0.021	—
7	मांगू पिता भेरा	171705312/ 171705312001	—	0.162	0.162	—
8	कोमलराम पिता जीवा	171701967/ 171701967001	—	0.382	0.382	—
				योग	1.854	—

भास्कर लाक्षाकार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 25-भू-अर्जन-24

देवास, दिनांक 2 फरवरी 2024

[अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" के अंतर्गत ग्राम राजोदा तहसील देवास नगर जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम राजोदा तहसील- देवास(नगर)

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	"नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए)	0.004484	-	0.004484

अनुसूची-2

"नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम राजोदा तहसील- देवास (नगर) जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- राजोदा तहसील- देवास(नगर)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विष्णु, मांगीबाई, सुमनबाई पिता छीता, मदनलाल, लीलाधर पिता रामरतन, हजारीलाल, लखनसिंह, शांताबाई, पिकाबाई पिता अम्बाराम, सोदराबाई विधवा अम्बाराम, जाति खाती	775	1.220	--	1.220	0.00332	--	0.003332
2	धर्मेन्द्रसिंह पिता हरकसिंह जाति ठाकुर	814	0.530	--	0.530	0.000576	--	0.000576
3	सजनबाई पति बौदा, शारदाबाई पति देवकरण जाति खाती	326	0.070	--	0.070	0.000576	--	0.000576

क्र. 28-भू-अर्जन-24

[अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013)]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" के अंतर्गत ग्राम बैरागढ तहसील देवास जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम बैरागढ तहसील- देवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	"नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए)	0.000361	-	0.000361

अनुसूची-2

"नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम बैरागढ तहसील- देवास जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- बैरागढ तहसील- देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजकुंवर पति गोकुलसिंह जाति राजपूत	586	0.1900	--	0.1900	0.000361	--	0.000361
प्रभावित कुल क्षेत्रफल								0.000361

क्र. 31-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" के अंतर्गत ग्राम बिलावली तहसील देवास नगर जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- बिलावली तहसील- देवास(नगर)

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	"नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए)	0.004484	-	0.004484

अनुसूची-2

"नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम बिलावली तहसील- देवास(नगर) जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- बिलावली तहसील- देवास(नगर)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	देउबाई बेवा नारायणसिंह, कपिल, भीम नाबालिग पिता नारायणसिंह, संरक्षक देउबाई जाति धाकड़ पता बिलावली	214/4/2	3.8930	--	3.8930	0.03332	--	0.003332
2.	कृष्णाबाई पति मदनसिंह सोलंकी की पुत्री गोकुलसिंह पता 10 अलकापुरी देवास	75/3	1.011	--	1.011	0.000576	--	0.000576
3.	लक्ष्मीबाई पति सरदारसिंह जाति राजपूत	60	0.34	--	0.34	0.000576	--	0.000576

क्र. 34-भू-अर्जन-24

[अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013)]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" के अंतर्गत ग्राम चिडावद तहसील टोकखुर्द जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- चिडावद तहसील टोकखुर्द

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	"नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए)	0.000576	-	0.000576

अनुसूची-2

"नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम चिडावद तहसील टोकखुर्द जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- चिडावद तहसील टोकखुर्द

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. राधेश्याम पिता रामचंद्र खाती 2. लक्ष्मीनारायण पिता सांवत खाती	1406	0.26	--	0.26	0.000576	--	0.000576
प्रभावित कुल क्षेत्रफल								0.000576

क्र. 37-भू-अर्जन-24

[अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" के अंतर्गत ग्राम बिंजाना तहसील देवास नगर जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- बिंजाना तहसील- देवास(नगर)

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	"नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए)	0.002008	-	0.002008

अनुसूची-2

"नर्मदा क्षिप्रा बहुददेशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम बिंजाना तहसील- देवास (नगर) जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- बिंजाना तहसील- देवास(नगर)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शंकर पिता अब्जु जाति बलाई	247/2/1	0.1180	--	0.1180	0.001647	--	0.001647
2	हेमन्त, राकेश, रोशन, हेमाबाई, पिता बाबूलाल उर्फ राधेश्याम जाति महाजन	95	0.8330	--	0.8330	0.000361	--	0.000361
कुल प्रभावित रकबा								0.002008

क्र. 40-भू-अर्जन-24

[अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "नर्मदा क्षिप्रा बहुद्देशीय परियोजना" के अंतर्गत ग्राम बरखेडा तहसील टोकखुर्द जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "नर्मदा क्षिप्रा बहुद्देशीय परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- बरखेडा तहसील टोकखुर्द

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	"नर्मदा क्षिप्रा बहुद्देशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए)	0.000576	-	0.000576

अनुसूची-2

"नर्मदा क्षिप्रा बहुद्देशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम बरखेडा तहसील टोकखुर्द जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- बरखेडा तहसील टोकखुर्द

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लक्ष्मीचंद्र पिता मोंगीलाल खाती आदि।	461/1/1	0.54	--	0.54	0.000576	--	0.000576
प्रभावित कुल क्षेत्रफल								0.000576

क्र. 43-भू-अर्जन-24

[अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "नर्मदा क्षिप्रा बहुद्देशीय परियोजना" के अंतर्गत ग्राम रन्धनखेडी तहसील टोकखुर्द जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "नर्मदा क्षिप्रा बहुद्देशीय परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- रन्धनखेडी तहसील टोकखुर्द

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	"नर्मदा क्षिप्रा बहुद्देशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए)	0.003332	-	0.003332

अनुसूची-2

"नर्मदा क्षिप्रा बहुद्देशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम रन्धनखेडी तहसील टोकखुर्द जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- रन्धनखेडी तहसील टोकखुर्द

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ओमप्रकाश पिता चंद्ररसिंह खाती	1471	2.29	--	2.29	0.003332	--	0.003332
प्रभावित कुल क्षेत्रफल								0.003332

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 444-रीअविअगो-भू-अर्जन-24

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1, कॉलम के (1) से (4) में अंकित भूमि की अनुसूची के कॉलम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2023-24 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में नाला का निर्माण नजूल वृत्त गोविंदपुरा तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम हिनोतिया काछियान के लिए आवश्यक भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
भोपाल	हुजूर	हिनोतिया काछियान	0.0817	आयुक्त, नगर निगम भोपाल	नाला निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	लोकमन, नारायण सिंह, दुर्गा बाई, सूरज बाई पुत्र/पुत्री शिवचरण नि. ग्राम भूमि स्वामी	58/1/1	0.0169	0.0169
2	लोकमन, नारायण सिंह, दुर्गा बाई, सूरज बाई पुत्र/पुत्री शिवचरण नि. ग्राम भूमि स्वामी	59/1/1/1/1/1	0.0648	0.0648
योग		2 कित्ता	0.0817	0.0817

चूँकि नाला निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों के भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, नजूल वृत्त गोविंदपुरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन के तारीख से 21 दिवस की समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भू-अर्जन-प्र.क्र. 0003-अ-82-2022-23

जबलपुर, दिनांक 9 फरवरी 2024

आपसी सहमति से भूमि कय नीति की सार्वजनिक सूचना

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसरो संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (7) वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (5) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना क एफ-12-2-2014- सात-2-1 दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 14.11.2014 की कंडिका 11(1) के अनुसार 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहरताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है, इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है कि ऐसी भूमि धारक (1) अशोक, कमल, दुर्गा सभी के पिता स्व. एन सिंह पटैल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर (2) रमेश पटैल पिता घसीटे सिंह पटैल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर (3) श्रीमति भागवती पटैल पति स्व. विजय सिंह पटैल योगेश, अंजु, ओमप्रभा पटैल, अर्चना पटैल सभी के पिता स्व. विजय सिंह पटैल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर (4) शिवचरण पटैल पिता स्व घसीटे सिंह पटैल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर के भूस्वामित्व भूमि जबलपुर शहर में दमोहनाका से अंतर्गत भूमि का कय "मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा कलेक्टर " के नाम से संबंधित विभाग, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.-2 जबलपुर के द्वारा कय किया जाना है। यदि किराी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि में उचित दस्तावेजों सहित अधोहरताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.-2 जबलपुर, द्वारा जबलपुर शहर में दमोहनाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण किये जाने भू-अर्जन हेतु ग्राम रानीपुर तहसील अधारताल जिला जबलपुर के अंतर्गत की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है।

अनुसूची

// आपसी सहमति से कय को जाने वाली भूमि का विवरण //

ग्राम-रानीपुर, प.ह.नं.- रानीपुर 05 रा.नि.मं.-लक्ष्मीपुर
तहसील- अधारताल, जिला-जबलपुर,

(क्षेत्रफल- 237.00वर्गमीटर (0.0237हेक्टर))

क.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा वर्ग मी.	अन्य संपत्ति	भौतिक संरचना
1	2	3	4	5	6	7
01	अशोक, कमल, दुर्गा सभी के पिता स्व. एन सिंह पटैल	1) 21/1/4	270.00व.मी.	32.00 वर्ग मी.	-	-
02	रमेश पटैल पिता घसीटे सिंह पटैल	(2) 21/1/2	300.00व.मी.	41.00 वर्ग मी.	-	-
03	श्रीमति भागवती पटैल पति स्व. विजय सिंह पटैल, योगेश, अंजु, ओमप्रभा पटैल, अर्चना पटैल सभी के पिता स्व. विजय सिंह पटैल	(3) 21/1/1	300.00व.मी.	47.00 वर्ग मी.	-	टीन शेड
04	शिवचरण पटैल पिता स्व. घसीटे सिंह पटैल	(4) 21/1/3	220.00व.मी.	117.00वर्ग मी.	-	टीन शेड
	कुल 4	कुल 4 खसरे	1090.00व.मी.	237.00 वर्ग मी.	-	-

- (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है।
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (हाट बाजार विजय नगर) तहसील-अधारताल, जिला-जबलपुर के कार्यालय में एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र. -02 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 284-B-121-23-24

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्ड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम खोकरीया की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृशकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
भोपाल	हुजूर	खोकरीया	4.781	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम भोपाल	पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्ड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

ग्राम:- खोकरीया तहसील - हुजूर जिला:-भोपाल					
क	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हैं. मे	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	अर्जुनसिंह पिता गंगाप्रसाद जाति खाती पता सा देह भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	295/1	0.810	0.667	सिंचित
2	राजेन्द्र कुमार पिता गंगाप्रसाद जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	295/2	0.810	0.078	सिंचित
3	राजेन्द्र कुमार पिता गंगाप्रसाद जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	273/1	0.810	0.276	सिंचित
4	प्रभूलाल पिता खुशीलाल पता सा बोरखेडी भोपाल	297	0.320	0.057	सिंचित

5	मांगीलाल पिता मिश्रीलाल 1/3, कृष्णाबाई पिता मिश्रीलाल 1/3, लीलाबाई पिता मिश्रीलाल 1/3, पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	218	1.140	0.391	सिंचित
6	अनारसिंह पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	219/1	0.370	0.302	सिंचित
7	रामस्वरुप पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल	219/2	0.380	0.192	सिंचित
8	जगदीश प्रसाद पिता केवल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	219/3	0.340	0.073	सिंचित
9	महेन्द्रकुमार पिता लखनलाल 1/3, रीनाबाई पिता लखनलाल 1/3, मनोज पिता लखनलाल 1/3 जाति खाती पता निवासी ग्राम हुजूर भोपाल	219/4	0.370	0.004	सिंचित
10	सज्जनसिंह पिता ज्ञानसिंह जाति खाती पता खोकरिया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	277/1	0.310	0.007	सिंचित
11	सज्जनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	277/2	0.390	0.093	सिंचित
12	प्रहलाद पिता चुन्नीलाल, कुवरबाई पत्नी प्रहलाद अहस्तांतरणीय शासन द्वारा पटटे पर प्रदत्त पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	264/2	0.900	0.131	सिंचित
13	सज्जनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	276/1	0.610	0.324	सिंचित
14	वद्रीप्रसाद पुत्र ज्ञानसिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	276/2	0.540	0.423	सिंचित
15	द्वारका प्रसाद पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	291/3	0.280	0.015	सिंचित
16	गंगाप्रसाद पिता भवरलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	294	0.930	0.188	सिंचित
17	मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती पता सा देह खोकरिया हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	221/1	0.704	0.294	सिंचित
18	मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती पता सा देह खोकरिया हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	221/2	0.047		औद्योगिक एवं खनन
19	अनारसिंह पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	220/1	0.230	0.016	सिंचित
20	रामस्वरुप पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	220/2	0.240	0.091	सिंचित
21	जगदीश प्रसाद पिता केवल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	220/3	0.290	0.167	सिंचित

22	महेन्द्रकुमार पिता लखनलाल 1/3, रीनाबाई पिता लखनलाल 1/3, मनोज पिता लखनलाल 1/3 जाति खाती पता निवासी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	220/4	0.420	0.308	सिंचित	
23	मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती पता सा देह खोकरिया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	222/1	0.344	0.048	सिंचित	
24	मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती पता सा देह खोकरिया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	222/2	0.046		औद्योगिक एवं खनन	
25	द्वारका प्रसाद पिता ज्ञानसिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	296/1	0.310	0.284	सिंचित	
26	द्वारका प्रसाद पिता ज्ञानसिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	296/2	0.720	0.346	सिंचित	
27	मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती पता सा देह खोकरिया हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	309/216	0.170	0.006	सिंचित	
				योग	4.781	

चूँकि पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 285-B-121-23-24

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम बोरखेड़ी की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृशकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
भोपाल	हुजूर	बोरखेड़ी	6.477	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल	पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

ग्राम:- बोरखेड़ी तहसील - हुजूर जिला:-भोपाल					
क.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हैं. में	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	प्रेम सिंह पिता बाफूलाल जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	125/1, 145/125	0.613	0.860	सिंचित
2	किशनलाल पिता बापूलाल जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	125/2, 145/125	0.619		सिंचित
3	दिलीप सिंह पिता बाफूलाल जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	125/3, 145/125	0.619		सिंचित
4	रमेश पुत्र सवाई सिंह, भागवतीबाई, रामचन्द्रबाई, जानकीबाई, मुलियाबाई, प्रागबाई पुत्री सवाई सिंह पता बोरखेड़ी हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	113/2	0.607	0.401	सिंचित

5	अर्जुन सिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत पता बोरखेड़ी निवासी ग्राम हुजूर भोपाल	122/1	0.729	0.008	सिंचित
6	अवधनारायण पिता खुशीलाल जाति गेहलोत पता बोरखेड़ी निवासी ग्राम हुजूर भोपाल	122/2	0.728		सिंचित
7	शुभम पिता मनोहर, रविकुमार पिता मनोहर, धनकुवरबाई वेवा मनोहर जाति गेहलोत पता बोरखेड़ी निवासी ग्राम हुजूर भोपाल	122/3	0.728		सिंचित
8	रमेश पिता रामप्रसाद जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल	131/1	0.311	0.245	सिंचित
9	ज्ञानसिंह पुत्र शिवचरण, प्रेमसिंह पुत्र शिवचरण, सुनेरसिंह पुत्र शिवचरण, पन्नालाल पुत्र शिवचरण, विधाबाई वेवा मोरसिंह, मंजूबाई पुत्री मोरसिंह, गेदाबाई वेवा जगदीश, रजेश पुत्र जगदीश, किरनबाई पुत्री जगदीश जाति गेहलोत पता बोरखेड़ी हुजूर भोपाल	131/2	0.311	0.079	सिंचित
10	प्रभूलाल पिता खुशीलाल जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल	131/3	0.311	0.001	सिंचित
11	धीसीलाल पुत्र लक्ष्मण सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	126/2	1.944	0.079	सिंचित
12	रमेश पिता रामप्रसाद जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल	109/1	0.409	0.059	सिंचित
13	ज्ञानसिंह पुत्र शिवचरण, प्रेमसिंह पुत्र शिवचरण, सुनेरसिंह पुत्र शिवचरण, पन्नालाल पुत्र शिवचरण, विधाबाई वेवा मोरसिंह, मंजूबाई पुत्री मोरसिंह, गेदाबाई वेवा जगदीश, रजेश पुत्र जगदीश, किरनबाई पुत्री जगदीश जाति गेहलोत पता बोरखेड़ी हुजूर भोपाल	109/2	0.409	0.054	सिंचित
14	प्रभूलाल पिता खुशीलाल जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश	109/3	0.405	0.086	सिंचित
15	सीमा बाई पत्नी अर्जुन सिंहजाति मेवाड़ा पता निवासी ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश	109/4	0.709	0.115	सिंचित
16	मोरसिंह पुत्र हेमराज, बनेसिंह पुत्र हेमराज, दशरथ मेवाड़ा पुत्र हेमराज, मुल्लीबाई पुत्री हेमराज, बतुनबाई पुत्री हेमराज जाति गेहलोत पता बोरखेड़ी हुजूर भोपाल	111/1/1, 112	1.103	0.167	सिंचित
17	भादरसिंह पिता स्वरूपसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश	111/1/2,112	1.102	0.121	सिंचित
18	कुमेरसिंह पिता रामरतन, विजयसिंह पिता रामरतन, अजबसिंह पिता रामरतन, सोरमबाई पिता रामरतन, लीलाबाई पिता रामरतन पता निवासी ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल	111/1/3,112	1.102	0.102	सिंचित

19	दामोदर सचिन मेवाडा पिता हरीचरण पता बोरखेड़ी हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश	110/1	0.356	0.245	सिंचित
20	प्रभूलाल पुत्र खुशीलाल, रमेश पुत्र राम प्रसाद, अर्जुनसिंह पुत्र हजारीलाल, फूलकुवरवाई पुत्री हजारीलाल, सौरभवाई पुत्री हजारीलाल, धापूवाई पुत्री हजारीलाल, विधावाई पुत्री हजारीलाल, ज्ञानसिंह पुत्र शिवचरण, प्रेमसिंह पुत्र शिवचरण, सुनेरसिंह पुत्र शिवचरण, पन्नालाल पुत्र शिवचरण, विधावाई बेवा मोर सिंह, मंजूवाई पुत्री मोरसिंह, गोदावाई वेवा जगदीश, राजेश पुत्र जगदीश, किरन पुत्री जगदीश जाति गेहलोत पता बोरखेड़ी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश	110/2	0.713	0.508	सिंचित
21	नारायण सिंह पुत्र नरसिंह, कोमलबाई पुत्री राजमल, सगुनबाई पुत्री राजमल, इमरतबाई पुत्री नरसिंह, केशरबाई पुत्री नरसिंह, विन्दाबाई पुत्री राजमल, मीराबाई पुत्री राजमल, इमरतबाई पत्नी स्व. हरीचरण माया उमा पुत्रिया हरीचरण जाति गेहलोत पता हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	110/3	0.356	0.275	सिंचित
22	लख्मीचंद पिता बापू जाति गेहलोत पता नि ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	99/1/1	2.358	2.689	सिंचित
23	केलाश पिता बापू जाति गेहलोत पता नि ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	99/1/2	2.520		सिंचित
24	लख्मीचंद पिता बापू जाति गेहलोत पता नि ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	99/1/3	0.162		सिंचित
25	ताराचन्द, अमरसिंह, नाथूराम, भैरोसिंह पुत्र राजमल श्रीमती कस्तूरीबाई वेवा राजमल, मोतीलाल आ रामलाल, प्रकाश, सुरेश, मानसिंह ना बा महेश पुत्रगण इमरतसिंह, नर्बदीबाई वेवा इमरतसिंह, गुलाब सिंह, गोविन्द सिंह, सीमा बाई, गुड्डीबाई ना बा पिता जुझारसिंह, अजुध्याबाई वेवा जुझारसिंह जाति गेहलोत पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	99/1/4	0.682		सिंचित
26	दिनेश पिता अनारसिंह जाति गहलोत पता नि ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	99/2/1, 102	1.195		सिंचित
27	बिन्देश उर्फ बृजेश पिता अनारसिंह जाति गहलोत पता नि ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	99/2/2, 102	1.195		सिंचित
28	दिनेश पिता अनारसिंह जाति गहलोत पता नि ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	99/3/1, 102	0.162		सिंचित
29	बिन्देश उर्फ बृजेश पिता अनारसिंह जाति गहलोत पता नि ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल	99/3/2, 102	0.162		सिंचित

30	धनसिंह, जमनाप्रसाद पिता हीरालाल जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मध्य प्रदेश	116/7	0.274	0.146	सिंचित
31	रामभरोसे पिता गोपीलाल जाति गेहलोत पता बोरखेड़ी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	116/8	0.274	0.234	सिंचित
32	घनश्याम, सूरज सिंह पिता फूल सिंह जाति मेवाड़ा पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/2,31	0.165	0.003	सिंचित
			योग	6.477	

चूँकि पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 287-B-121-23-24

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम रसुलिया घाट की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृशकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
भोपाल	हुजूर	रसुलिया घाट	4.25 8	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम भोपाल	पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

ग्राम:- रसुलिया घाट तहसील - हुजूर जिला:-भोपाल					
क	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हैं. मे	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	श्यामलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/2	1.090	0.005	सिंचित
2	कैलाश पुत्र पन्नालाल जाति गेहलोत पता हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	71	0.420	0.258	सिंचित
3	हीरालाल पुत्र पन्नालाल जाति गेहलोत पता हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	75	0.340	0.289	सिंचित
4	देवकुंवरबाई पत्नी बन्ने सिंह जाति गेहलोत पता सादेह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	76/1	0.400	0.154	सिंचित

5	दिनेश श्रीवास्तव एच यू एफ पुत्र के एन श्रीवास्तव पता नि 101 वासईराय पार्क ई 8 एकसटेशन गुलमोहर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	76/2	0.490	0.005	सिंचित
6	कैलाश पुत्र पन्नालाल जाति गेहलोत पता हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	72/1	0.450	0.277	सिंचित
7	प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 हि. संतोषबाई पुत्र पुत्र अमर सिंह जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 हि.	103/1	0.030	0.178	सिंचित
8	निविता पुत्री ओमप्रकाश, तमन्ना पुत्री ओमप्रकाश, अनुराधा पुत्री ओमप्रकाश, रितु ना.बा. पुत्री ओमप्रकाश, कविताबाई पुत्री ओमप्रकाश, पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	103/2	0.420		सिंचित
9	कृष्णाबाई पुत्री अमर सिंह, रामप्यारीबाई पुत्री अमर सिंह, विन्दाबाई पुत्री अमर सिंह, राधाबाई पुत्री अमर सिंह, कान्ताबाई पुत्री अमर सिंह, संतोषबाई पुत्री अमर सिंह, विधाबाई पुत्री अमर सिंह, संगीताबाई पुत्री अमर सिंह जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	104	0.140	0.081	सिंचित
10	प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह 1/2 संतोषबाई पुत्र अमर सिंह 1/2 जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	100	0.330	0.287	सिंचित
11	शिवचरण पुत्र फतेह सिंह, होतमसिंह पुत्र फतेह सिंह, पुस्ताबाई पुत्री फतेह सिंह, पुस्ताबाई पुत्री फतेह सिंह, देवकुवरबाई पुत्री फतेह सिंह, सरजूबाई बेवा फतेह सिंह जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	101	0.150	0.037	सिंचित
12	विजयसिंह पुत्र गुरुबक्स, कमलीबाई पुत्री गुरुबक्स, लीलाबाई पुत्री गुरुबक्स, चंदीबाई पुत्री गुरुबक्स, सुगनाबाई पुत्री गुरुबक्स, श्रीपृथ्वीसिंह पुत्र दौलतसिंह, सरवनसिंह पुत्र दौलतसिंह, लक्ष्मीबाई पुत्री दौलतसिंह, पुस्ता बाई पुत्री दौलतसिंह, अनुसुयाबाई पुत्री दौलतसिंह, गीताबाई बेवा दौलतसिंह जाति गेहलोत पता स देह रसूलिया घाट हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	69	0.400	0.304	सिंचित
13	प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह 1/2 संतोषबाई पुत्र अमर सिंह 1/2 जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	102	0.610	0.095	सिंचित
14	देवेन्द्र पुत्र भावसिंह जाति गेहलोत 1/4, रुकमणी पुत्री भावसिंह जाति गेहलोत 1/4, किरन पुत्री भावसिंह जाति गेहलोत 1/4, तनु पुत्री भावसिंह आ. नारायण सिंह जाति गेहलोत 1/4 पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	341/72/1	0.090	0.043	सिंचित
15	शिवचरण पुत्र उमराव जाति गेहलोत पता सादेह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	341/72/2	0.090		सिंचित

16	कैलाश पुत्र पन्नालाल जाति गेहलोत पता हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	74/1	0.106	0.015	सिंचित
17	विजयसिंह पुत्र गुरुबक्स, कमलीबाई पुत्री गुरुबक्स, लीलाबाई पुत्री गुरुबक्स, चंदीबाई पुत्री गुरुबक्स, सुगनाबाई पुत्री गुरुबक्स, श्रीपृथ्वीसिंह पुत्र दौलतसिंह, सरवनसिंह पुत्र दौलतसिंह, लक्ष्मीबाई पुत्री दौलतसिंह, पुस्ता बाई पुत्री दौलतसिंह, अनुसुयाबाई पुत्री दौलतसिंह, गीताबाई बेवा दौलतसिंह जाति गेहलोत पता स देह रसूलिया घाट हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	68	0.440	0.184	सिंचित
18	निविता पुत्री ओमप्रकाश, तमन्ना पुत्री ओमप्रकाश, अनुराधा पुत्री ओमप्रकाश, रितू नाबा पुत्री ओमप्रकाशसर माता स्वयं कविताबाई पत्नी ओमप्रकाश जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	98	0.390	0.322	सिंचित
19	शिवचरण पुत्र फतेह सिंह, होतमसिंह पुत्र फतेह सिंह, पुस्ताबाई पुत्री फतेह सिंह, पुस्ताबाई पुत्री फतेह सिंह, देवकुवरबाई पुत्री फतेह सिंह, सरजूबाई बेवा फतेह सिंह जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	97	0.150	0.116	सिंचित
20	निविता पुत्री ओमप्रकाश, तमन्ना पुत्री ओमप्रकाश, अनुराधा पुत्री ओमप्रकाश, रितू नाबा पुत्री ओमप्रकाश सर माता स्वयं कविताबाई पत्नी ओमप्रकाश जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश	99	0.390	0.068	सिंचित
21	संतोष पुत्र केशरी सिंह, राजेश पुत्र केशरी सिंह, किरण पुत्री केशरी सिंह, भावना पुत्री केशरी सिंह, अनिता बा पुत्री केशरी सिंह, ममता नाबा पुत्री केशरी सिंह, सर माता स्वयं फुलकुवरबाई वेवा केशरी सिंह जाति गेहलोत पता सा देह भोपाल	267	0.110	0.025	सिंचित
22	संतोष पुत्र केशरी सिंह, राजेश पुत्र केशरी सिंह, किरण पुत्री केशरी सिंह, भावना पुत्री केशरी सिंह, अनिता बा पुत्री केशरी सिंह, ममता नाबा पुत्री केशरी सिंह, सर माता स्वयं फुलकुवरबाई वेवा केशरी सिंह जाति गेहलोत पता सा देह भोपाल	266	0.630	0.089	सिंचित
23	नवीलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	271	0.420	0.106	सिंचित
24	नवीलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	269	0.250	0.239	सिंचित
25	नवीलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	270	0.670	0.257	सिंचित
26	प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह, कृष्णाबाई पुत्री अमर सिंह, रामप्यारीबाई पुत्री अमर सिंह, विन्दाबाई पुत्री अमर सिंह, संतोषबाई पुत्री अमर सिंह, राधाबाई पुत्री अमर सिंह, कान्ताबाई पुत्री अमर सिंह, विधाबाई पुत्री अमर सिंह, संगीताबाई पुत्री अमर सिंह, पता भोपाल	109/1	1.085	0.821	सिंचित

27	संतोष पुत्र केशरी सिंह, राजेश पुत्र केशरी सिंह, किरन पुत्री केशरी सिंह, अनिता पुत्री केशरी सिंह, ममता पुत्री केशरी सिंह, जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	109/2/1	0.681		सिंचित
28	नारायणदास गुप्ता पुत्र स्व श्यामलाल गुप्ता 1/2, श्रीमती माया गुप्ता पत्नी नारायण दास गुप्ता 1/2, पता निबी 1 सुरेन्द्र स्टेट चूनाभट्टी कोलार भोपाल	109/2/2	0.404		सिंचित
29	गोपीकृष्ण श्रीधरन पिता कृष्णन श्रीधरन 126/380, उमाशंकर शिवहरे पिता गंगाराम शिवहरे 126/380, भगवान सिंह कन्याल पिता बहादुर सिंह कन्याल 128/380, पता एफ 92/78 तुलसीनगर भोपाल	259	0.380	0.002	सिंचित
30	रेखा शर्मा पत्नी विमल शर्मा पता त्रिलंगा कोलार भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	96	0.540	0.001	सिंचित
			योग	4.258	

चूँकि पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्ड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 279-B-121-23-24

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम दूबड़ी की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृशकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
भोपाल	हुजूर	दूबड़ी	1.363	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल	पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

ग्राम:- दूबड़ी तहसील - हुजूर जिला:-भोपाल					
कमाक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हैं. मे	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	सम्पतबाई पुत्री रामलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	193	0.500	0.434	सिंचित
2	प्रहलादसिंह पिता कालूराम जाति धाकड़ पता दूबड़ी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	192/1	0.130	0.048	सिंचित
3	अवधनारायण पिता कालूराम जाति धाकड़ पता पता सा देह हुजूर हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	192/2	0.060	0.007	सिंचित
4	हनमंतसिंह पिता कालूराम जाति धाकड़ पता सा देह दूबड़ी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	192/3/1	0.030	0.001	सिंचित
6	राजेश पिता मुंशीलाल पता निवासी वार्ड न 03 म न 146 बैरागढ कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	190	0.630	0.511	सिंचित

7	राजलबाई बेवा मांगीलाल, मदनलाल पिता मांगीलाल, सुरेन्द्र पिता मांगीलाल, निर्मलाबाई बेवा सतीश, गरिमा ना बा पिता सतीश व सं मा स्वयं जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	194	0.200	0.051	सिंचित
8	कलीबाई बेवा रामगोपाल, कृष्णा पिता रामगोपाल, लखनलाल पिता रामगोपाल, होतम सिंह पिता रामगोपाल, शीलाबाई पिता रामगोपाल, कैलाश पिता रामगोपाल जाति धाकड़ पता सा देह भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	189	0.520	0.253	सिंचित
9	कलीबाई बेवा रामगोपाल, कृष्णापिता रामगोपाल, लखनलाल पिता रामगोपाल, होतम सिंह पिता रामगोपाल, शीलाबाई पिता रामगोपाल, कैलाश पिता रामगोपाल जाति धाकड़ पता सा देह भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	181	0.650	0.058	सिंचित
				योग	1.363

चूंकि पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 280-B-121-23-24

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम जाटखेड़ी की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृशकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
भोपाल	हुजूर	जाटखेड़ी	3.415	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल	पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

ग्राम:- जाटखेड़ी तहसील - हुजूर जिला:-भोपाल

क	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हैं. मे	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	रजलबाई बेवा रामप्रसाद, कैलाश पिता रामप्रसाद, मिश्रीलाल पिता रामप्रसाद, फुन्दीलाल पिता रामप्रसाद, केशरीलाल पिता रामप्रसाद, लक्ष्मीबाई पिता रामप्रसाद जाति बलाई पता नि ग्राम हुजूर भोपाल	328/1	0.097	0.035	सिंचित
2	राजलबाई पत्नि स्व. धन सिंह, दिनेशकुमार पुत्र स्व. धन सिंह, भरोसीबाई पुत्री स्व. धन सिंह, जियाबाई पुत्री स्व. धन सिंह, जाति बलाई पता नि ग्राम नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	328/2/1	0.246	0.246	सिंचित
3	दिनेश पिता धनसिंह जाति बलाई पता निवासी ग्राम हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	328/2/2	1.417	0.318	सिंचित
4	राहुल पिता रमेश जाति बलाई पता नि ग्राम हुजूर भोपाल	327/1/2	0.607	0.033	सिंचित

5	रजलबाई बेवा रामप्रसाद, कैलाश पिता रामप्रसाद, मिश्रीलाल पिता रामप्रसाद, फुन्दीलाल पिता रामप्रसाद, केशरीलाल पिता रामप्रसाद, लक्ष्मीबाई पिता रामप्रसाद जाति बलाई पता नि ग्राम हुजूर भोपाल	327/2	0.916	0.350	सिंचित
6	रमेश पिता सुखराम जाति बलाई पता नि ग्राम नि ग्राम हुजूर भोपाल	241/1	0.010	0.010	सिंचित
7	रजलबाई बेवा रामप्रसाद, कैलाश पिता रामप्रसाद, मिश्रीलाल पिता रामप्रसाद, फुन्दीलाल पिता रामप्रसाद, केशरीलाल पिता रामप्रसाद, लक्ष्मीबाई पिता रामप्रसाद जाति बलाई पता नि ग्राम हुजूर भोपाल	241/2	0.400	0.012	सिंचित
8	रमेश पिता सुखराम जाति बलाई पता नि ग्राम नि ग्राम हुजूर भोपाल	239/1/1	0.463	0.051	सिंचित
9	चन्द्रसिंह पिता रमेश जाति बलाई पता नि ग्राम हुजूर भोपाल	239/1/2	0.607	0.284	सिंचित
10	रजलबाई बेवा रामप्रसाद, कैलाश पिता रामप्रसाद, मिश्रीलाल पिता रामप्रसाद, फुन्दीलाल पिता रामप्रसाद, केशरीलाल पिता रामप्रसाद, लक्ष्मीबाई पिता रामप्रसाद जाति बलाई पता नि ग्राम हुजूर भोपाल	239/2	0.100	0.100	सिंचित
11	जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती पता नि टीलाखेड़ी भोपाल	245	0.400	0.273	सिंचित
12	जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती पता नि टीलाखेड़ी नि टीलाखेड़ी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	248	1.470	0.223	सिंचित
13	कमल सिंह पिता केवल सिंह जाति 1/2, रुकमणीबाई पुत्री केवल सिंह 1/2 जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल	232	0.430	0.027	सिंचित
14	राकेश पुत्र केवल सिंह भाग 1/2, कृष्णाबाई पुत्री केवल सिंह भाग 1/2 जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल	230/1	0.030	0.030	सिंचित
15	कमल सिंह पिता केवल सिंह जाति 1/2, रुकमणीबाई पुत्री केवल सिंह 1/2 जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल	230/2	0.190	0.138	सिंचित
16	पंकज वर्मा पिता राधेश्याम वर्मा, अजय वर्मा ना. बा. पिता राधेश्याम वर्मा, संरक्षक पिता राधेश्याम वर्मा पिता गुरुबख्श जाति खाती पता टीलाखेड़ी हुजूर भोपाल	228	1.090	0.119	सिंचित
17	पंकज वर्मा पिता राधेश्याम वर्मा, अजय वर्मा ना. बा. पिता राधेश्याम वर्मा, संरक्षक पिता राधेश्याम वर्मा पिता गुरुबख्श जाति खाती पता टीलाखेड़ी हुजूर भोपाल	231	0.090	0.002	सिंचित
18	जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती पता नि टीलाखेड़ी भोपाल	225	0.170	0.023	सिंचित
19	बद्रीप्रसाद पिता केवल सिंह 1/2 भाग, केशरबाई पुत्री केवल सिंह भाग 1/2 जाति खाती पता नि टीलाखेड़ी भोपाल	229/1	0.180	0.069	सिंचित
20	राकेश पुत्र केवल सिंह भाग 1/2, कृष्णाबाई पुत्री केवल सिंह भाग 1/2 जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	229/2	0.620	0.508	सिंचित

21	रजलबाई बेवा रामप्रसाद, कैलाश पिता रामप्रसाद, मिश्रीलाल पिता रामप्रसाद, फुन्दीलाल पिता रामप्रसाद, केशरीलाल पिता रामप्रसाद, लक्ष्मीबाई पिता रामप्रसाद जाति बलाई पता नि ग्राम हुजूर भोपाल	326	0.070	0.008	सिंचित
22	श्रीमती चन्दन बाई पत्नी किशोरी लाल यादव भाग 1/2 पता नि नीलबढ़ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, श्रीमती शाहजहां पत्नी मो युसुफ भाग 1/2 पता नि ऐशबाग स्टेडियम भोपाल	240	0.130	0.007	सिंचित
23	रमेश पिता सुखराम जाति बलाई पता नि ग्राम हुजूर भोपाल	242/1	0.030	0.005	सिंचित
24	जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती पता नि टीलाखेड़ी भोपाल	243	0.150	0.067	सिंचित
25	पंकज वर्मा पिता राधेश्याम वर्मा, अजय वर्मा ना. बा. पिता राधेश्याम वर्मा, संरक्षक पिता राधेश्याम वर्मा पिता गुरुबख्श जाति खाती पता टीलाखेड़ी हुजूर भोपाल	244	0.650	0.422	सिंचित
26	जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती पता नि टीलाखेड़ी भोपाल	226	0.300	0.002	सिंचित
27	धन सिंह पिता सुखराम जाति बलाई पता नि ग्राम भोपाल	329	0.120	0.053	सिंचित
			योग	3.415	

चूंकि पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 666-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 20 फरवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
 (क) जिला -सतना
 (ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
 (ग) नगर /ग्राम - चौरा
 (घ) क्षेत्रफल- 1.5950 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	177/1	0.0180
2	177/2/2	0.0090
3	184/1	0.0190
4	184/2/2	0.0450
5	184/3/1/2	0.0120
6	184/3/2	0.0760
7	183/1/1	0.1970
8	183/1/2	0.0110
9	180/1	0.0190
10	180/3/1	0.0210
11	180/3/2	0.0150
12	181/1/1/1	0.0280
13	181/3/1	0.0180
14	117/1	0.0830
15	117/2	0.0800
16	117/3	0.0770
17	119	0.0200
18	92/1	0.0770
19	92/2	0.0710
20	91	0.0580

21	90	0.0630
22	123/3	0.2110
23	124/3	0.0150
24	40/1	0.0070
25	72	0.0750
26	75	0.0680
27	74	0.0100
28	71/1	0.0140
29	71/2	
30	86/1	0.0690
31	86/2/3	0.0730
32	73	0.0360
कुल		1.5950

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला-मैहर (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन दायी तट की सीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका की करही वृत्त माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 667-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - असरार

(घ) क्षेत्रफल- 5.3270 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	362/1/1/2/2	0.0550
2	362/2/1	0.0800
3	363	0.0550
4	361/1/1/3	0.0080
5	361/1/1/4	0.0080
6	361/1/1/5	0.0080
7	361/1/2	0.1680
8	361/2	0.1530
9	353	0.0150
10	352	0.2520
11	351	0.0100
12	354	0.1080
13	356	0.1800
14	357/1/1/1	0.0250
15	357/1/1/2	0.0250
16	357/1/2	0.0480
17	357/2/1	0.0480
18	357/2/2/1	0.0250
19	357/2/2/2	0.0250
20	358/1	0.0080
21	358/2	0.0900
22	166	0.1400
23	168/2	0.0140
24	169	0.1280
25	170/1	0.1480
26	170/2	0.0280
27	304/1	0.0260

28	303/1	0.0150
29	305/1	0.0420
30	305/2	0.0680
31	307	0.1900
32	306	0.0220
33	323/1	0.0060
34	323/2	0.0050
35	323/3	0.0050
36	323/5	0.0060
37	324/1	0.1010
38	324/2	0.1010
39	322/1	0.1400
40	322/2	0.0840
41	321/1025	0.1050
42	320/1024/1	0.0620
43	320/1024/2	0.0610
44	320/1024/3	0.0620
45	320/1	0.0060
46	320/2	0.0060
47	320/3	0.0060
48	320/4	0.0060
49	320/5	0.0060
50	309	0.0800
51	281/1	0.0960
52	281/2	0.0020
53	281/3	0.0960
54	281/4	0.0960
55	280/1	0.0120
56	280/2	0.0120
57	280/3	0.0120
58	311	0.0670
59	272/1/1	0.0340
60	272/1/2	0.0360
61	272/1/3	0.0360
62	272/1/4	0.0340
63	272/1/5	0.0340
64	272/1/6	0.0340
65	272/2	0.0360
66	271/1/5	0.0650
67	273/1	0.1000
68	274/2	0.0020
69	275/2/1	0.1050

70	275/2/2	0.0520
71	265	0.1180
72	261/1	0.1270
73	429/1/1	0.0100
74	428	0.0040
75	432	0.0450
76	435/1/1	0.0240
77	435/1/2	0.0240
78	435/1/7	0.0930
79	435/1/8	0.0300
80	435/2	0.0300
81	436	0.1800
82	427	0.0380
83	430/1	0.0650
84	430/2	0.0650
85	322/1026	0.0080
86	279/1	0.0150
87	277	0.0120
88	433/998	0.0650
89	419	0.0160
90	276/2/1	0.0950
91	432/997	0.0650
92	321/1	0.0120
93	431	0.1620
कुल		5.3270

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला-मैहर (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत खरवाही वितरिका एवं बैजनहा वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 668-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - इटमा कोठार

(घ) क्षेत्रफल- 3.1940 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	277/1	0.2700
2	277/2/1	0.0820
3	277/2/2	0.0080
4	133/2/4	0.0100
5	133/2/5	0.0060
6	278/1/1/1/1	0.1040
7	278/1/1/2/1	0.0700
8	278/1/1/2/2	0.0840
9	278/1/2/1	0.0800
10	278/1/2/2	0.0800
11	278/2	0.1450
12	389/1	0.1300
13	137/2	0.0110
14	137/5/1	0.0100
15	137/5/2	0.0100
16	138	0.1220

17	141/1/2	0.0030
18	142/1/1	0.0450
19	142/2	0.0570
20	142/3	0.0720
21	143/1	0.0120
22	523/4	0.0200
23	524/3	0.1410
24	524/4	0.0880
25	524/5	0.0900
26	449/1/1/1	0.0300
27	449/1/2/1	0.0510
28	449/2/1	0.0120
29	448	0.0210
30	447/2	0.1090
31	447/3	0.2040
32	444/1	0.0600
33	444/2	0.0610
34	381/1	0.0960
35	381/2/1	0.0020
36	381/2/2	0.0110
37	382	0.0610
38	383	0.1360
39	282/2	0.0020
40	282/3	0.0140
41	283/2	0.0140
42	283/3	0.0390
43	284/1	0.1180
44	385/1/1	0.0100
45	385/1/2	0.1190
46	385/2/1	0.1340
47	386	0.0680
48	387	0.0260
49	305/1/1	0.0280
50	136/5/1	0.0080
51	144/1	0.0040
52	525	0.0060
कुल		3.1940

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला-मैहर (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन दायी तट की रीवा शाखा नहर अंतर्गत सोनौरा उपशाखा नहर 2 की भड़ारी कोठार माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 669-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - कर्पवाह कोठार

(घ) क्षेत्रफल- 0.6290 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	44	0.0250
2	47/2	0.0260
3	45/1	0.0460
4	19	0.0520
5	91/2	0.0350
6	69/1/1	0.0300
7	18	0.0370
8	88/2	0.0020
9	71/2	0.0020
10	92/2	0.0260
11	20	0.0200
12	91/1	0.0350
13	88/1	0.0020
14	71/1	0.0020
15	92/1	0.0250
16	70	0.0360
17	45/2	0.0470
18	43/1	0.0190
19	14/2	0.0020
20	14/1	0.0020
21	43/2	0.0190

22	42	0.0480
23	69/1/2	0.0030
24	61/1	0.0020
25	61/2	0.0160
26	87/1/1	0.0350
27	87/2/2	0.0350
कुल		0.6290

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला—मैहर (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन दायी तट की सीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका की चौरा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 670-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - देवरी

(घ) क्षेत्रफल- 3.6150 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	149	0.0760
2	389	0.0360
3	399/2	0.0020
4	399/3	0.0110
5	400/1	0.0850
6	401/1	0.0800
7	404/1	0.0040
8	403/1/1	0.0730
9	403/1/2	0.0810
10	409/1	0.0200
11	409/2	0.0400
12	409/3	0.0400
13	150/2/1	0.0160
14	150/2/2	0.0380
15	150/2/3	0.0380
16	150/2/4	0.0380
17	318/1/1	0.0160
18	318/1/2	0.0420
19	390/1	0.0910
20	291	0.0100
21	292/1	0.0950
22	292/2	0.0030

23	293	0.0160
24	295/1	0.0440
25	295/2	0.1250
26	429/1	0.0300
27	429/2	0.0400
28	430/1	0.0520
29	430/2	0.0520
30	374/2/1	0.0280
31	374/2/2	0.1620
32	375	0.0240
33	376	0.1550
34	377	0.0980
35	405/2	0.0120
36	372/2/1	0.0280
37	372/2/2	0.0270
38	372/2/3	0.0280
39	372/2/4	0.0270
40	373/2	0.0040
41	274	0.0650
42	275/1	0.0840
43	276	0.0320
44	278/1/1/1	0.0140
45	170	0.2350
46	173	0.0980
47	169/2	0.0100
48	323	0.1950
49	391/1	0.0210
50	391/3	0.0220
51	391/4	0.0330
52	236/2	0.1570
53	236/3	0.0510
54	232	0.1070
55	233	0.0080

56	6/1/1	0.0700
57	6/1/7	0.0700
58	6/1/8	0.0700
59	1/2	0.0510
60	1/6	0.0580
61	1/7	0.0480
62	1/8/2	0.0280
63	1/9	0.0430
64	1/13	0.0490
65	1/14	0.0590
66	1/19	0.0500
कुल		3.6150

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला—मैहर (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सोनौरा उप शाखा नहर 2 की, भड़ारी कोठार माइनर एवं बैजनहा वितरिका की डुड़हा माइनर, चकेरा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 671-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - इटमा नवीन

(घ) क्षेत्रफल- 1.1090 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	163/1	0.0130
2	163/2	0.0130
3	162/1	0.0240
4	162/2	0.0240
5	161/3	0.0280
6	161/4/1	0.0170
7	161/4/2	0.0170
8	161/4/3	0.0170
9	161/4/4	0.0340
10	160/1	0.0670
11	159/1	0.0300
12	159/2	0.0170
13	159/3	0.0170
14	145/1	0.0520
15	146	0.0360
16	147	0.0620
17	150/1	0.0130
18	150/2	0.0130
19	150/3	0.0130
20	150/4	0.0130
21	148/1	0.0080
22	148/2	0.0080
23	149/1	0.0020
24	149/2	0.0020
25	149/3	0.0020

26	149/4	0.0040
27	249/248	0.0360
28	250/2	0.0020
29	256	0.0370
30	257	0.0220
31	259/2	0.0480
32	231	0.0280
33	232/2	0.0360
34	234	0.0290
35	198/1	0.0140
36	198/2	0.0260
37	199	0.0280
38	200	0.0080
39	196/1/1	0.0060
40	196/1/2	0.0070
41	245/2	0.0120
42	195	0.2240
कुल		1.1090

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला—मैहर (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन दायी तट की रीवा शाखा नहर की बैजनहा वितरिका की इटमा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 672-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - चकेरा

(घ) क्षेत्रफल- 5.7740 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	401	0.0150
2	400/1	0.0050
3	400/2	0.0040
4	399/1	0.0020
5	399/2	0.0010
6	399/3	0.0010
7	395	0.0570
8	391/1	0.0030
9	391/2	0.0020
10	396/1	0.0080
11	396/2	0.0040
12	389/1/1/1	0.0320
13	343/1	0.0320
14	342/1/1/1/2	0.1250
15	342/1/6	0.0800
16	342/2/1	0.1900
17	342/2/2	0.2860
18	344/1/2/1/2/1	0.0500
19	344/1/2/1/3	0.0500
20	344/1/2/1/4/1	0.0440
21	344/1/2/1/4/2	0.0500
22	344/1/2/2	0.0500
23	344/2/1	0.0730
24	427/1	0.0560

25	427/2	0.0240
26	382	0.2260
27	383/1	0.0350
28	285/1/1/1	0.2500
29	285/2/4	0.0400
30	285/3	0.0320
31	450	0.0840
32	388	0.2020
33	85/1/1	0.0200
34	85/2	0.0190
35	86/1	0.0640
36	86/2	0.0280
37	526/1	0.0090
38	526/2	0.0090
39	526/3/1/1/1	0.0090
40	526/3/1/1/2	0.0090
41	526/3/1/2	0.0090
42	526/3/2/1/1	0.0090
43	526/3/2/1/2	0.0090
44	526/3/2/2	0.0090
45	526/4	0.0090
46	526/5/1	0.0090
47	526/5/2	0.0100
48	527/2	0.0670
49	527/3/1/2	0.0160
50	451	0.1010
51	452/2	0.0280
52	453/1	0.0580
53	453/2	0.0590
54	455/1	0.0370
55	455/2	0.0360
56	390/2	0.2640
57	392	0.0580
58	419/1/1/1	0.1160
59	419/1/1/2	0.1000
60	419/1/3	0.0240

61	419/540/1/1/1	0.0080
62	421	0.0910
63	456	0.0950
64	422/1	0.1520
65	422/2	0.0160
66	521	0.0140
67	522/1	0.0080
68	522/2	0.0080
69	522/3/1/1/1	0.0080
70	522/3/1/1/2	0.0080
71	522/3/1/2	0.0080
72	522/3/2	0.0080
73	522/4	0.0080
74	522/5/1	0.0080
75	522/5/2	0.0080
76	522/5/3	0.0080
77	522/5/4	0.0080
78	523	0.0120
79	524/1/1	0.0110
80	524/1/2	0.0110
81	524/2	0.0110
82	524/3/1/1/1	0.0110
83	524/3/1/1/2	0.0110
84	524/3/1/2	0.0110
85	524/3/2	0.0110
86	524/4	0.0110
87	524/5	0.0110
88	345/1/3/3	0.0190
89	345/2/2	0.0100
90	397	0.1040
91	172/1	0.0040
92	414	0.0130
93	415	0.0960
94	416	0.0860
95	370/3	0.1120
96	447/1	0.0120

97	449/1/1/1/1	0.0120
98	449/1/1/3	0.0780
99	449/1/2/1	0.0330
100	449/2	0.0310
101	170	0.1280
102	532/1/3	0.0500
103	532/2	0.0500
104	532/4	0.1020
105	418	0.1200
106	460	0.0280
107	461	0.0480
108	462	0.0440
109	463/1	0.0160
110	463/2	0.0160
111	463/3	0.0160
112	423/1	0.2370
113	423/2	0.0280
114	423/5	0.1000
115	87/545	0.0490
116	169/551	0.0600
117	393	0.0040
118	394/1	0.0750
119	394/2/1	0.0900
120	394/2/2	0.0200
कुल		5.7740

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला-मैहर (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन दायी तट की रीवा शाखा नहर की बैजनहा वितरिका एवं चकेरा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

^

क्र. 673-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला --सतना

(ख) तहसील-- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - गड़ौली

(घ) क्षेत्रफल- 2.3850 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. मे)
1	552/2	0.0540
2	556/4/3	0.0340
3	199/2/4	0.0030
4	450/1	0.0080
5	450/3	0.0170
6	449/1	0.0060
7	448/1	0.0310
8	448/2	0.0130
9	448/3	0.0310
10	448/4	0.0440
11	560/445/1	0.0710
12	560/445/2/1	0.0490
13	560/445/2/2	0.0510
14	444/1/2	0.0030
15	444/3	0.0030
16	491/1	0.0320
17	490/1	0.0650
18	489/3	0.4480
19	488/3	0.0090
20	483/3	0.0750
21	483/4	0.0750
22	482/3	0.0080
23	440/2	0.0580
24	440/3	0.0680
25	440/4/1	0.0650
26	440/4/2	0.0770
27	439/2	0.0030
28	439/4	0.0030
29	447/2/4	0.0100
30	195/1	0.0970

32	195/4/2	0.0390
33	197/1	0.0120
34	196/1	0.0060
35	553/1	0.0420
36	553/3/1	0.0290
37	553/3/2	0.0150
38	553/6	0.0280
39	555/2	0.0700
40	555/4/1	0.0580
41	555/4/2	0.0030
42	555/8/1	0.0070
43	555/8/2	0.0020
44	554	0.1120
45	550/1	0.0180
46	198	0.2010
47	446/2/4	0.0580
48	487/2/3	0.0250
कुल रकवा		2.3850

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला—मैहर (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत जरमोहरा वितरिका की जरमोहरा माइनर एवं गड़ौली माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 674-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर /ग्राम - बरा
(घ) क्षेत्रफल- 0.9680 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	3	5
2	241/1	0.0040
3	241/2	0.0100
4	285	0.0030
5	310/1	0.0090
6	391	0.0180
7	383	0.0120
8	384	0.0510
9	377	0.0030
10	376/1/1	0.0320
11	376/1/2	0.0320
12	376/2	0.0260
13	358	0.0080
14	357/1	0.0190
15	435/2	0.0220
16	475	0.0100
17	436	0.0250
18	437	0.0190
19	440	0.0220
20	452	0.0320
21	451	0.0210
22	448	0.0380
23	449	0.0120
24	420	0.0020
25	447/1	0.0150

26	439	0.0160
27	390/1	0.0320
28	393/2	0.0030
29	308	0.0580
30	307	0.0080
31	287	0.0050
32	240	0.0280
33	242/1	0.0310
34	268	0.0890
35	392	0.0280
36	252	0.0250
37	253	0.0320
38	269/2/1/1	0.0360
39	269/2/1/2	0.0320
40	269/2/2	0.0680
41	286	0.0320
कुल		0.9680

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला-मैहर (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत जरमोहरा वितरिका की जरमोहरा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 675-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - सोनकाचर

(घ) क्षेत्रफल- 1.7010 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	134/2	0.0260
2	125	0.0150
3	177/2/2	0.0100
4	177/2/8	0.0300
5	122	0.0380
6	106	0.0050
7	183/4/1	0.0900
8	133/2	0.0670
9	178/1/5	0.0400
10	126/4	0.0200
11	182/1	0.0070
12	176/4	0.0420
13	128	0.0400
14	133/1/1	0.0090
15	183/5	0.0430
16	184/1/1	0.2090
17	108	0.0300
18	109	0.0130
19	184/3	0.0290
20	179/5	0.0690
21	178/3/3	0.0370
22	124/2	0.0220
23	182/4	0.2340
24	183/3	0.0490
25	124/1	0.0220

26	176/1	0.0370
27	134/3	0.0320
28	177/3	0.0370
29	123	0.0230
30	129/1	0.1080
31	183/2	0.0810
32	111	0.0050
33	175/2	0.1180
34	107	0.0420
35	110	0.0060
36	127	0.0160
कुल		1.7010

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला—मैहर (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत जरमोहरा वितरिका की जरमोहरा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र.-न्याय. लि.-2024-478

उज्जैन, दिनांक 15 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा -2 के खण्ड एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियों म0प्र0 शासन गृह (पुलिस) विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक- एफ-2(4) 15/99/बी-3/दो/भोपाल दिनांक 11.10.2004 एवं ज्ञाप क्रमांक- एफ-2(क) 09/08/बी-3/दो/भोपाल दिनांक 30.07.2010 एवं ज्ञाप क्रमांक म0प्र0 शासन गृह विभाग का पत्र क्रमांक एफ-2(क) 04/ /1770880/2023/ बी-3/दो भोपाल दिनांक 04.01.2024 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है। उपरोक्तानुसार प्राप्त समिति के निर्णय दिनांक 09.01.2024 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-2 के खण्ड एस के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तंभ क्रमांक-1 में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक -2 में वर्णित पुलिस थाने/चौकी के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक-3 में वर्णित पुलिस थानों/चौकी के स्थानीय क्षेत्रमें सम्मिलित किया जाता है:-

क्रमांक	राजस्व ग्राम/ क्षेत्र का नाम स्तंभ क्रमांक 01	वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार स्तंभ क्रमांक 02	नवीन थाना/नवीन चौकी क्षेत्र जिसमें ग्राम सम्मिलित किया गया स्तंभ क्रमांक 03
1.	गोलामण्डी तिराहा	कोतवाली	खाराकुआ
2.	मिर्जा नईम बेग मार्ग	कोतवाली	खाराकुआ
3.	बृहस्पति मंदिर	कोतवाली	खाराकुआ
4.	मदनमोहन मंदिर (तेली राठौर समाज धर्मशाला)	कोतवाली	खाराकुआ
5.	काजी जी की मस्जिद	कोतवाली	खाराकुआ
6.	मुसद्दीपुरा	कोतवाली	खाराकुआ
7.	राम जी की गली	कोतवाली	खाराकुआ
8.	गुदरी चौराहा	महाकाल	खाराकुआ
9.	पानदरीबा	महाकाल	खाराकुआ
10.	बक्शीबाजार रामघाट मार्ग रामनुज कोट तक।	महाकाल	खाराकुआ
11.	योगमाया मंदिर, गणगौर दरवाजा।	महाकाल	खाराकुआ
12.	कार्तिक चौक, शीतला माता की गली, बडी तोडी, छोटी तोडी, सिंहपुरी, सोंपवाली गली आदि	महाकाल	खाराकुआ
13.	दानीगेट चौराहा से सत्यनारायण मंदिर ढाबा	महाकाल	खाराकुआ

	रोड, गबी साहब मंदिर के सामने वाली गली खत्रीवाडा।		
14.	सोभाग्यशेखर, अपकशेखर गली, मोदी गली से पटनी बाजार आदि	महाकाल	खाराकुआ
15.	टंकी चौक, कमरी मार्ग चौराहा	जीवाजीगंज	खाराकुआ
16.	कमरी मार्ग-केडीगेट होकर भार्गव चौराहा	जीवाजीगंज	खाराकुआ
17.	खजूर वाली मस्जिद से बुधवारिया तक	जीवाजीगंज	खाराकुआ
18.	बागला	बिरलाग्राम	उन्हेल
19.	जलवाल	भाटपचलाना	खाचरौद
20.	सिंगावदा	भाटपचलाना	बडनगर
21.	बडागांव	भाटपचलाना	खाचरौद
22.	चकनारायणगढ	भाटपचलाना	खाचरौद
23.	मगदनी	भाटपचलाना	खाचरौद
24.	सन्डावदा	भाटपचलाना	खाचरौद
25.	गेडावदा	भाटपचलाना	खाचरौद
26.	गुराडिया सागा	महिदपुर	उन्हेल
27.	कचारिया	महिदपुर	झारडा
28.	जोरमा लक्खा	महिदपुर	झारडा
29.	नीमखेडा	राघवी	झारडा
30.	देहटा	इंगोरिया	भाटपचलाना
31.	भडसिम्बा	कायथा	तराना
32.	लसुडिया बेचर	कायथा	तराना
33.	कामलीखेडा	कायथा	तराना
34.	नयाखेडा	माकडौन	तराना
35.	छोटी तिलावद	माकडौन	तराना
36.	चुनाखेडी	माकडौन	तराना
37.	लसुडिया हामीर	माकडौन	तराना
38.	जवासिया कुमार	नरवर	नागझिरी
39.	मानपुरा	नरवर	नागझिरी
40.	सुरजनवासा	नरवर	नागझिरी
41.	उमरिया जागीर	घट्टिया	पंवासा
42.	पिपलिया बीछा	घट्टिया	पंवासा
43.	नाहरिया	घट्टिया	चिमनगंज मण्डी
44.	सायरखेडी	घट्टिया	चिमनगंज मण्डी
45.	साहिबाखेडी	घट्टिया	चिमनगंज मण्डी
46.	पाट	माकडौन	पाट चौकी
47.	ढाबला हुर्द	माकडौन	पाट चौकी
48.	परसोली	माकडौन	पाट चौकी

49.	सुवास	माकडौन	पाट चौकी
50.	पारसी	माकडौन	पाट चौकी
51.	भरीयाखेडी	माकडौन	पाट चौकी
52.	बडोदिया	माकडौन	पाट चौकी
53.	इलमखेडी	माकडौन	पाट चौकी
54.	गुनाखेडी	माकडौन	पाट चौकी
55.	झलारा	माकडौन	पाट चौकी
56.	उमरिया	माकडौन	पाट चौकी
57.	झलारी	माकडौन	पाट चौकी
58.	सामटीयाखेडी	माकडौन	पाट चौकी
59.	मायाखेडी	माकडौन	पाट चौकी
60.	जफरपुर नेरा	माकडौन	पाट चौकी
61.	चांदनीये खेडी	माकडौन	पाट चौकी
62.	भाटखेडी	माकडौन	पाट चौकी
63.	भुण्डखेडी	माकडौन	पाट चौकी
64.	सुआगांव	माकडौन	करेडी चौकी
65.	बेरछी	माकडौन	करेडी चौकी
66.	उमराझर	माकडौन	करेडी चौकी
67.	पालखंदा	माकडौन	करेडी चौकी
68.	टाण्डा	माकडौन	करेडी चौकी
69.	शंकरपुर	माकडौन	करेडी चौकी
70.	शिवपुरा	माकडौन	करेडी चौकी
71.	बहादुर खेडा	माकडौन	करेडी चौकी
72.	मानपुरा	माकडौन	करेडी चौकी
73.	रामपुरा	माकडौन	करेडी चौकी
74.	दुंगनी	माकडौन	करेडी चौकी
75.	कतवारिया	माकडौन	करेडी चौकी
76.	गुण्डालिया	माकडौन	करेडी चौकी
77.	खुटपाला	माकडौन	करेडी चौकी
78.	कनासिया	मक्सी	तराना
79.	नैनावद	मक्सी	तराना
80.	दिलोद्री	मक्सी	तराना
81.	फानिया	मक्सी	तराना
82.	गोलवा	मक्सी	तराना
83.	रोजवास	मक्सी	तराना
84.	सामगी	मक्सी	तराना
85.	देवीखेडा	मक्सी	तराना
86.	बंजारी	मक्सी	तराना
87.	टिटोडी	मक्सी	तराना
88.	बरण्डवा	मक्सी	तराना
89.	दुधली	मक्सी	तराना
90.	पलदुना	मक्सी	तराना
91.	बघेरा	मक्सी	तराना
92.	लुनियाखेडी	मक्सी	तराना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह, उपसचिव एवं जिला दण्डाधिकारी

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

क्र.-एस.डब्ल्यू-9-4-01-2024-38

अशोकनगर, दिनांक 15 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के जाप क्रमांक/01/1770880/2023/बी-3/दो भोपाल, दिनांक 02.01.2024 के पालन में दिनांक 05.01.2024 को जिले के थानों/चौकियों की सीमा निर्धारण हेतु जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित पुलिस अधीक्षक, जिला अभियोजन अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण एवं सामाजिक संगठनों आदि से सुझाव प्राप्त किये गये। उक्त प्राप्त सुझावों पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के द्वारा अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त हुए, इन प्राप्त अनुशंसा प्रस्तावों पर दिनांक 15.01.2024 को जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें अधोहस्ताक्षरकर्ता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा निम्नांकित सारणी अनुसार निर्णय लिया गया है -

निम्नांकित सारणी के कॉलम नम्बर (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कॉलम नम्बर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करते हुये उनके सम्मुख कॉलम नम्बर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित किया जाना अधिसूचित किया जाता है।

स. क्र.	थाना/चौकी का नाम जिससे अपवर्जित किया गया है	सम्मिलित किये जाने वाले गाँवों के नाम		थाना/ चौकी का नाम जिसमें ग्राम को सम्मिलित किया जाना है
		क्षेत्रों के नाम	बंदोबस्त क्रमांक	
	(1)	(2)		(3)
1	थाना देहात	सियार	242	थाना नईसराय
2		गनिहारी	250	
3		खिरिया तेल	263	
4	थाना शादौरा	सोवत	395	थाना कचनार
5		सेपरा	394	
6		नागफन्नी	60	
7	थाना बहादुरपुर	टीला	136	थाना मुंगावली
8		नादनखेड़ी	175	
9		चाचूखेडा	102	
10		बंधी	237	
11	थाना सेहराई	अथाई बमुरिया	228	थाना पिपरई
12		बिजौरी	263	
13		शीतलपुर चक्क	389	
14	चौकी विक्रमपुर थाना चंदेरी	खलीलपुर	55	थाना सेहराई
15		पचमउआ	187	
16		पाइरी सेहराई	195	
17		अरौन	06	
18		भीलरी	287	
19	थाना कदवाया	मोहचार	169	थाना ईसागढ़
20		गहौरा	164	
21	थाना ईसागढ़	बढ़ौरा	230	थाना नईसराय
22	थाना पिपरई	सिलवारा कला	382	थाना सेहराई
23		सिलवारा खुर्द	383	
24	थाना मुंगावली	गुरैया परासरी	84	

तदनुसार सर्व संबंधितों को जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती है।

सुभाष कुमार द्विवेदी, जिला मजिस्ट्रेट.

अशोकनगर, दिनांक 15 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्र.-2) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्र.-2-(क)-15-99 बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र एफ-2-(क) 09-08-बी-3 दो दिनांक 05 सितम्बर 2013 कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक पुलिस थाना देहात, शाडौरा, बहादुरपुर, सेहराई कचनार, नईसराय, विक्रमपुर चौकी थाना चंदेरी, कदवाया, ईसागढ़, पिपरई, मुंगावली हेतु अधिसूचना जारी करने के संबंध में ग्रामों/क्षेत्रों का निर्धारण कर अनुशंसा भेजने हेतु एक संयुक्त बैठक दिनांक 15.01.2024 के निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से - एक- नीचे दी सारणी के कॉलम नम्बर (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कॉलम नम्बर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है। दो- सारणी के कॉलम नम्बर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम नम्बर (3) में उल्लेखित थाने में सम्मिलित करती है।

स. क्र.	थाना/चौकी का नाम जिससे अपवर्जित किया गया है	सम्मिलित किये जाने वाले गाँवों के नाम		थाना/ चौकी का नाम जिसमें ग्राम को सम्मिलित किया जाना है
		क्षेत्रों के नाम	बंदोबस्त क्रमांक	
	(1)	(2)		(3)
1	थाना देहात	सियार	242	थाना नईसराय
2		गनिहारी	250	
3		खिरिया तेल	263	थाना शाडौरा
4	थाना शाडौरा	सोवत	395	थाना कचनार
5		सेपरा	394	
6		नागफन्ची	60	थाना देहात
7	थाना बहादुरपुर	टीला	136	थाना मुंगावली
8		नादनखेड़ी	175	
9		चाचूखेड़ा	102	
10		बंधी	237	थाना पिपरई
11	अथाई बमुरिया	228		
12	थाना सेहराई	बिजौरी	263	थाना मुंगावली
13		शीतलपुर चक्क	389	
14	चौकी विक्रमपुर थाना चंदेरी	खलीलपुर	55	थाना सेहराई
15		पचमउआ	187	
16		पाडरी सेहराई	195	
17		अरौन	06	
18		भीलरी	287	थाना ईसागढ़
19	थाना कदवाया	मोहचार	169	
20		गहोरा	164	थाना नईसराय
21	थाना ईसागढ़	बढौरा	230	
22	थाना पिपरई	सिलवारा कला	382	थाना सेहराई
23		सिलवारा खुर्द	383	
24	थाना मुंगावली	गुरैया परासरी	84	

In exercise the powers conferred by clause (s) section-2 of the code of Criminal procedure 1973 (No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. -F2-(K)15-99-08-8-3-wo dated 30 July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to committee of District Collector, SP& DPO. In meeting Dated 15 January 2024 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and.
2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column (3) of the said table-

s.n.	Police station name from which excluded	Name of village/Local places		Police station name from which excluded
		Local places	Settlement no.	
	(1)	(2)		(3)
1	Dehat police station	Siyar	242	Naisarai police station
2		Ganihari	250	
3		Khiriya tel	263	Shadora police station
4	Shadora police station	Sowat	395	Kachnar police station
5		Sepra	394	
6		Nagfani	60	Dehat police station
7	Bahadurpur police station	Teela	136	Mungaoli police station
8		Nadankhedi	175	
9		Chachukheda	102	
10		Bandhi	237	Piprai police station
11	Athai bamuriya	228		
12	Sehrai police station	Bijori	263	Mungaoli police station
13		Shitalpur chakk	389	
14	Chouki viktampur police station chandra	Khalilpur	55	Sehrai police station
15		Pachmahua	187	
16		Padri sehrai	195	
17		Arron	06	
18		Bhilri	287	
19	Kadwaya police station	Mochar	169	Esagarh police station
20		Gahora	164	
21	Esagarh police station	Badoura	230	Naisarai police station
22	Piprai police station	Silwara kala	382	Sehrai police station
23		Silwara khurd	383	
24	Mungaoli police station	Guraiya parasari	84	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष कुमार द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र.-98-री.ए.डी.एम.-2024

इन्दौर, दिनांक 17 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (एस) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से -

1. उस थाने से जो की नीचे दी गई सारणी कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती और
2. (i) सुतारखेड़ी, आम्बाचंदन, भगोरा, सिधबडोदा, कटकट खेड़ी, करोंदिया (भगोरा के पास), न्यू गुराडिया, पत्थरनाला, चोरडिया जो थाना किशनगंज में है को थाना महू जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
- (ii) बंडा बस्ती सिग्नल बिहार कॉलोनी, कोदरिया जो थाना बडगौंदा में है को थाना महू जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
- (iii) बोरिया, बोरसी क्षेत्र जो थाना हातोद में है को थाना बेटमा जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
- (iv) सिकंदरी क्षेत्र जो थाना हातोद में है को थाना देपालपुर जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
- (v) पलासिया, मोहम्मदपुर लौंडिया जो थाना बेटमा में है को थाना हातोद जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
- (vi) काचरोद क्षेत्र जो थाना खुडैल में है को थाना सिमरोल जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
- (vii) पाल कांकरिया, जिंदाखेड़ा जो थाना चन्द्रावतीगंज में है को थाना हातोद जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है । और यह निर्देश देती हैं कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम न. (3) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे ।

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना महू, तहसील डॉ अम्बेडकर नगर (महू), जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	किशनगंज, तहसील डॉ अम्बेडकर नगर (महू) जिला इन्दौर	सुतारखेड़ी अम्बाचन्दन भगोरा सिधबडोदा कटकट खेड़ी करोंदिया (भगोरा के पास) न्यू गुराडिया पत्थरनाला चोरडिया
02	बडगौंदा, तहसील डॉ अम्बेडकर नगर (महू), जिला इन्दौर	बंडा बस्ती सिग्नल विहार कालोनी कोदरिया

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना बेटमा, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	हातोद, तहसील हातोद, जिला इन्दौर	वोरिया वोरसी

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना देपालपुर, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर में सम्मिलित किया जाता है।
1	2	3
01	हातोद, तहसील हातोद, जिला इन्दौर	सिकंदरी

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना हातोद, तहसील हातोद, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	बेटमा, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर	पलासिया मोहम्मदपुर लौंडिया
02	चन्द्रावतीगंज, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर	पाल कांकरिया जिंदाखेडा

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना सिमरोल, तहसील डॉ अम्बेडकर नगर (महू), जिला इन्दौर में सम्मिलित किया जाता है।
1	2	3
01	खुडैल, तहसील खुडैल, जिला इन्दौर	काचरोद

No.98-R.A.D.M.-2024

In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification proposing the local areas specified in the table below, The State Government, hereby, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh, Gazette" :-

- (i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the table below, and
- (ii) (a) Sutarkhedi, Ambachandan, Bhagora, Sidhbadoda, Katkat Khedi, Karondia (Near Bhagora), New Guradia, Patharnala, Chordiya which are under Kishanganj Police Station are declared to comes under Mhow Police Station, District Indore.
- (b) Banda Basti, Signal Bihar Colony, Kodaria which are under Police Station Badgonda are declared to come under Mhow Police Station, District Indore.
- (c) Boria, Borsi which are under Hatod Police Station are declared to comes under Betma Police Station, District Indore.
- (d) Sikandari which are under Hatod Police Station are declared to comes under Depalpur Police Station, District Indore.
- (e) Palasia, Mohammedpur Laundia which are under Betma Police Station are declared to comes under Hatod Police Station, District Indore.
- (f) Pal Kankaria, Jindakheda which are under Chandrawatiganj Police Station are declared to comes under Hatod Police Station, District Indore.
- (g) Kachrod which are under Khudel Police Station are declared to come under Simrol Police Station, District Indore.
- and provides the direction that the local areas specified will be included in the column (3) of the table given below.

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	Name of local areas included in Mhow, Tehsil Dr Ambedkar Nagar (Mhow) District Indore Police Station
1	2	3
1	Kishanganj Tehsil Dr Ambedkar Nagar (Mhow), District Indore	Sutarkhedi
		Ambachandan
		Bhagora
		Sidhbadoda
		Katkat Khedi
		Karondia (Near Bhagora)
		New Guradia
		Patarnala
		Chorundia

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	Name of local areas included in Mhow Police Station, Tehsil Dr Ambedkar Nagar (Mhow) District Indore
1	2	3
1	Badgonda, Tehsil Dr Ambedkar Nagar (Mhow), District Indore	Banda Basti Signal Bihar Colony Kodaria

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	Name of local areas included in Betma Police Station, Tehsil Depalpur, District Indore
1	2	3
1	Hatod, Tehsil Hatod, District Indore	Boria Borsi

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	Name of local areas included in Depalpur Police Station, Tehsil Depalpur, District Indore
1	2	3
1	Hatod, Tehsil Hatod, District Indore	Sikandari

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	Name of local areas included in Hatod Police Station, Tehsil Hatod, District Indore
1	2	3
1	Betma, Tehsil Depalpur, District Indore	Palasia Mohammedpur Londia
2	Chandrawatigan, Tehsil Sanwer, District Indore	Pal Kankaria Jindakheda

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	Name of local areas included in Simrol Police Station, Tehsil Mhow, District Indore
1	2	3
1	Khudel, Tehsil Khudel, District Indore	Kachrod

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं उपसचिव.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्र. 1542-एस.डब्ल्यू-24

राजगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2024

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का स.-2 की धारा 2 के खण्ड (एस) अन्तर्गत)

म.प्र. शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)/09/08/ बी-3 दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के परिपालन में जिले के भीतर थानों की सीमाओं के निर्धारण करने बाबत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला राजगढ़ अन्तर्गत थाना खुजनेर, छापीहेड़ा, सारंगपुर, पचोर, तलेन एवं लीमाचौहान क्षेत्रों में आने आले कुछ ग्रामों का जन सुविधा की दृष्टि से क्षेत्र परिवर्तन आवश्यक है।

अतः मैं हर्ष दीक्षित, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला राजगढ़, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक -2) की धारा 2 के खण्ड (एस) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये जिला राजगढ़ के निम्नानुसार गांवों को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थानों/चौकियों में पुर्ननिर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ। म.प्र. राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची में उल्लेखित किए गए गांव उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए अन्य थानो/चौकियों की परिसीमा में सम्मिलित किए जाते हैं:-

क्र.	ग्राम का नाम जिसकी सीमा का पुर्ननिर्धारण किया जाना है	ग्राम का वर्तमान थाना/चौकी	ग्राम को किस थाना/चौकी की सीमा में पुर्ननिर्धारण किया जाना है
1.	बुढनपुर	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
2.	आसारेटा पंवार	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
3.	आसारेटा रावत	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
4.	बनी	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
5.	लाटाहेड़ी	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
6.	टिकोद	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
7.	करौंदी	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
8.	निशाना	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
9.	लाखाखेड़ी	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
10.	कूडलासा	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
11.	निनोर	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
12.	निन्द्राखेड़ी	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
13.	नारायणगढ़	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
14.	रेठानी	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
15.	ईटावा	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
16.	जबरदी	थाना तलेन	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
17.	बरुखेड़ी	थाना पचोर	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर
18.	कोड़ियाखेड़ी	थाना तलेन	थाना पचोर
19.	अलूनी	थाना तलेन	थाना पचोर
20.	नैनवाड़ा	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर	चौकी उदनखेड़ी, थाना पचोर
21.	कमलसरा	चौकी पढ़ाना, थाना सारंगपुर	चौकी उदनखेड़ी, थाना पचोर
22.	ढाकनी	सारंगपुर	थाना लीमाचौहान
23.	पान्दा	थाना खुजनेर	थाना लीमाचौहान

24.	पान्दी	थाना पचोर	थाना लीमाचौहान
25.	बावली	थाना खुजनेर	थाना लीमाचौहान
26.	सुमरियाखेड़ी	थाना खुजनेर	थाना लीमाचौहान
27.	डोबड़ाजमीदार	थाना खुजनेर	थाना लीमाचौहान
28.	मेहरीमोटी	थाना खुजनेर	थाना लीमाचौहान
29.	चाटक्या	थाना खुजनेर	थाना लीमाचौहान
30.	पाटक्या	थाना खुजनेर	थाना लीमाचौहान
31.	कडलावद	थाना छापीहेड़ा	थाना लीमाचौहान
32.	कालापीपल	थाना छापीहेड़ा	थाना लीमाचौहान
33.	खजुरिया हरि	थाना छापीहेड़ा	थाना लीमाचौहान
34.	सुल्तानिया	थाना छापीहेड़ा	थाना लीमाचौहान
35.	घौसला	थाना छापीहेड़ा	थाना लीमाचौहान
36.	झांझाहेड़ी	थाना छापीहेड़ा	थाना लीमाचौहान
37.	देवलीमान	थाना छापीहेड़ा	थाना लीमाचौहान
38.	बुडनपुर	थाना छापीहेड़ा	थाना लीमाचौहान
39.	टोलीघाटा	थाना छापीहेड़ा	थाना लीमाचौहान
40.	चांदनी	थाना छापीहेड़ा	थाना लीमाचौहान
41.	पीपल्यामोची	थाना छापीहेड़ा	थाना लीमाचौहान
42.	धामन्दा	सारंगपुर	थाना लीमाचौहान
43.	गायन	सारंगपुर	थाना लीमाचौहान
44.	पट्टी	सारंगपुर	थाना लीमाचौहान
45.	घट्टिया	सारंगपुर	थाना लीमाचौहान
46.	रोजइकला	सारंगपुर	थाना लीमाचौहान
47.	सुल्तानपुरा	सारंगपुर	थाना लीमाचौहान
48.	दुगिया	सारंगपुर	थाना लीमाचौहान
49.	बिरजीपुरा	सारंगपुर	थाना लीमाचौहान
50.	बिदेशी	सारंगपुर	थाना लीमाचौहान
51.	काल्याखेड़ी	थाना खुजनेर	चौकी सण्डावता, थाना छापीहेड़ा
52.	घाटाखेड़ी	थाना खुजनेर	चौकी सण्डावता, थाना छापीहेड़ा
53.	भीलखेड़ा	थाना खुजनेर	चौकी सण्डावता, थाना छापीहेड़ा
54.	मूंडला मऊ	थाना खुजनेर	चौकी सण्डावता, थाना छापीहेड़ा

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.